

प्रस्तावना.

जैन साहित्य चार अनुयोगमां वहेंचायल्लं छे. ? द्रव्यानुयोग, २गणितानुयोग, ३चरणकरणानुयोग अने ४ धर्मकथानुयोग. पहेलामां छ द्रव्यनुं विविध प्रकारे वर्णन आवे छे; वीजामां पर्वत, क्षेत्र, नदी वगेरे शाश्वता पदार्थोनी लंवाइ, पहोळाइ, ऊंचाइ, परिधि, प्रतर अने घन वगेरेना गणितप्रमाणोनी हकीकत आवे छे; त्रीजामां चरणसित्तरी अने करणसित्तरीरूप यतिधर्म वताव्यो छे अने चौथामां बोध लइ अनुकरण करवा लायक पूर्व महापुरुषो अने स्त्रीओनां जीवनचरित्रो वर्णववामां आव्यां छे. आ चारे अनुयोगो यद्यपि मोक्षमार्ग मेळववा माटे उपकारक छे छतां तेमां पण द्रव्यानुयोग शीघ्र आत्महित सधावी आपे छे ज्यारे शेष त्रण अनुयोगो कंडक विलंबे मोक्षप्राप्ति करावी आपे छे. शेष त्रणमां पण द्रव्यानुयोग भळ्यो होय तो सोनामां सुगंध भळतां त्वरित ज कार्यसिद्धि थाय छे. धर्मकथानुयोगथी जीवन पवित्र वने छे, गणितानुयोगथी बुद्धि तीक्ष्ण थाय छे, चरणकरणानुयोगथी जीव कुशलानुबंधी क्रियामार्गमां जोडाय छे अने तेमां ज्यारे आत्मभान कराववारूप-जीवपुद्गल अथवा स्वपरनी वहेंचण कराववारूप द्रव्यानुयोग दाखल थाय छे त्यारं तेनां सघळां साधनो साचां-इष्ट-सिद्धि थवारूप-सफल थाय छे. द्रव्यानुयोगना अभ्यास, मनन अने परिशीलनथी जीवनो अधिकार उच्च थायछे. पछी ते सांसारिक के पौद्गलिक सुखमां लिप्त-आसक्त थतो नथी. ते सुखोने ते दुःखरूपे माने छे अने मोक्षसुखनीज साचा सुखरूपे वांछा करे छे कारण के तेने विवेकज्ञान प्रगट थयेल्लं होय छे. धर्मकथानुयोग सामान्य कोटिना जीवोने बहु उपकारक थाय छे परिणामे तेओ देश अने सर्वचारित्र तरफ वळतां अनुक्रमे द्रव्यानुयोगमां आवे छे अने आत्मसिद्धि करे छे.

आ ग्रंथ द्रव्यानुयोगविषयना संग्रहरूप छे. तेमां अन्ध ग्रंथोमांथी पसंद करी २? वस्तुओ संकलित करवामां आवी छे. तेनां नाम

અનુક્રમણિકામાં આપ્યાં છે, તે ઉપરથી જોઈ શકાશે. તે દરેક વસ્તુઓ આત્માને અત્યંત હિતકારી છે. તેને મળવાથી તથા સ્થિર ચિત્તે, શાંત સ્થિતિમાં, વસ્ત્ર અને કાયાથી પવિત્ર થઈ, શુદ્ધ ઉચ્ચાર સાથે, શ્રદ્ધાપૂર્વક ગણવાથી આત્માને સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે, જીવ અને દેહની ભિન્નતા સ્પષ્ટ થાય છે અને દેહના ધર્મો કે મુખદુઃખને જીવ પોતાનાં માનતો હતો, તેના મુખે મુખી અને દુઃખે દુઃખી થતો હતો, મારું કુટુંબ, મારો વંશ, એમ રટના કરતો હતો, લાભ અભાગે મુખ દુઃખ અને ઇષ્ટવિયોગે અનિષ્ટસંયોગે શોક શ્વેદ ધારણ કરતો હતો, તે અનાદિ કાળની મ્હોટી ભૂલ હતી, એમ સમજાય છે. પરિણામે તેનામાં આત્મજાગૃતિ પ્રગટ થતાં તેના કર્મ-વંધ પાતળા પડતા જાય છે અને જે કર્મવંધ પ્રમાદયોગે થઈ જાય છે તેને માટે પશ્ચાત્તાપ કરી જલ્દી તે કર્મનો ભાર હલવો કરે છે.

આ ગ્રંથ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા વગેરે દરેકને સ્વાધ્યાયાર્થે અવગ્ય ઉપયોગી થશે, એમ અમારું માનવું છે.

આ ગ્રંથ છપાવવામાં રૂ. ૨૦૧) શ્રી ધ્રાંગધ્રાના સંઘ તરફથી શ્રી દ્વાણાનિવાસી શાહ મુંદરજી જીવણદાસે પં૦ શ્રી મક્તિવિજયજી મહારાજ પાસે દીક્ષા લીધેલી તે વચ્ચે જ્ઞાન રાતે ઉપજેલી રક્મમાંથી આવ્યા છે અને રૂ. ૧૪૬) શ્રી રાણપુરના શાહ મણિલાલ નાગરદાસ તરફથી આ ગ્રંથ સ્વરીત્વા માટે આવ્યા છે. આ પ્રશંસનીય કાર્ય માટે ઉક્ત સંઘ તથા સદ્ગૃહસ્થનો ઉપકાર માનવામાં આવે છે.

પ્રાંતે આ ગ્રંથના મળવા ગણવાથી સહુ મહ્યાત્માઓ આત્મશાંતિ-આત્મસમાધિ મેળવો, સંસાર ઉપરથી ઉદાસીનતા પ્રાપ્ત કરો અને કર્મવંધમાં ઢીલા થઈ પરિણામે એકાંત આત્મહિત તરફ વળી કર્મથી મુક્ત થાઓ, એમ સદ્ભાવે ઇચ્છી અત્ર વિરમવામાં આવે છે.

મહેસાણા, સં. ૧૯૮૨ ની }
વૈશાખીપૂર્ણિમા. }

શ્રી જૈન શ્રેયસ્કર મંડલ,

अनुक्रमणिका.

नंवर.	वस्तुनुं नाम.	पृष्ठ.
१	चउसरण .. .	१
२	आउर पच्चक्खाण ..	९
३	परमानंद-पंचविंशतिः .	१८
४	समाधिशतक ...	२२
५	समताशतक . . .	३०
६	पुद्गलगीता .. .	३९
७	अध्यात्मगीता	४९
८	श्री सीमंधर स्वामीनुं सवासो गाथानुं स्तवन	५६
९	सम्यक्त्व विचार गर्भित महावीर जिन स्तवन	७०
१०	अठार पापस्थानकनी सजायो . .	८१
११	समकितना सडसठ वोलनी सजाय ...	९९
१२	यतिधर्मवत्रिशी... . . .	१०८
१३	परमात्मछत्रिशी . . .	१११
१४	क्षमाछत्रिशी	११४
१५	पद्मावतीआराधना . . .	११७
१६	अमृतवेलिनी सजाय . . .	१२०
१७	सारसमुच्चयः	१२३
१८	अध्यात्मविंदुप्रथमद्वारिंशिका ..	१५६
१९	मोक्षोपदेशे पंचाशत्	१६३
२०	सम्यक्त्वस्वरूपस्तव .. .	१६९
२१	आठ दृष्टिनी सजायो	१७२





आत्महितकर आध्यात्मिक वरतु संग्रह.

॥ ॐ श्रीमुनिसुव्रताय नमो नमः॥ ॐ श्रीसिद्धाचलाय
नमो नमः ॥ ॐ नमो गुरुभ्यः ॥

॥ १ ॥ चउसरण ॥

सावज्जजोगविरइ, उक्कित्तण गुणवओ अ पडिवत्ती।
खलियस्सनिंदणा वण-तिगिच्छ गुणधारणा चेव ॥१॥
चारित्तस्स विसोही, कीरइ सामाइएण किल इहयं
सावजेयरजोगाण, वज्जणासेवणत्तणओ ॥२॥
दंसणयारविसोही, चउवीसायत्थएण किच्चइ^१ य ।
अच्चप्पुअगुणकित्तण-रूवेणं जिणवरिंदाणं ॥३॥

नाणाइआ उ गुणा, तस्संपन्नपडिवत्तिकरणाओ ।
 वंदणएणं विहिणा, कीरइ सोही उ तेसिं तु ॥४॥
 खलिअस्स य तेसि पुणो, विहिणा जं निंदणाइ
 पडिकमणं ।
 तेण पडिकमणेणं, तेसिं पि य कीरअे सोही ॥५॥
 चरणाइ^१याइयाणं, जहक्कमं वणतिगिच्छरूवेणं ।
 पडिकमणासुद्धाणं, सोही तह काउस्सग्गेणं ॥६॥
 गुणधारणरूवेणं, पच्चक्खाणेण तवइआरस्स ।
 विरिआयारस्स पुणो, सव्वेहि वि कीरए सोही ॥७॥
 गयवसहसीहअभिसेअ,-दामससिदिणयरं झयं कुंभं
 पउमसरसागरविमाण,-भवणरयणुच्चयसिहिं च ॥८॥
 अमरिंदनरिंदमुणिंद-वंदियं वंदिउं महावीरं ।
 कुसलाणुवंधिवंधुर--मज्झयणं कित्तइस्सामि ॥९॥
 चउसरणगमण दुक्कड-गरिहा सुकडाणुमोयणा चेव ।
 एस गणो अणवरयं, कायवो कुसलहेउ त्ति ॥१०॥
 अरिहंतसिद्धसाहू, केवलिकहिओ सुहावहो धम्मो ।
 एए चउरो चउगइ--हरणा सरणं लहइ धन्नो ॥११॥
 अह सो जिणभत्तिभर ^२च्छरंतरोमंचकंचुअकरालो ।
 पहरिसपणउम्मीसं, सीसंमि कयंजली भणइ ॥१२॥

रागदोसारीणं, हंता कम्मद्वग्गाइअरिहंता ।
 विसयकसाघारीणं, अरिहंता हुंतु मे सरणं ॥१३॥
 रायसिरिमवकसित्ता, तवचरणं दुच्चरं अणुचरित्ता ।
 केवलसिरिमरहंता, अरिहंता हुंतु मे सरणं ॥१४॥
 धुइवंदणमरहंता, अमरिंदनरिंदपूअमरहंता ।
 सासयसुहमरहंता, अरिहंता हुंतु मे सरणं ॥१५॥
 परमणगयं मुणंता, जोइंदमहिंदझाणमरहंता ।
 धम्मकहं अरहंता, अरिहंता हुंतु मे सरणं ॥१६॥
 सवजिआणमहिंसं, अरहंतासच्चवयणमरहंता ।
 वंभवयमरहंता, अरिहंता हुंतु मे सरणं ॥१७॥
 ओसरणमवसरित्ता, चउतीसं अइसए निसेवित्ता ।
 धम्मकहं च ^१कहंता, अरिहंता हुंतु मे सरणं ॥१८॥
 एगाइ गिराणेगे, संदेहे देहिणं समं छित्ता ।
 तिहुअणमणुसासंता, अरिहंता हुंतु मे सरणं ॥१९॥
 वयणामएणं भुवणं, निव्वावंता गुणेसु ठावंता ।
 जिअलोअमुद्धरंता, अरिहंता हुंतु मे सरणं ॥२०॥
 अच्चप्पुअगुणवंते, नियजसससहरपसाहिअदिअंते ।
 निययमणाइअणंते, पडिवन्नो सरणमरिहंते ॥२१॥

उज्झयजरमरणाणं, समत्तदुक्खत्तसत्तसरणाणं ।
 तिहुअणजणसुहयाणं, अरिहंताणं नमो ताणं ॥२२॥
 अरिहंतसरणमलसुद्धि-लद्धसुविसुद्धसिद्धवहुमाणो ।
 पणयसिररइयकरकमल-सेहरो सहरिसं भणइ ॥२३॥
 कम्मद्वक्खयसिद्धा, साहाविअनाणदंसणसमिद्धा ।
 सव्वद्वलद्धिसिद्धा, ते सिद्धा हुंतु मे सरणं ॥२४॥
 तिअलोअमत्थयत्था, परमपयत्था अचित्तसामत्था ।
 मंगलसिद्धपयत्था, सिद्धा सरणं सुहपसत्था ॥२५॥
 मूलक्ख^१यपडिवक्खा, अमूढलक्खा सजोगिपच्चक्खा ।
 साहाविअत्तसुक्खा, सिद्धा सरणं परममुक्खा ॥२६॥
 पडिपिह्निअपडिणीआ, समग्गझाणग्गिदडुभव्वीआ ।
 जोईसरसरणीआ, सिद्धा सरणं समरणीया ॥२७॥
 पाविअपरमाणंदा, गुणनीसंदा वि^२दिन्नभवकंदा ।
 लहुईकयरविचंदा, सिद्धा सरणं खविअदंदा ॥२८॥
 उवलद्धपरमवंमा, दुल्लहलंभा विमुक्कसरंभा ।
 भुवणघरधरणखंभा, सिद्धा सरणं निरारंभा ॥२९॥
 सिद्धसरणेण नयवंभहेउ-साहुगुणजणिअअणुराओ ।
 मेइणिमिलंतसुपसत्थमत्थओ तत्थिमं भणइ ॥३०॥
 जिअलोअवंधुणो कुगइ-सिंधुणो पारगा महाभागा ।
 नाणाइओहिं सिवसुक्ख-साहगा साहुणो सरणं ॥३१॥

केवलिणो परमोही, विउलमई सुअहरा जिणमयंमि।
आयरियउवज्झाया, ते सव्वे साहुणो सरणं ॥३२॥

चउदसदसुभुवपुव्वी, दुवालसिक्कारसंगिणो जे अ।
जिणकप्पाहालंदिअ, परिहारविसु^१द्धिसाहू अ ॥३३॥

खीरासवमहुआसव, संभिन्नसोअकुट्टवुद्धी अ।

चारणवेउच्चिपयाणु--सारिणो साहुणो सरणं ॥३४॥

उज्झियवइरविरोहा, निच्चमदोहा पसंतमुहसोहा।

अभिमयगुणसंदोहा, हयमोहा साहुणो सरणं ॥३५॥

खंडिअसिणेहदामा, अकामधामा निकामसुहकामा।

सुपुरिसमप्पाभिरामा, आयारामा मुणी सरणं ॥३६॥

मिल्हिअविसयकसाया, उज्झिअघरघरणसंगसुहसाया।

अकलिअहरिसविसाया, साहू सरणं

गयपमाया ॥३७॥

हिंसाइदोससुन्ना, कयकारुन्ना सयंभुरुप्प^२न्ना।

अजरामरपह्खुन्ना, साहू सरणं सुकयपुन्ना ॥३८॥

कामविडंवणचुक्का, कलिमलमुक्का विमुक्कचोरिक्का।

पावरयसुरयंरिक्का, साहुगुणरयणचिच्चिक्का ॥३९॥

साहुत्तसुट्ठिआ जं, आयरियाई तओ अ ते साहू।

साहुभणिअेण गहिआ, तम्हा ते साहुणो सरणं४०॥

पडिवन्नसाहुसरणां, सरणं काउं पुणोवि जिणधम्मं ।

पहरिसरोमंचपवंच-कंचुअंचिअतणू भणइ ॥४१॥

पवरसुकएहि पत्तं, पत्तेहि वि नवरि केहि वि न पत्तं ।

तं केवलिपन्नत्तं, धम्मं सरणं पवन्नोहं ॥४२॥

पत्तेण अपत्तेण य, पत्ताणि य जेण नरसुरसुहाइं ।

सुखसुहं पुण पत्तेण, नवरि धम्मो स मे सरणं ॥४३॥

निद्वलिअकलुसकम्मो, कयसुहजम्मो खलीकय-

अहम्मो ।

पमुहपरिणामरम्मो, सरणं मे होउ जिणधम्मो ॥४४॥

कालत्तएवि न मयं, जम्मजरमरणवाहिसयसमयं ।

अमयं व बहुमयं, जिणमयं च सरणं पवन्नोहं ॥४५॥

पसामअकामपमोहं, दिट्ठुदिट्ठेसु न कलियविरोहं ।

सिवसुहफलयममोहं, धम्मं सरणं पवन्नोहं ॥४६॥

नरयगइगमणरोहं, गुणसंदोहं पवाइनिक्खोहं ।

निहणियवम्महजोहं, धम्मं सरणं पवन्नोहं ॥४७॥

भासुरसुवन्नसुंदर-रयणालंकारगारवमहग्घं ।

निहि मिव दोगच्चहरं, धम्मं जिणदेसिअं वंदे ॥४८॥

चउसरणगमणसंचिअ-सुचरिअरोमंचअंचिअसरीरो ।

कयदुक्कडगरि हाअसुह-कम्मक्खयकंखिरो भणइ ॥४९॥

इहभविअमन्नभविअं, मिच्छत्तपवत्तणं जमहिगरणं ।
जिणपवयणपडिकुट्टं, दुट्ठं गरिहामि तं पावं ॥५०॥

मिच्छत्ततमंधेणं, अरिहंताइसु अवन्नवयणं जं ।
अन्नाणेण विरइअं, इन्हिं गरिहामि तं पावं ॥५१॥

सुअधम्मसंघसाहुसु, पावं पडिणीअयाइ जं रइअं ।
अन्नेसु अ पावेसुं, इन्हिं गरिहामि तं पावं ॥५२॥

अन्नेसु अ जीवेसुं, मित्तीकरुणाइगोअरेसु कयं ।
परिआवणाइ दुक्खं, इन्हिं गरिहामि तं पावं ॥५३॥

जं मणवयकाएहिं, कयकारिअअणुमईहिं आयरियं ।
धम्मविरुद्धमसुद्धं, सव्वं गरिहामि तं पावं ॥५४॥

अह सो दुक्कडगरिहा--दलिउक्कडदुक्कडो फुडं भणइ ।
सुकडाणुरायसमुइन्न--पुन्नपुलयंकुरकरालो ॥५५॥

अरिहंतं अरिहंतेसु, जं च सिद्धत्तणं च सिद्धेसु ।
आयारं आयरिए, उ^३वज्झायत्तं उवज्झाए ॥५६॥

साहूण साहुचरिअं, देसविरइं च सावयजणाणं ।
अणुमन्ने सव्वेसिं, सम्मत्तं सम्मदिट्ठीणं ॥५७॥

अहवा सव्वं चिय वीअ--रायवयणाणुसारि जं सुकडं ।
कालत्तएवि तिविहं, अणुमोअमो तयं सव्वं ॥५८॥

१ अरिहत्तं ? २ एसु उज्झायत्तं, सुज्झायत्तं ?

सुहपरिणामो निच्चं, चउसरणगमाइ आयरं जीवो ।
 कुसलपयडीउ वंधइ, वद्धाउ सुहाणुबंधाउ ॥५९॥
 मंदणुभावा वद्धा, तिच्चणुभावा उ कुणइ ता चेव ।
 असुहाउ निरणुबंधाउ. कुणइ तिच्चोउ मंदाउ ॥६०॥
 ता अयेयं कायव्वं, बुहेहि निच्चंपि संकिलेसंमि ।
 होइ तिकाळं सम्मं, असंकिलेसंमि सुकयफलं ॥६१॥
 चउरंगो जिणधम्मो, न कओ चउरंगसरणमवि न कयं ।
 चउरंगभवच्छेओ, न कओ हा हारिओ जम्मो ॥६२॥
 इय जीवपमायमहारि--वीरभदंतमेयमज्झयणं ।
 जाअेसु तिसंजमवंज--कारणं निव्वुइसुहाणं ॥ ६३ ॥

॥ इय चउसरणपइन्नयं समत्तं ॥



२ ॥ आउर पञ्चकखाण ॥

देसिक्रदेसविरओ, सम्मदिट्टी मरिज जो जीवो ।
 तं होइ वालपंडिय-मरणं जिणसासणे भणियं ॥१॥
 पंच य अणुव्वयाइं, सत्त उ सिक्खाउ देसजइधम्मो ॥
 सव्वेण व देसेण व, तेण जुओ होइ देसजई ॥२॥
 पाणवहमुसावाअे--अदत्तपरदारनियमणेहिं च ।
 अपरिमिइच्छाओविय, अणुव्वयाइं विरमणाइं ॥३॥
 जं च दिसावेरमणं, अणत्थदंडाउ जं च वेरमणं ।
 देसावगासियंपि य, गुणव्वयाइं भवे ताइं ॥४॥
 भोगाणं परिसंखा, सामाइअ अतिहिसंविभागो य ।
 पोसहविही उ सव्वो, चउरो सिक्खाउ वुत्ताओ ॥५॥
 आसुक्कारे मरणे, अच्छिन्नाअे य जीवियासाए ।
 नाएहि वा अमुक्को, पच्छिमसंलेहणमकिच्चा ॥६॥
 आलोइअ निस्तलो, सघरे चेवारुहित्तु संथारं ।
 जइ मरइ देसविरओ, तं वुत्तं वालपंडिय ॥७॥
 जो भत्तपरिन्नाए, उवक्कमो वित्थरेण निदिट्ठो ।
 सो चेव वालपंडिय-मरणे नेओ जहाजुग्गं ॥८॥
 वेमाणिएसु कप्पो-वगेषु नियमेण तस्स उववाओ ।
 नियमा सिज्जइ उक्को-सएण सो सत्तमंमि भवे ॥९॥

इय वालपंडियं होइ, मरणमरिहंतसासणे दिट्टुं ।
 इत्तो पंडियपंडिय-मरणं बुच्छं समासेणं ॥१०॥
 इच्छामि भंते उत्तमट्टं पडिक्कमामि । अइयं पडिक्कमामि ।
 अणागयं पडिक्कमामि । पच्चुप्पन्नं पडिक्कमामि ।
 कयं पडिक्कमामि । कारियं पडिक्कमामि ।
 अणुमोइयं पडिक्कमामि । मिच्छतं पडिक्कमामि ।
 असंजमं पडिक्कमामि । कसायं पडिक्कमामि ।
 पावपओगं पडिक्कमामि । मिच्छादंसणपरिणामेसु वा ।
 इहलोगेसु वा । परलोगेसु वा ।
 सच्चित्तेसु वा । अचित्तेसु वा ।
 पंचसु इंदियत्थेसु वा ।
 अन्नाणंझाणे ॥ १ ॥ अणायारंझाणे ॥ २ ॥
 कुदंसणंझाणे ॥ ३ ॥ कोहंझाणे ॥ ४ ॥
 माणंझाणे ॥ ५ ॥ मायंझाणे ॥ ६ ॥
 लोहंझाणे ॥७॥ रागंझाणे ॥८॥ दोसंझाणे ॥ ९ ॥
 मोहंझाणे ॥१०॥ इच्छंझाणे ॥११॥ मिच्छंझाणे ॥ १२ ॥
 मुच्छंझाणे ॥ १३ ॥ संकंझाणे ॥ १४ ॥
 कंखंझाणे ॥ १५ ॥ गेहिंझाणे ॥ १६ ॥
 आसंझाणे ॥ १७ ॥ तन्हंझाणे ॥ १८ ॥
 छुहंझाणे ॥ १९ ॥ पंथंझाणे ॥ २० ॥
 पंथाणंझाणे ॥ २१ ॥ निहंझाणे ॥ २२ ॥

- नियाणंझाणे ॥ २३ ॥ नेहंझाणे ॥ २४ ॥
 कामंझाणे ॥ २५ ॥ कलुसंझाणे ॥ २६ ॥
 कलहंझाणे ॥ २७ ॥ जुज्झंझाणे ॥ २८ ॥
 निजुज्झंझाणे ॥ २९ ॥ संगंझाणे ॥ ३० ॥
 संगहंजाणे ॥ ३१ ॥ ववहारंझाणे ॥ ३२ ॥
 कयविक्रयंझाणे ॥ ३३ ॥ अणत्थदंडंझाणे ॥ ३४ ॥
 आभोगंझाणे ॥ ३५ ॥ अणाभोगंझाणे ॥ ३६ ॥
 अणाइहंझाणे ॥ ३७ ॥ वेरंझाणे ॥ ३८ ॥
 वियकंझाणे ॥ ३९ ॥ हिंसंझाणे ॥ ४० ॥
 हासंझाणे ॥ ४१ ॥ पहासंझाणे ॥ ४२ ॥
 पओसंझाणे ॥ ४३ ॥ फरुसंझाणे ॥ ४४ ॥
 भयंझाणे ॥ ४५ ॥ रूवंझाणे ॥ ४६ ॥
 अप्पपसंसंझाणे ॥ ४७ ॥ परनिंदंझाणे ॥ ४८ ॥
 परगरिहंझाणे ॥ ४९ ॥ परिग्गहंझाणे ॥ ५० ॥
 परपरिवायंजाणे ॥ ५१ ॥ परदूसणंजाणे ॥ ५२ ॥
 आरंभंजाणे ॥ ५३ ॥ संरंभंजाणे ॥ ५४ ॥
 पावाणुमोयणंजाणे ॥ ५५ ॥ अहिगरणंझाणे ॥ ५६ ॥
 असमाहिमरणंजाणे ॥ ५७ ॥ कम्मोदयपच्चयंझाणे ॥ ५८ ॥
 इड्ढिगारवंजाणे ॥ ५९ ॥ रसगारवंझाणे ॥ ६० ॥
 सायागारवंझाणे ॥ ६१ ॥ अवेरमणंझाणे ॥ ६२ ॥
 अमुत्तिमरणंझाणे ॥ ६३ ॥

पसुत्तस्स वा । पडिबुद्धस्स वा । जो मे कोइ
 देवसिओ राइओ उत्तमट्टे अइक्कमो वइक्कमो अइयारो
 अणायारो तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥

एस करेमि पणांमं, जिणवरवसहस्स वद्धमाणस्स ।
 सेसाणं च जिणाणं, सगणहराणं च सव्वेसिं ॥११॥

सव्वं पाणारंभं, पच्चक्खामित्ति अलियवयणं च ।

सव्वमदिन्नादाणं, मेहुन्न परिग्गहं चेव ॥ १२ ॥

सम्मं मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झं न केणइ ।

आसाओ वोसिरित्ताणं, समाहिमणुपालए ॥१३॥

सव्वं चाहारविहिं, सन्नाओ गारवे कसाए य ।

सव्वं चेव ममत्तं, चएमि सव्वं खमावेमि ॥१४॥

हुज्जा इमंमि समअे, उवक्कमो जीविअस्स जइ मज्झं ।

अेयं पच्चक्खाणं, विउला आराहणा होउ ॥१५॥

सव्वदुक्खपहीणाणं, सिद्धाणं अरहओ नमो ।

सदहे जिणपन्नत्तं, पच्चक्खामि य पावगं ॥१६॥

नमुत्थु धुअपावाणं, सिद्धाणं च महेसिणं ।

संथारं पडिवज्जामि, जहाकेवलिदेसियं ॥१७॥

अं किंचिवि दुच्चरियं, तं सव्वं वोसिरामि तिविहेणं ॥

सामाइअं च तिविहं, करेमि सव्वं निरागारं ॥१८॥

वज्झं अविंभतरं उवहिं, सरीराइ सभोयणं ।

मणसा वयकाएहिं, सव्वं भावेण वोसिरे ॥१९॥

सव्वं पाणारंभं, पच्चक्खामित्ति अलियवयणं च ।
 सव्वमदिन्नादाणं, मेहुन्न परिग्गहं चेव ॥२०॥
 सम्मं मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झ न केणइ ।
 आसाओ वोसिरित्ताणं, समाहिमणुपालथे ॥२१॥
 रागं वंधं पओसं च, हरिसं दीणभावयं ।
 उस्सुगत्तं भयं सोगं, रइं अरइं च वोसिरे ॥२२॥
 ममत्तं परिवज्जामि, निम्ममत्तं उवट्ठिओ ।
 आलंवणं च मे आया, अवसेसं च वोसिरे ॥२३॥
 आया हु महं नाणे, आया मे दंसणे चरित्ते य ।
 आया पच्चक्खाणे, आया मे संजमे जोगे ॥२४॥
 एगो वच्चइ जीवो, एगो चेषुववज्जए ।
 एगस्स चेव मरणं, एगो सिज्झइ नीरओ ॥ २५ ॥
 एगो मे सासओ अप्पा, नाणदंसणसंजुओ ।
 सेसा मे वाहिरा भावा, सव्वे संजोगलक्खणा ॥२६॥
 संजोगमूला जीवेण, पत्ता दुक्खपरंपरा ।
 तम्हा संजोगसंबंधं, सव्वं तिविहेण^१ वोसिरे ॥ २७ ॥
 मूलगुणे उत्तरगुणे, जे मे नाराहिया पयत्तेणं^२ ।
 तमहं सव्वं निंदे, पडिक्कमे आगमिस्साणं ॥ २८ ॥
 सत्त भए अट्टु मए, सन्ना चत्तारि गारवे तिन्नि ।

आसायण तिक्तीसं, रागं दोसं च गरिहामि ॥ २९ ॥
 असंजममन्नाणं, मिच्छत्तं सवमेव य ममत्तं ।
 जीवेसु अजीवेसु अ, तं निंदे तं च गरिहामि ॥३०॥
 निंदामि निंदणिज्जं, गरिहामि अ जं च मे गरहणिज्जं।
 आलोएमि अ सव्वं, अब्भितरवाहिरं उवहिं ॥३१॥
 जह बालो जंपंतो, कज्जमकज्जं च उज्जुअं भणइ ।
 तं तह आलोइज्जा, मायामयविप्पमुक्को^१ य ॥३२॥
 नाणंमि दंसणंमि य, तवे चरित्ते य चउसुवि अकंपो ।
 धीरो आगमकुसलो, अपरिस्सावी रहस्साणं ॥३३॥
 रागेण व दोसेण व, जं भे अकयन्नुआ पमाएणं ।
 जो मे किंचिवि भणिओ, तमहं तिविहेण खामेमि ॥३४॥
 तिविहं भणंति मरणं, वालाणं बालपंडियाणं च ।
 तइयं पंडियमरणं, जं केवलिणो अणुमरंति^२ ॥३५॥
 जे पुण अट्टमईया, पयलियसन्ना य वक्कभावा य ।
 असमाहिणा मरंति, न हु ते आराहगा भणिया ॥३६॥
 मरणे विराहिए देव-दुग्गई दुंल्लहा य किर वोही ।
 संसारो य अणंतो, हवइ पुणो आगमिस्साणं ॥३७॥
 का देवदुग्गई ? का-अवोहि ? केणेव वुज्झइ मरणं ? ।
 केण अणंतंपारं, संसारं हिंडई ? जीवो ॥ ३८ ॥

१. मायामोसं पमुत्तणं. २. अणुसरंति.

ऋदप्पदेवकिविस-अभिओगा आसुरी य संमोहा ।
 ता देवदुग्गईओ, भरणांसि विराहिए हुंति ॥ ३९ ॥
 मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा किन्हलेसमोगाढा ।
 इह जे मरंति जीवा, तेसिं दुलहा भवे वोही ॥ ४० ॥
 सम्मदंसणरत्ता, अनियाणा सुक्कलेसमोगाढा ।
 इह जे मरंति जीवा, तेसिं सुलहा भवे वोही ॥ ४१ ॥
 जे पुण गुरुपडिणीया, बहुमोहा ससवला कुसीला या
 असमाहिणा मरंति, ते हुंति अणंतसंसारी ॥ ४२ ॥
 जिणवयणे अणुरत्ता, गुरुवयणं जे करंति भावेणं ।
 असवलअसंकिलिट्टा, ते हुंति परित्तसंसारी ॥ ४३ ॥
 वालमरणाणि बहुसो, बहुआणि अकासगाणि मरणाणि,
 मरिहंति ते वराया, जे जिणवयणं न याणंति ॥ ४४ ॥
 सत्थग्गहणं विसभ-क्खणं च जलणं च जलप्पवेसो अ ।
 अणयारभंडसेवी, जम्मणमरणाणुबंधीणि ॥ ४५ ॥
 उट्टुमहे तिरियंमिवि, मयाणि जीवेण वालमरणाणि ।
 दंसणनाणसहगओ, पंडियमरणं अणुमरिस्सं ॥ ४६ ॥
 उट्ठेयणयं जाई-मरणं नरएसु वेअणाओ य ।
 एआणि संभरंतो, पंडियमरणं मरसुइन्हि ॥ ४७ ॥
 जइ उप्पज्जइ दुक्खं, तो दट्ठेवो सहावओ नवरं ।
 किं किं मए न पत्तं, संसारं^१ संसरंतेणं ॥ ४८ ॥

संसारचक्रवाले, सव्वेवि य पुग्गला मए बहुसो ।
 आहारिआ य परिणा-मिआय न यहं गओ तत्तिं ॥४९॥
 तणकट्टेहि व अग्गी, लवणजलो वा नइसहस्सेहिं ।
 न इमो जीवो सक्को, तिप्पेउं^१ कामभोगेहिं ॥ ५० ॥
 आहारनिमित्तेणं, मच्छा गच्छंति सत्तमिं पुढविं ।
 सच्चित्तो आहारो, न खमो^२ मणसावि पत्थेउं ॥५१॥
 पुढिं कयपरिकम्मो, अनियाणो ऊहिऊण मइबुद्धिं ।
 पच्छा मलिअकसाओ, सज्जो मरणं पडिच्छामि ॥५२॥
 अक्कंडेचिरभाविय, ते पुरिसा मरणदेसकालंमि ।
 पुढ्वकयकम्मपरिभा-वणाइ पच्छा परिवडंति ॥ ५३ ॥
 तम्हा चंदगविज्झं, सकारणं उज्जुएण पुरिसेण ।
 जीवो अधिरहियगुणो, कायव्वो मुक्खमग्गंमि ॥५४॥
 वाहिरजोगविरहिओ, अट्ठिभतरज्जाणजोगमल्लीणो ।
 जह तंमि देसकाले, अमूढसन्नो चयइ देहं ॥ ५५ ॥
 हंतूण रागदासं, छित्तूण^३ य अट्टकम्मसंघायं ।
 जम्मणमरणरहट्टं, छित्तूण^४ भवा विमुच्चिहिसि ॥५६॥
 एवं सव्वुवएसं, जिणदिट्ठं सदहामि तिविहेणं ।
 तसथावरखेमकरं, पारं निव्वाणमग्गस्स ॥ ५७ ॥
 न हि तंमि देसकाले, सक्को वारसविहो सुअक्खंधो ।
 सव्वो अणुचिंतेउं, धणियंपि समत्थचित्तेणं ॥ ५८ ॥

एगंमिवि जंमि पए, संवेगं वीअरायंमग्गंमि ।
 गच्छइ नरो अभिक्खं, तं मरणं तेण मरियव्वं ॥५९॥
 ता एगंपि सिलोगं, जो पुरिसो मरणदेसकालंमि ।
 आराहणोवउत्तो, चिंतंतो आराहगो होइ ॥६०॥
 आराहणोवउत्तो, कालं काऊण सुविहिओ सम्मं ।
 उक्कोसं तिन्नि भवे, गंतूणं लहइ निवाणं ॥ ६१ ॥
 समणुत्ति अहं पढमं, वीयं सव्वत्थ संजओमिति ।
 सव्वं च वोसिरामि, एयं भणियं समासेणं ॥६२॥
 लद्धं अलद्धपुव्वं, जिणवयणसुभासियं अमयभूअं ।
 गहिओ सुग्गइमग्गो, नाहं मरणस्स वीहेमि ॥६३॥
 धीरेणवि मरियव्वं, काउरिसेणवि अवस्स मरियव्वं ।
 दुन्हंपि हु ^१मरिअव्वे, वरं खु धीरत्तणे मरिउं ॥६४॥
 सीलेणवि मरियव्वं, निस्सीलेणवि ^२अवस्स मरियव्वं ।
 दुन्हंपि हु ^३मरिअव्वे, वरं खु सीलत्तणे मरिउं ॥६५॥
 नाणस्स दंसणस्स य, सम्मत्तस्स य चरित्तजुत्तस्स ।
 जो काही उवओगं, संसारा सो विमुच्चिहिसि ॥६६॥
 चिरउसिय वंभयारी, पप्फोडेऊण सेसयं कम्मं ।
 अणुपुवीइ विसुद्धो, गच्छइ सिद्धिं धुयकिलेसो ॥६७॥
 निक्कसायस्स दंतस्स, सूरस्स ववसाइणा ।
 संसारपरिभीअस्स, पच्चक्खाणं सुहं भवे ॥ ६८ ॥

१ मरिअव्वं. २ निस्सीलेणवि. ३ मरिअव्वं.

एयं पच्चक्खाणं, जो काही मरणदेसकालंमि ।
 धीरो अमूढसन्नो, सो गच्छइ उत्तमं ठाणं ॥६९॥
 धीरो जरमरणविऊ, धीरो विन्नाणन.णसंपन्नो ।
 लोगस्सुज्जोअगरो, दिसउ खयं सव्वदुक्खाणं ॥७०॥

॥ इय आउरपच्चक्खाणपइन्नयं समत्तं ॥

३ ॥ परमानंद-पंचविंशतिः ॥

परमानंदसंयुक्तं, निर्विकारं निरामयं ।
 ध्यानहीना न पश्यन्ति, निजदेहे व्यवस्थितं ॥१॥
 अनंतसुखसंपन्नं, ज्ञानामृतपयोधरं ।
 अनंतवीर्यसंपन्नं, दर्शनं परमात्मनः ॥ २ ॥
 निर्विकारं निराहारं, सर्वसंगविवर्जितं ।
 परमानंदसंपन्नं, शुद्धं चैतन्यलक्षणं ॥ ३ ॥
 त्रिभिर्विशेषकं.
 उत्तमा ह्यात्मचिंता स्यात्-मोहचिंता च मध्यमा ।
 अधमा कामचिंता स्यात्-परचिंताऽधमाऽधमा ॥४॥
 निर्विकल्पं समुत्पन्नं, ज्ञानमेवसुधारसं ।
 विवेकमंजलिकृत्वा, तं पिवन्ति तपस्विनः ॥५॥

सदानंदमयं जीवं, यो जानाति स पंडितः ।

संसेवते निजात्मानं, परमानंदकारणं ॥६॥

नलिन्यां च यथानीरं, भिन्नं तिष्ठति सर्वदा ।

अयमात्मा स्वभावेन, देहे तिष्ठति निर्मलः ॥७॥

द्रव्यकर्मविनिर्मुक्तं, भावकर्मविवर्जितं ।

मोकर्मरहितं विद्धि, निश्चयेन चिदात्मकं ॥८॥

आनंदं ब्रह्मणो रूपं, निजदेहे व्यवस्थितं ।

ध्यानहीना न पश्यति, जात्यंधा इव भास्करं ॥९॥

तद्ध्यानं क्रियते भव्यं, मनो येन विलीयते ।

तत्क्षणं पश्यति शुद्धं, चित्चमत्कारलक्षणं ॥१०॥

ये धर्मलीना मुनयः प्रधानाः

ते दुःखहीना नियतं भवंति ।

संप्राप्य शाधं परमात्मतत्त्वं, व्रजंति मोक्षं क्षणमेक

मध्ये ॥ ११ ॥

आनंदरूपं परमात्मतत्त्वं, समस्तसंकल्पविकल्पमुक्तं ।

स्वभावलीना निवसंति नित्यं, जानाति योगी स्वय-

मेव तत्त्वं ॥१२॥

सदानंदमयं शुद्धं, निराकारं निरामयं ।

अनंतसुखसंपन्नं, सर्वसंगविवर्जितं ॥ १३ ॥

लोकमात्र प्रमाणोऽहं, निश्चयेन न संशयः ।
 व्यवहारे देहमात्रः, कथितः परमेश्वरः ॥१४॥
 यत्क्षणं पश्यति शुद्धं, तत्क्षणं गतविभ्रमं ।
 सुस्थं चित्तं स्थिरीभूतं, निर्विकल्पसमाधिना ॥१५॥
 स एव परमं ब्रह्म, स एव जिनपुंगवः ॥
 स एव परमं चित्तं, स एव परमो गुरुः ॥१६॥
 स एव परमं ज्योतिः स एव परमं तपः ।
 स एव परमं ध्यानं, स एव परमात्मकं ॥१७॥
 स एव सर्वकल्याणं, स एव सुखभाजनं ।
 स एव शुद्धचिद्रूपं, स एव परमः शिवः ॥१८॥
 स एव परमानंदः, स एव सुखदायकः ।
 स एव परचैतन्यं, स एव गुणसागरः ॥१९॥
 परमाह्लादसंपन्नं, रागद्वेषविवर्जितं ।
 स अहं देहमध्येषु, यो जानाति स पंडितः ॥२०॥
 आकाररहितं शुद्धं, स्वस्वरूपे व्यवस्थितं ।
 सिद्धावष्टगुणोपेतं, निर्विकारं निरामयं ॥२१॥
 तत्सदृशं निजात्मानं, परमानंदकारणं ।
 संसेवते निजात्मानं, यो जानाति स पंडितः ॥२२॥
 पाषाणेषु यथा हेम, दुग्धमध्ये यथा घृतं ।
 तिलमध्ये यथा तैलं, देहमध्ये तथा शिवः ॥२३॥

काष्ठमध्ये यथा वह्निः, शक्तिरूपेण तिष्ठति ।
 अयमात्मा स्वभावेन, देहे तिष्ठति निर्मलः ॥२४॥
 अव्रतानि परित्यज्य, व्रतेषु परिनिष्ठितः ।
 त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य, परमं पदमात्मनः ॥२५॥

इति श्रीपरमानंदपंचविंशतिः संपूर्णा.



समाधि शतक.

दोहरा.

- समरी भगवती भारती, प्रणमी जिन जगबंधु;
केवल आत्मबोधको, करशुं सरस प्रबंध. ?
- केवल आत्मबोध है, परमार्थ शिवपंथ;
तामे जीनकी मगनता, सोइ भावनिग्रंथ. २
- भोगज्ञान जुं वालको, बाह्यज्ञानकी दोर;
तरुणभोग अनुभव जीस्यो, मगनभाव कछु ओर. ३
- आत्मज्ञाने मगन जो, सो सब पुद्गलखेल;
इंद्रजाळ करी लेखवे, मिले न तहां मनमेल. ४
- ज्ञान विना व्यवहारको, कहा वनावत नाच;
रत्न कहो को काचकुं, अंत काच सो काच. ५
- राचे साचे ध्यानमें, जाचे विषय न कोइ;
नाचे माचे मुगतिरस, आत्मज्ञानी सोइ. ६
- वहिर अंतर परम ए, आत्मपरिणति तीन;
देहादिक आत्मभरम, वहिरात्म बहु दीन. ७
- चित्तदोष आत्मभरम, अंतर आत्म खेल;
अति निर्मळ परमात्मा, नाहि कर्मको भेल. ८
- नरदेहादिक देखके, आत्मज्ञाने हीन;
इंद्रियवल वहिरात्मा, अहंकार मन लीन. ९

अलख निरंजन अकलगति, व्यापी रह्यो शरीर; लखै नुशाने आतमा, खीर लीन ज्युं नीर.	१०
अरिमित्रादिक कल्पना. देहातम अभिमान; निजपर तनु संबंधमति. ताको होत निदान.	११
देहादिक आतम भ्रमी, कल्पे निज परभाव; आतमज्ञानी जग लहे, केवल शुद्धस्वभाव.	१२
स्वपर विकल्पे वासना, होत अविद्यारूप; ताते बहुरी विकल्पमय, भ्रमजाल अंधकूप.	१३
पुत्रादिककी कल्पना, देहातम भ्रम भूल; ताकुं जड संपत्ति कहे, ह्या मोह प्रतिफल.	१४
या भ्रममति अव छांड दो, देखो अंतरदृष्टि; मोहदृष्टि जो छोडीए, प्रगटे निज गुणसृष्टि.	१५
रूपादिकको देखवो, कहन कहावन कूट; इंद्रिय योगादिक बले, ए सब लूटा लूट.	१६
परपद आतम द्रव्यकुं, कहन गुनन कलु नाहि; चिदानंदवन खेलही, निजपद तो निजमांही.	१७
ग्रहणअयोग्य ग्रहे नहि, ग्रहो न छोडे जेह; जाने सर्व स्वभावने, स्वपर प्रकाशक तेह.	१८
रूपके भ्रम सीपमें, ज्युं जड करे प्रयास; देहातमभ्रमतें भयो, त्युं तुज कूटअभ्यास.	१९
मिटे रजतभ्रम सीपमें, जनप्रवृत्ति जीम नाहि; न रमे आतमभ्रम मिटे, त्युं देहादिकमांहि.	२०
फीरे अवोधे कंडगत, चामीकरके न्याय; ज्ञानप्रकाशे मुगति तुज, सहज सिद्ध निरुपाय.	२१
या विन तुं मृतो सदा, योगे भोगे जेण; रूप अतींद्रिय तुं छते, कही शके कहुं केण.	२२

देखे भाखे औं करे, ज्ञानी सवहि अचंभ;	
व्यवहारे व्यवहारसुं, निश्चयमें थिर थंभ.	२३
जग जाणे उन्मत्त औं, औं जाणे जग अंध;	
ज्ञानीकुं जगमे रह्यो, युं नहि कोइ संबंध.	२४
या पर छांही ज्ञानकी, व्यवहारे ज्युं कहाइ;	
निर्विकल्प तुज रूपमें, द्विधा भाव न सुहाइ.	२५
युं वहिरातम छांडके, अंतरआतम होइ;	
परमातम मति भावीए, जहां विकल्प न कोइ.	२६
सोमें या दृढ वासना, परमातम पद हेत;	
इलिका भ्रमरी ध्यानगत, जिनमति जिनपद दैत.	२७
भारे भय पद सोइ हे, जहां जडको विश्वास;	
जीनसो औं डरतो फरे, सोइ अभयपद तास.	२८
इंद्रियवृत्ति निरोध करी, जो खिनु गलितविभाव;	
देखे अंतरआतमा, सो परमातमभाव.	२९
देहादिक ते भिन्नमें, सोथै न्यारे तेहु;	
परमातम पथ दीपिका, शुद्ध भावना एहु.	३०
क्रियाकण्ठ भि नहु लहे, भेद ज्ञान सुखवंत;	
या विन बहु विधि तप करे, तोभि नहि भवअंत.	३१
अभिनिवेश पुद्गलविषय, ज्ञानीकुं कहा होत;	
गुणको भी मद मिट गयो, प्रकटत सहज उद्योत.	३२
धर्म क्षमादिक भी मिटे, प्रकटत धर्मसन्यास;	
तो कल्पित भवभावमें, क्युं नहि होत उदास ?	३३
रज्जु अविद्याजनित अहि, मिटे रज्जुके ज्ञान;	
आतमज्ञाने त्युं मिटे, भावअबोध निदान.	३४
धर्म अरूपी द्रव्यके, नहि रूपी पर हेत;	
अपरमगुन राचे नही, युं ज्ञानी मति दैत.	३५

- नैगमनयकी कल्पना, अपरमभाव विशेषः
परमभावमें मगनता, अति विशुद्ध नयरेख, ३६
- रागादिक जब परिहरी, करे सहज गुणखोज;
घटमें भी प्रगटे तदा, चिदानंदकी सोज, ३७
- रागादिक परिणामयुत, मनहि अनंत संसार;
तेहिज रागादिकरहित, जाने परमपद मार, ३८
- भवमपंच मनजाळकी, वाजी जठरी मूळ;
चार पांच दिन खुश लगे, अंत धूळकी धूळ, ३९
- मोठ वागुरी जाल मन, तामें मृग मत होड;
यामें जे मुनि नहि परे, ताकुं अमुख न कोड, ४०
- जब निज मन सनमुख हुए, चिंतवत पर गुण दोष;
तब बहु राइ लगाइए, ज्ञान ध्यान रस पोष, ४१
- अहंकार परमें धरत, न लहे निज गुण गंध;
अहंज्ञान निज गुण लगे, छटे परहि संबंध, ४२
- अर्थ त्रिलिंगीपद लहे, सो नहि आत्मरूप;
तो पद करी कयुं पाइए, अनुभवगम्य स्वरूप, ४३
- आत्मगुण अनुभव तभी, देहादिकतें भिन्न;
भूले विभ्रमवासना-जोरे फिरे फिरे खिन्न, ४४
- देखें सो चेतन नही, चेतन नहि दिखाय;
रोष तोष किनमुं करे, आपहि आप बुझाय, ४५
- त्यागग्रहण बाहिर करे, मूढ कुशल अंतरंग;
बाहिर अंतर सिद्धकुं, नही त्याग अरु संग, ४६
- आत्मज्ञाने मन धरे, वचन काय रति छोड;
तो प्रकटे शुभ वासना, गुण अनुभवकी जोड, ४७

योगारंभीकुं असुख, अंतर वाहिर सुख;	
सिद्धयोगकुं सुख है, अंतर वाहिर दुःख.	४८
सो कहिए सो पूछीए, तामें धरीए रंग;	
याते मिटे अवोधता, बोध रूप व्हे चंग.	४९
नहि कछुं इंद्रियविषयमें, चेतनकुं हितकार;	
तो भी जन तामें रमे, अंधो मोहअंधार.	५०
मूढातमसुं ते प्रवळ, मोहे छोडि शुद्धि;	
जागत है ममताभरे, पुद्गलमें निज बुद्धि.	५१
ताकुं बोधनश्रम अफळ, जाकुं नही शुभ योग;	
आप आपकुं बूझवे, निश्चय अनुभवभोग.	५२
परको कीशो बूझावनो, तुं पर ग्रहण न लाग;	
चाहे जेमें बूझवो, सो नहि तुज गुणभाग	५३
जवलों प्राणी निज मते, ग्रहे वचन मन काय;	
तवलों है संसार थिर, भेदज्ञान मिट जाय.	५४
सुखम घन जीरन नवे, ज्युं कपरे त्युं देह;	
ताते बुध माने नहि, अपनी परिणति तेह.	५५
जैसे नाश न आपको, होत वस्त्रको नाश;	
तैसे तनुके नाशतें, चेतन अचल अनाश.	५६
जंगम जग थावर परे, जाकुं भासे नित्त;	
सो चाखे समतासुधा, अवर नहि जड चित्त.	५७
मुगति दूरी ताकुं नही, जाकुं स्थिर संतोष.	
दूर मुगति ताकुं सदा, जाकुं अविरतिपोष.	५८
होत वचन मन चपलता, जनके संग निमित्त,	
जन संगी होवे नहि, ता ते मुनि जग मित्त.	५९

- वास नगर वनके विषे, माने दुविध अबुद्ध;
आतमदरशीकुं वसती, केवल आतम शुद्ध. ६०
- आप भावना देहमें, देहंतर गति हेत;
आपवृद्धि जो आपमें, सो विदेहपद देत. ६१
- भवि शिवपद दे आपकुं, आपहि सनमुख होइ;
ताते गुरु है आतमा, अपनो और न कोइ. ६२
- सोवत है निज भावमें, जागे जे व्यवहार;
मृतो आतमभावमें, सदा स्वरूप अंधार. ६३
- अंतर चेतन देवके, वाहीर देहस्वभाव;
ताते अंतरज्ञानते, होइ अचळ दृढभाव. ६४
- भासे आतमज्ञान धुरी, जम उन्मत्त समान;
आगे दृढ अभ्यासते, पत्थर तृण अनुमान. ६५
- भिन्न देहतें भाविए, त्युं आपहीमें आप,
ज्युं स्वप्नहीमें नही हुए, देहातम भ्रम ताप. ६६
- पुण्य पाप व्रत अव्रत, मुगति दोउके त्याग;
अव्रत परे व्रत भी तजे, ताते धरी शिवराग. ६७
- परम भाव प्राप्ति लगे, व्रत धर अव्रत छोड,
परम भाव रति पायके, व्रतभि इनमे जोड. ६८
- दहनसमे ज्युं तृण दहे, त्युं व्रत अव्रत छेद;
क्रियाशक्ति इनमें नही, जागती निश्चय भेद. ६९
- व्रतगुण धारत अव्रती, व्रती ज्ञानगुण दोइ;
परमात्मके ज्ञानते, परमआतमा होइ. ७०
- लिंग देह आश्रित रहे, भवको कारण देह,
ताते भव छेहे नही, लिंग पक्ष रति जेह. ७१

- जाति देह आश्रित रहे, भवकी कारण देह;
ताते भव छेदे नहि, जाति पक्ष रति जेह. ७२
- जाति लिंगके पक्षमें, जीनकुं हैं दृढ राग;
मोहजाळमें सो परे, न लहे शिव सुख भाग. ७३
- लिंग द्रव्य गुण आदरे, निश्चय सुख व्यवहार;
बाह्य लिंग हठ नय मति, करे मूढ अविचार. ७४
- भावलिंग जाते भये, सिद्धा पनरस भेद;
ताते आतमकुं नहि, लिंग न जाति न भेद. ७५
- पंगु दृष्टि ज्युं अंधर्म, दृष्टिभेद नहु देत;
आतमदृष्टि शरीरमें, त्युं न धरे गुणहेत. ७६
- स्वप्न विकलतादिक दशा, भ्रम माने व्यवहार;
निश्चय नयमें दोषक्षय, विना सदा भ्रमचार. ७७
- छूटे नहि बहिरात्मा, जागतभि पलि ग्रंथ,
छूटे भवर्ये अनुभवी, सुपन विकल निग्रंथ. ७८
- पढी पार कहां पावनो, मिटयो न मनको चार;
ज्युं कोल्हके वेलकुं, घरही कोस हजार. ७९
- जहां बुद्धि थिर पुरुषकी, तहाँ रुचि तहाँ मन लीन;
आतम मति आतम रुचि, कहो कौन आधीन. ८०
- सेवत पर परमात्मा, लहे भविक तस रूप;
वतियां सेवत ज्योतिकुं, होवत ज्योतिसरूप. ८१
- आप आपमें स्थित हुए, तरुं अग्निउद्योत;
सेवत आपहि आपकुं, त्यु परमातम होत. ८२
- एहि परम पद भावीए, वचनअगोचर सार;
सहज ज्योति तो पाइए, फीर नही भवअवतार. ८३

- ज्ञानीकुं दुःख कहुं नही, सहज सिद्ध निर्वान;
सुख प्रकाश अनुभव भयो, सबहि ठोर कल्याण. ८४
- सुपनदृष्टि मुखनाशते, ज्युं दुःख न लहे लोक;
यागर दृष्ट विनष्टमें, त्युं बुधकुं नहि शोक. ८५
- सुख भावित दुःख पायके, क्षय पावे जगजान;
न रहे सो बहु तापमें, कोमल फूल समान. ८६
- दुःखपरितापे नवि गले, दुःख भावित मुनि ज्ञान;
वज्र गले नवि दहनमें, कंचनके अनुमान. ८७
- ताते दुःख सुभावीए, आप शक्ति अनुसार;
तो दृढतर हुइ उल्लसे, ज्ञान चरण आचार. ८८
- रनमें लरते सुभट ज्युं, गिने न वानप्रहार;
प्रभुरंजनके हेत त्युं, ज्ञानी अमुख प्रचार. ८९
- व्यापारी व्यापारमें, सुख करी माने दुःख;
क्रियाकष्ट सुखमें गिने, त्युं वंचित मुनि सुख. ९०
- क्रिया योग अभ्यास है, फल है ज्ञान अवंध;
दोनुंकुं ज्ञानी भजे, एक मति मति अंध. ९१
- इच्छा शास्त्र समर्थना, त्रिविध योग है सार;
इच्छा निज शक्ति करी, विकल योग व्यवहार. ९२
- शास्त्र योग गुणठाणको, पूरण विधि आचार;
पद अतीत अनुभव कह्यो, योग तृतीय विचार. ९३
- रहे यथा बल योगमें, गहे सकल नय-सार;
भावजैनता सो लहे, चहे न मिथ्या चार. ९४
- मारंगअनुसारी क्रिया, छेदे सो मतिहीन;
कपटक्रियाबल जग ठगे, सो भी भवजलमीन. ९५

निज निज मनमें लरी परे, नयवादी बहु रंग;	
उदासीनता परिणमे, ज्ञानीकूं सरवंग.	९६
दोउ लरै तिहां एक परे, देखनमें दुःख नाहि;	
उदासीनता सुखसदन, परप्रवृत्ति दुःख छांहि.	९७
उदासीनता सुरलता, समतारसफळ चाख;	
परपेखनमें मत परे, निजमें गुण निज राख.	९८
उदासीनता ज्ञानफळ, परप्रवृत्ति है मोह;	
शुभ जानो सो आदरो, उदित विवेक प्ररोह.	९९
दोधिकशतके उद्धर्युं, तंत्र समाधि विचार;	
धरो एह बुध कंठमें, भावरतनको हार.	१००
ज्ञानविमान चारित्रपवि, नंदन सहजसमाध;	
मुनिसुरपति समताशची,—वश रंगे रमे अगाध.	१०१
कवि जशविजये ए रच्यो, दोधिकशतक प्रमाण;	
एह भाव जो मन धरे, सो पावे कल्याण.	१०२

समता शतक.

दोहरा.

समता गंगा मगनता, उदासीनता जात;	
चिदानंद जयवंत हो, केवल भानु प्रभात.	१
सकल कलामें सार लय, रहो दूर स्थिति एह;	
सकल योगमें भि सकल, लय दे ब्रह्म विदेह.	२
चिदानंदविधुकी कला, अमृतबीज अनपाय;	
जाने केवल अनुभवी, किनहि कही न जाय.	३

- तो भी आश्रवतापके, उपशम करण निदान;
वरपतहुं ताके वचन, अमृत विंदु अनुमान. ४
- उदासीनता परिनयन, ज्ञान ध्यान रंग रोल;
अष्ट अंग मुनियोगको, एही अमृतनिचोल. ५
- अनासंग मति विषयमें, राग द्वेषको छेद;
सहज भावमें लीनता, उदासीनता भेद. ६
- ताको कारण अममता, तामें मन विश्राम;
करे साधु आनंदघन, होवत आतमराम. ७
- ममता धिर मुख शाकिनी, निर्ममता सुखमूल;
ममता शिव प्रतिकूल है, निर्ममता अनुकूल. ८
- ममता विष मूर्च्छित भये, अंतरंग गुणधुंद;
जागे भावनिरागता, लगत अमृतके धुंद. ९
- परिणति विषय विरागता, भवतरु मूल कुठार;
ता आगे कथुं करी रहे, ममता वेलि प्रचार. १०
- दृढा मोहकी वासना, बुधकुं भी प्रतिकूल;
या केवल श्रुतअंधता, अहंकारको मूल. ११
- मोहतिमिर मनमें जगे, याके उदय अलेह;
अंधकार परिणाम है, श्रुतके नामे तेह, १२
- करे मूढमति पुरुषकुं, श्रुत भी मद भय रोप;
ज्युं रोगीके खीर घृत, सन्निपातका पोप. १३
- ढाले दाह तृषा हरे, गाले ममतापंक;
लहरि भाववैरागकी, ताकुं भजो निशंक. १४
- राग भुजंगम विष हरन, धारो मंत्र विवेक;
भव वन मूल उछेदकुं, विलसे याकी टेक. १५

- रवि वीजो त्रीजो नयन, अंतर भाव प्रकाश;
करो धंध सब परिहरी, एक विवेक अभ्यास. १६
- प्रथम पुष्करावर्तके, वरषत हरख विशाल;
द्वेषहुताश बुझाइए, चिंता जालज टाल. १७
- किनके वश भववासना, होवे वेश्याधृत;
मुनिभी जीनके वश भये, हावभाव अवधूत. १८
- ज्युं ल्युं भवकी वासना, जगे मोहनिदान;
त्युं ल्युं रुचे न लोककुं, निर्मळ भाव प्रधान; १९
- विषय ताप भववासना, त्रिविध दोषको जोर;
प्रकटे याकी प्रवळता, क्वाथ कषाइ घोर. २०
- तातें दुष्ट कषायके, छेदे हित निज चित्त;
धरो एह शुभ भावना, सहज भावमें मित्त. २१
- सिद्ध औषधि इक क्षमा, ताको करो प्रयोग;
ज्युं मिटि जाये मोहघर, विषम क्रोध ज्वर रोग. २२
- चेतनकुं कोमल ललित, चिदानंदमय देह;
सूक भूक जुर जात है, क्रोध लंकर्ते तेह. २३
- क्षमा सार चंदन रसे, सिंचो चित्त पवित्त;
दया वेल मंडप तले, रहो लहो सुख मित्त. २४
- याको भासे सम वधू, क्षमा सहजमें जोर;
क्रोधयोध क्युं करी करे, सो अपनो बल सोर. २५
- देत खेदवर्जित क्षमा, खेदरहित सुखराज;
इनमें नहि संदेह कछु, कारन सरिखो काज. २६
- पर्वत गर्व शिखर चड्यो, गुरुकुंभी लघु रूप;
कहे तहां अचरज किश्यो, कथन ज्ञान अनुरूप. २७

- आठ शिखर गिरिराजके,—ठामे विमलालोक;
तो प्रकाशमुख क्युं लहे, विशम मान वग लोक. २८
- मानमहीधर छेद तुं, कर मृदुतापवि घात;
ज्युं मुख भारग सरलता, होवे चित्त विख्यात. २९
- मृदुता कोमल कमलयें, वज्रसार अहंकार;
छेदत हे एक पलकमें, अचरिज एह अपार. ३०
- विक्रमित माया वेलि घर, भव अटवीके बीच;
सोवत हे नित मूढ नर, नयन ज्ञानके मीच. ३१
- कोमलता बाहिर धरत, करत वक्र गति चार;
मायासापिणी जग डसे, ग्रसे सकल गुण सार. ३२
- ताके निग्रह करनकुं, करो ज्युं चित्त विचार;
समरो रुजुताजांगुली, पाठसिद्ध निरधार. ३३
- लोभ महा तरु शिर चढी, वढी ज्युं तृष्णावेली;
खेदकुमुम विकसित भइ, फले दुःखरुतु मेली. ३४
- आगर सवही दोपको, गुनधनको वड चोर;
व्यसनवेलिको कंद हे, लोभपास चिंह ओर. ३५
- लोभमेघ उन्नत भये, पापपंक बहु होत;
धर्मदंस रति नहु लहे, चाहे न ज्ञानउद्योत. ३६
- कोउ सयंभूरमनको, जे नर पावे पार;
सोभी लोभसमुद्रको, लहे न मध्य प्रचार. ३७
- मन संतोष अगस्तिकुं, ताके शोचनिमित्त;
नितु सेवो जीनिं सो कियो, निज जळ अंजलि मित्त. ३८
- याकि लालच तुं फिरे, चिते तुं डमडोल;
ता लालच मिटि जात घट, प्रकटे सुख रंगरोल. ३९

- धन मानत गिरिमृत्तिका, फिरत मूढ दुर्ध्यान;
अखय खजानो ज्ञानको, लखे न सुखनिदान. ४०
- होत न विजय कषायको, विनु इंद्रिय वश कीन;
ताते इंद्रिय वश करे, साधु सहज गुणलीन. ४१
- आप काज पर सुख हरे, धरे न कोसुं प्रीति;
इंद्रिय दुर्जन परि दहे, वहे न धर्म न नीति. ४२
- अथवा दुर्जनर्थे बुरे, इहपरभवदुःखकार;
इंद्रिय दुर्जन देतु हे, इहभवदुःख इक वार. ४३
- नयनफरस जनु तनु लमे, दहे दृष्टिविषसाप;
तिनसुंभी पापी विषे, सुमरे करे संताप. ४४
- इच्छाचारी विप्रयमें, फीरते इंद्रियग्राम;
वश कीजे पगमें धरी, यंत्र ज्ञान परिणाम. ४५
- उन्मारगगामी अवश, इंद्रिय चपल तुरंग;
खेंची नरकअरण्यमें, लेइ जाय निज संग. ४६
- जे नजीक हे श्रमरहित, आपहीमें सुखराज,
बाधत है ताकुं करन, आप अरथके काज. ४७
- अंतरंग रिपु कटक भट, सेनानि बलवंत;
इंद्रिय क्षणमें हरत है, श्रतवल अतुल अनंत. ४८
- अनियत चंचल करण हय, पद प्रवाह रजपूर;
आशा छादक करतु हैं, तत्त्वदृष्टि बल दूर. ४९
- पंच वाण इंद्रिय करी, काम सुभट जग जीति,
सबके शिर पद हेतु हे, गणे न कोसुं भीति. ५०
- वीर पंच इंद्रिय लही, कामनृपति बलवंत;
करे न संख्या पूरणी, सुभट सेणिकी तंत. ५१

- दुःख सवहि सुख विषयको, कर्म व्याधि प्रतिकार;
 ताकुं मन्मथ सुख कहे, धूर्त जगत दुःखकार. ५२
- ठगे कामके सुख गिने, पाइ विषयकी भीख.
 सहज राज पावत नहि, लगो न सद्गुरुशीख. ५३
- अप्रमाद पवि दंडथें, करी मोह चकचूर;
 ज्ञानी आतमपद लहे, चिदानंद भरपूर. ५४
- जाके राज विचारमें, अवला एक प्रधान;
 सो चाहत है ज्ञानजय, कैसे काम अयान. ५५
- और भ्रांति मिटि जात है, प्रकटत ज्ञानउद्योत;
 ज्ञानीकुं भि विषयभ्रम, दिशा मोह सम होत. ५६
- दाखे आप विलास करी, जूठेकुंभि साच;
 इंद्रजाल परे कामिनी, तामुं तुं मत राच. ५७
- हसितफूल पल्लवअधर, कुचफल कटिन विशाल;
 प्रिया देखी मत राच तुं, या विषवेलि रसाल. ५८
- चर्ममढित हे कामिनी, भाजन मूत पुरीख;
 काम क्रीट आकुल सदा, परिहर सुनि गुरुशीख. ५९
- विषय तजे सो सव तजे, पातिक दोष वितान,
 जलधि तरत नत्रि कयुं तरै, तटिनी गंग समान. ६०
- चाटे निज लालामिलित, -शुष्क हाड ज्युं श्वान;
 तेसैं राचे विषयमें, जड निज रुचि अनुमान. ६१
- भूखन बहु बनावते, चंदन अरचत देह;
 वंचत आपही आपकुं, जड धरी पुद्गलनेह. ६२
- दुर्दमनके जय किये, इंद्रिय जग सुख होत;
 तार्त मन जय करनकुं, करी सिचार उद्योत. ६३

- विषयग्रामकी सीममें, इच्छाचारी चरंत;
जिन आणा अंकुश धरी, मनगज वश करो संत. ६४
- एक भाव मनपौनको, जूठ कहे ग्रंथकार;
यार्त पवनहिते अधिक, होत चित्तको चार. ६५
- जामें राचे ताहिमें, विरचे करी चित्तचार,
इष्ट अनिष्ट न विषयको, युं निश्चय निरधार. ६६
- केवलतामें कर्मको, रागद्वेष ते बंध;
परमं निज अभिमान धरी, क्या फिरत हो अंध. ६७
- जैसे ललना ललितमें, भाव धरतु हे सार;
तैसे मैत्रीप्रमुखमं, चित्त धरी कर सुविचार. ६८
- बाहिर बहुरि कहा फिरे, आपहिमें हित देख;
मृगतृष्णा सम विषयको, सुख सब जानि उवेख. ६९
- प्रिय अप्रिय व्यवहार निज, रुचिरस साचो नाहि;
अंगज वल्लभ सुत भयो, यूकादिक नहि काहि. ७०
- होवत सुख नृप रंककुं, नोवत सुनत समान;
इक भोगे इक नाहि सो, बढयो चित्त अभिमान. ७१
- भवको सुख संकल्प भव, कृत्रिम जिसो कपूर;
रंजत है जन मुग्धकुं, वजित ज्ञानअंकूर. ७२
- गुन ममकार न वस्तुको, सो वासनानिमित्त;
माने सुतमें सुत अधिक, दोरत है हित चित्त. ७३
- मनकृत ममता जूठ है, नहीं वस्तुपरजाय;
नहि तो वस्तु विकाययें, क्युं ममता मिटि जाय ? ७४
- जन जनकी रुचि भिन्न है, भोजन कर कपूर;
भोगवतकुं जो रुचे, करभ करे सो दूर. ७५

- करभ हसे नृपभोगकुं, हसे करभकुं भूप;
उदासीनता विनु नही, दोनुं कुं रति रूप. ७६
- परमे राचे पररुचि, निजरुचि निज गुणमांहि;
खेले प्रभु आनंदघन, धरि समता गले वांहि. ७७
- मायामय जगको कह्यो, जहां सवहि विस्तार;
ज्ञानीकुं हावत कहां, तहां शोकको चार. ७८
- शोचत नहि अनित्यमति, होवत माल मलान;
भांडेभी शोचत भगे, धरत नित्य अभिमान. ७९
- कूट वासना मढित हय, आशा तंतु वितान;
छेदे ताकुं शुभमति, कर धरी बोधकूपान. ८०
- जननी मोह अंधारकी, मायारजनी क्रूर;
ज्ञानभानु आलोकते, ताको कीजे दूर. ८१
- उदासीनता मगन हुइ, अध्यातम रस कूप;
देखे नहि कछुं और जव, तव देखे निज रूप. ८२
- आगे करी निःसंगता, समता सेवत जेहु;
रमे परभआनंदरस, सत्ययोगमें तेहु. ८३
- दंभही जनित असंगता, इहभवके सुख देत;
दंभरहित निःसंगता, कोन दूर सुख देत. ८४
- मत हो संग निव्रत्तकुं, प्रेम परम गति पाइ;
ताको समता रंग पुनि, किनही कह्यो न जाय. ८५
- तिसना विद्रुम वल्लि घन, विषय घुमर बहु जोर;
भीम भयंकर खेद जल, भवसागर चिंहुं और. ८६
- चाहे ताको पार तो, सज कर समतानाउ;
शीलअंग दृढ प्राटीए, सहसं अडार बनाउ. ८७

- कूवा थंभ शुभ योग परी, बैठे मालीम ज्ञान;
अध्यातम सह वले चले, संयम पौन प्रमाण. ८८
- योगी जे बहु तप करे, खाइ जुरे तरुपात;
उदासीनता विनु भस्म, हुतिमें सोभि जात. ८९
- छूटे भवके जालथें, जीनहि तप करी लोक;
सोभी मोहे काहुकुं, देत जनमको शोक. ९०
- विषयउपद्रव सब मिट्यो, होवत सुख संतोष;
ताते विषयातीत है, देत शांत रस पोख. ९१
- विन लालच वश होत है, वशा वात यह साच;
याते करे निरीहके, आगे सम रति नाच. ९२
- दे परिमल समतालता, वचनअगोचर सार;
नित्य वीहीरीभी ज्यां वसे, लहतु प्रेम महकार. ९३
- सेना राखस मोहकी, जीपे सुखे प्रबुद्ध;
ब्रह्मवानीक लेइके, समता अंतर शुद्ध. ९४
- कवि मुख कल्पित अमृतके, रसम मूझत कांही;
भजो एक समतासुधा, रति धरी शिवपदमांही. ९५
- योग ग्रंथ जलनिधि मथो, करी मेरु मंथान;
समताअभृत पाइके, हो अनुभव रस जान. ९६
- उदासीनमति पुरुष जो, समतानिधि शुभ वेश;
छोरत ताकुं क्रोधकी धुं, आपे कर्म अशेष. ९७
- शुद्ध योग श्रद्धान धरी, नित्य करमको त्याग;
प्रथम करे जो मूढ सो, उभयभ्रष्ट निर्भाग. ९८
- क्रियामूढ जूटी क्रिया, करे न थापे ज्ञान;
क्रियाभ्रष्ट एक ज्ञानमति, छेदे क्रिया अप्पात. ९९

ते दोनुंथें दूरि शिव, जे निज बल अनुसार;	
मार्गरुचि मारग गहे, सो शिवसाधनहार.	१००
निवृत्तिललनाकुं सहज, अचरिजकारी कोउ;	
जो नर याकुं रुचत है, याकुं देखे सोउ.	१०१
मनपारद मूर्छित भयो, समताऔपधि आइ;	
सहज वेध रस परम गुन, सोवनसिद्धि कमाइ.	१०२
बहुत ग्रंथ नय देखिके, महा पुरुष कृत सार;	
विजयसिंह सूरि कियो, समता शतको हार.	१०३
भावत जाकुं तत्त्व मन, हो समता रस लीन;	
ज्युं प्रगटे तुज सहज सुख, अनुभवगम्य अहीन.	१०४
कवि यशविजय सुशीख ए, आप आपकुं देत;	
शाम्यशतक उद्धार करी, हेमविजय मुनि हेत.	१०५

६ श्रीचिदानंदजी कृत पुद्गलगीता.

संतो देखीर्ये बे, परगट पुद्गल जाल तमासा.	
पुद्गल खाणो पुद्गल पीणो, पुद्गल हुंथी काया;	
वर्ण गंध रस फरस सहु ए, पुद्गलहुंकी माया.	सं० १
खान पान पुद्गल वनावे, नहीं पुद्गल विण काय;	
वर्णादिक नहीं जीवमें बे, दीनो भेद बताय.	सं० २
पुद्गल काला नीला राता, पीला पुद्गल होय;	
धवला युत ए पंचवरण गुण, पुद्गलहुंका जोय.	सं० ३
पुद्गलविण काला नहि बे, नील रक्त अरु पीत;	
श्वेत वर्ण पुद्गल विना बे, चेतनमें नहि मीत.	सं० ४

- सुरभिगंध दुरगंधता वे, पुद्गलहुंमे होय;
पुद्गलका परसंग विना ते, जीवमांहे नवि होय. सं० ५
- पुद्गल तीखा कडवा पुद्गल, फुनि कसायल कहीयें;
खाटा मीठा पुद्गलकेरा, रस पांचुं सईहीयें. सं० ६
- शीत उष्ण अरु काठा कोमल, हलुवा भारी सोय;
चिकणा रुखा आठ फरस ए, पुद्गलहुंमे होय. सं० ७
- पुद्गलथी न्यारा सदा जे, जाण अफरसी जीव;
ताका अनुभव भेदज्ञानथी, गुरुगम करो सदीव. सं० ८
- क्रोधी मानी मायी लोभी, पुद्गलरागें होय;
पुद्गलसंग विना चेतन ए, शिवनायक नित जोय. सं० ९
- नर नारी नपुंसक वेदी, पुद्गलके परसंग;
जाण अवेदी सदा जीव ए, पुद्गल विना अभंग. सं० १०
- बूढा वाला तरुण थया ते, पुद्गलका संग धार;
त्रिहुं अवस्था नहीं जीवमें, पुद्गलसंग निवार. सं० ११
- जन्म जरा मरणादिक चेतन, नानाविध दुःख पावे;
पुद्गल संग निवारत तिण दिन, अजरामर होय जावे. सं० १२
- पुद्गलराग करी चेतनकुं, होत कर्मको बंध;
पुद्गलराग विसारत मनथी, नीरागी निर्वंध. सं० १३
- मन वच काय जोग पुद्गलथी, निपजावे नितमेव;
पुद्गलसंग विना अयोगी, थाय लही निज भेव. सं० १४
- पुद्गलपिंडथकी निपजावे, भला भयंकर रूप;
पुद्गलका परिहार कियाथी, होवे आप अरूप. सं० १५
- पुद्गलरागी थड धरत निज, देहगेहथी नेह;
पुद्गलरागभाव तज दिलथी, छिनमें होत विदेह. सं० १६

- पुद्गल पिंड लोलुपी चेतन, जगमं रांक कहावे;
पुद्गलनेह निवार पलकर्म, जगपति विरुद् धरावे. सं० १७
- पुद्गल मोह प्रसंगे चेतन, चारु गतिमें भटके;
पुद्गलनेह तजी शिव जातां, समयमात्र नहीं अटके. सं० १८
- पुद्गल रस रागी जग भटकत, काल अनंत गमायो;
काची दौय घडीमें निज गुण, राग तजी प्रगटायो. सं० १९
- पुद्गलरागें वार अनंती, तात मात सुत थइया;
किसका बेटा किसका वावा, भेद साच जब लहीया. सं० २०
- पुद्गलसंग नाटक बहु नटवत, करतां पार न पायो;
भवस्थिति परिपक्व थइ तव, सहेजें मारग आयो. सं० २१
- पुद्गलरागें देहादिक निज, मान मिथ्याति सोय;
देहगेहनो नेह तजीने, सम्यग्दृष्टि होय. सं० २२
- काल अनंत निगोदधाममें, पुद्गलरागे रहियो;
दुःख अनंत नरकादिकथी तुं, अधिक बहुविध सहियो. सं० २३
- पाय अकामनिर्जराको बल, किंचित उंचो आयो.
वादरमां पुद्गल रस वशथी, काल असंख गमायो. सं० २४
- लही क्षयोपशम मतिज्ञानको, पंचेंद्रिय जब लाधी;
विषयासक्त राग पुद्गलथी, धार नरकगति साधी. सं० २५
- ताडन मारन छेदन भेदन, वेदन बहुविध पाइ;
क्षेत्रवेदना आदि दइने, वेदभेद दरसाइ. सं० २६
- पुद्गलरागे नरकवेदना, वार अनंती वैदी;
पुण्यसंयोगे नरभव लाधो, अशुभ युगलगति भेदी. सं० २७
- अति दुर्लभ देवनकुं नरभव, श्रीजिनदेव बखाणे;
श्रवण सुणी ते वचनसुधारस, त्रास केम नवि आणे. सं० २८

- विषयासक्त राग पुद्गलको, धरी नरजन्म गमावे;
 काग उडावणकाज विप्र जिम, डार मणि पछतावे. सं० २९
- दज्ञ दृष्टांते दोहिलो नरभव, जिनवर आगम भाख्यो;
 पण तिणकुं किम खवर पडे जिण, कनक वीज रस चाख्यो. सं० ३०
- हारत वृथा अनोपम नरभव, खेल विषय रस जूआ;
 पीछे पछतावत मनमांदि, जिम सिमलका सूआ. सं० ३१
- कोइक नर इम वचन सुणीने, धर्मथकी चित्त लावे;
 पण जे पुद्गलआनंदी तस, स्वर्गतणां सुख भावे. सं० ३२
- संजमकेरां फल शिवसंपत, अल्पमति नवि जाणे;
 विन जाणे नियाणां करीने, गज तज रासभ आणे. सं० ३३
- पौद्गलिक सुख रस रसिया नर, देवनिधिसुख देखे;
 पुण्यहीन थया दुर्गति पामे, ते लेखां नवि लेखे. सं० ३४
- देवतणां सुख वार अनंती, जीव जगतमें पाया;
 निजसुखविण पुद्मलसुखसंती, मन संतोष न आया. सं० ३५
- पुद्गलिकसुख सेवत अहनिश, मनइंद्रिय न ध्रावे;
 जिम घृत मधु आहूति देतां, अग्नि शांत नवि थावे. सं० ३६
- जिम जिम अधिक विषय सुख सेवे, तिम तिम तृष्णा दीपे;
 जिम अपेयजल पान कीयाथी, तृष्णा कहो किम छीपे? सं० ३७
- पुद्गलिकसुखना आस्वादी, एह मरस नवि जाणे;
 जिम जात्यंथ पुरुष दिनकरनुं, तेज नवि पहिचाणे. सं० ३८
- इंद्रियजनित विषयरस सेवत, वर्तमान सुख टाणे;
 पण किंपाकतणां फलनी परे, नवि विपाक तस जाणे. सं० ३९
- फल किंपाकथकी एकज भव, प्राण हरण दुःख पावे;
 इंद्रियजनित विषयरस ते तो, चिहुं गतिमें भरमावे. सं० ४०

- एह्रुं जाणि विषयसुखसेंती, विमुख रूप नित रहीये;
त्रिकरणयोगे शुद्ध भाव धर, भेद यथारथ लहीये. सं० ४१
- पुण्य पाप दोय सम करी जाणो, भेद म जाणो कोउ;
जिम वेडी कंचन लोढानी, बंधनरूपी दोउ. सं० ४२
- नलवल जल जिम देखो संतो, उंचा चढत आकाश;
पाछा ढलि भूमी पढे तिम, जाणो पुण्यप्रकाश. सं० ४३
- जिम साणसी लोहनीरे, क्षण पाणी क्षण आग;
पाप पुण्यनो इणिविध निश्चें, फल जाणो महाभाग. सं० ४४
- कंपरोगमें वर्त्तमान दुःख, अकरमांहि आगामी;
इण विध दोउ दुःखनां कारण, भाखे अंतरजाभी. सं० ४५
- कोउ कूपमें पडि मुवे जिम, कोउ गिरि इंपा खाय;
मरण वे सरिखा जाणिये पण, भेद दोउ कहेवाय. सं० ४६
- पुण्य पाप पुद्गल दशा इम, जे जाणे सख तुल;
शुभ किरिया फल नवि चाहे ए, जाण अध्यातममूल. सं० ४७
- शुभ किरिया आचरण आचरे, धरे न ममताभाव,
नूतन बंध होय नहीं इण विध, प्रथम अरि शिर घाव. सं० ४८
- वार अनंत चूकीया चेतन, इण अवसर मत चूक;
मार नीशाना मोहरायकी-छातीमें मत ऊक. सं० ४९
- नदी गोल पाषाण न्याय करी, दुर्लभ अवसर पायो;
चिंतामणि तज काचशकलसम, पुद्गलथी लोभायो. सं० ५०
- परवशतादुःख पावत चेतन, पुद्गलथी लोभाय;
भ्रम आरोपित बंध विचारत, मरकट सूठी न्याय. सं० ५१
- पुद्गल राग भावथी चेतन, थिर सरूप नवि होत;
चिहुं गतिमां भटकत निशदिन इम, जिम भ्रमरि विच पोत. सं० ५२

- जडलक्षण परगट जे पुद्गल, तास मर्म नवि जाणे;
मदिरापान छक्यो जिम मद्यप, स्व पर नवि पीछाणे. सं० ५३
- जीव अरूपी रूप धरत ते, परपरिणतिपरसंग;
वज्ररत्नमां डंकयोग जिम, दर्शित नानारंग. सं० ५४
- निज गुण त्याग राग परथी थिर, गहत अशुभदलथोक,
शुद्ध रुधिर तज गंदो लोही-पान करत जिम जोक. सं० ५५
- जड पुद्गल चेतनकुं जगमें, नाना नाच नचावे;
छाली खात वाघकुं यारो, ए अचरिज मन आवे. सं० ५६
- ज्ञान अनंत जीवनो निज गुण, ते पुद्गल आवरियां;
जे अनंत शक्तिनो नायक, ते इण कायर करियो. सं० ५७
- चेतनकुं पुद्गल ये निशदिन, नानाविध दुःख घाले;
पण पिंजरगत नाहरनी परे, जोर कळ नवि चाले. सं० ५८
- इतने परभी जो चेतनकुं, पुद्गलसंग सोहावे;
रोगी नर जिम कुपथ करीने, मनमां हर्षित थावे. सं० ५९
- जात्यपात्य कुल न्यात न जाकुं, नाम गाम नवि कोइ;
पुद्गलसंगत नाम धरावत, निज गुण सधलो खोइ. सं० ६०
- पुद्गलके वस हालत चालत, पुद्गलके वस वोले,
कहूंक वेठा टक टक जूए, कहूंक नयण न खोले. सं० ६१
- मनगमता कहूं भोग भोगके, सुखसज्यामें सोवे;
कहूंक मूख्या तरस्या वाहर, पड्या गलीमें रोवे. सं० ६२
- पुद्गलके वश एकेंद्रिक बहु, पंचेंद्रिपणुं पावे;
लेश्यावंत जीव ए जगमें, पुद्गलसंग कहावे. सं० ६३
- चउदे गुणथानक मारगणा, पुद्गलसंगे जाणो;
पुद्गलभाव विना चेतनमें, भेदभाव नवि आणो. सं० ६४

- पाणीमांहे गले जे वस्तु, जले अग्निसंयोग;
पुद्गलपिंड जाण ते चेतन, त्याग हरख अरु सोग. सं० ६५
- छाया आकृति तेज द्युति सहु, पुद्गलकी परजाय;
सडन पडन विध्वंस धर्म ए, पुद्गलको कहेवाय. सं० ६६
- मल्या पिंड जेहने वंधे वै, काले विखरी जाय;
चरम नयण करी देखीये ते, सहु पुद्गल कहेवाय. सं० ६७
- चौदे राजलोक घृतघट जिम, पुद्गलद्रव्ये भरिया;
खंध देश परदेश भेद तस, परमाणु जिन करिया. सं० ६८
- नित्य अनित्यादिक जे अंतर, पक्ष समान विशेष;
स्याद्वाद समजणनी शैली, जिनवाणीमें देख. सं० ६९
- पूरण गलन धर्मथी पुद्गल, नाम जिणंद घखाणे,
केवल विण परजाय अनंतो, चार ज्ञान नवि जाणे. सं० ७०
- शुभथी अशुभ अशुभथी जे शुभ, मूल स्वभावे थाय;
धर्म पालटण पुद्गलनो इम, सद्गुरु दीयो वताय. सं० ७१
- अष्ट वर्गणा पुद्गलकेरी, पामी तास संयोग;
भयो जीवकुं एम अनादि, बंधनरूपी रोग. सं० ७२
- गहत वरगणा शुभ पुद्गलकी, शुभ परिणामे जीव;
अशुभ अशुभ परिणामयोगथी, जाणो एम सदीव. सं० ७३
- शुभ संयोगे पुण्य संचवे, अशुभ योगथी पाप;
लहत विशुद्धभाव जव चेतन, समजे आपोआप. सं० ७४
- तीन भुवनमें देखीये सहु, पुद्गलका विवहार;
पुद्गल विण कोउ सिद्धरूपमें, दरसत नहि विकार. सं० ७५
- पुद्गलहुंके महेल मालीये, पुद्गलहुंकी सेज;
पुद्गलपिंड नारको तेथी, सुख विलसत धरी हेज. सं० ७६

- पुद्गलपिंड धारके चेतन, भूपति नाम धरावे;
पुद्गलवलयी पुद्गल उपर, अहनिश हुकुम चलावे. सं० ७७
- पुद्गलहुंके वस्त्र आभूषण, तेथी भूपित काया;
पुद्गलहुंका चामर छत्र, सिंहासन अजव वनाया. सं० ७८
- पुद्गलहुंका किला कोट अरु, पुद्गलहुंकी खाइ;
पुद्गलहुंका दारु गोला, रच पच तोप वणाइ. सं० ७९
- परपुद्गलरागी थइ चेतन, करत महा संग्राम;
छल बल कल करी एम चिंतवे, राखुं अपणुं नाम. सं० ८०
- रुद्धि सिद्धि वंके गढ तोडी, जोडी अगम अपार;
पण ते पुद्गल द्रव्य स्वभावे, विणसत लगे न वार. सं० ८१
- पुद्गलके संयोग वियोगे, हरख शोक चित्त धारे;
अथिर वस्तु थिर होइ कहो किम, इणि विध नहींय विचारे. सं० ८२
- जा तनको मन गर्व धरत है, छिन छिन रूप निहार;
ते तो पुद्गलपिंड पलकमें, जल बल होवे छार. सं० ८३
- इण विध ज्ञान हीयेमें धारी, गर्व न कीजे मित्त;
अथिर स्वभाव जाण पुद्गलको, तजो अनादि रीत. सं० ८४
- परमात्मथी मोह निरंतर, लावो त्रिकरण शुद्ध;
पावो शुक्लम ज्ञान सुधारस, पूरवपर अविच्छुद्ध. सं० ८५
- ज्ञान भानु पूरण घट अंतर, थया जिहां परगास;
मोहनिसाचर तास तेज लख, नाटा थइ उदास. सं० ८६
- भेदज्ञान अंतरदृग्धारी, परिहर पुद्गलजाल;
खीरनीरकी भिन्नता जिम, छिनमें करत मराल. सं० ८७
- एहवा भेद लखी पुद्गलका, मन संतोप धरीजे;
हाण लाभ सुख दुःख अवसरमें, हर्ष शोक नवि कीजे. सं० ८८

- जो उपजे सो तुं नहि अरु, विणसे सो तुं नाहि;
तुं तो अचल अकल अविनाशि, समज देख दिलमांहि. सं० ८९
- तन मन वचन पणे जे पुद्गल, वार अनंती धारया;
वम्या आहार अज्ञान गहलथी, फिर फिर लागत प्यारा. सं० ९०
- धन्य धन्य जगमें ते प्राणी, जे नित रहत उदास;
शुद्ध विवेक हियेमें धारी, करे न परकी आस. सं० ९१
- धन्य धन्य जगमां ते प्राणी, जे वट समता आणे;
वादविवाद हीये नवि धारे, परमारश्चपथ जाणे. सं० ९२
- धन्य धन्य जगमां ते प्राणी, जे गुरुवचन विचारे;
अष्ट दयाना मर्म लहीने, आत्मकाज सुधारे. सं० ९३
- धन्य धन्य जगमां ते प्राणी, जेह प्रतिज्ञा धारे;
प्राण जाय पण धर्म न मूके, शुद्ध वचन अनुसारे. सं० ९४
- इम विवेक हिरिदेमें धारी, स्वपरभाव विचारो;
काया जीव ज्ञानदृग देखत, अहिकंचुकी जिम न्यारो. सं० ९५
- गर्भादिकदुःख वार अनंती, पुद्गलसंगे पाये;
पुद्गलसंग निवार पलकमें, अजरामर कहवाये. सं० ९६
- रागभाव धारत पुद्गलथी, जे अविवेकी जीव;
पाय विवेक राग तजी चेतन, वंधण विगत सदीव. सं० ९७
- कर्मबंधना हेतु जीवकुं, रागद्वेष जिन भाखे;
तजी राग अरु रोष हियेथी, अनुभवरस कोउ चाखे. सं० ९८
- पुद्गल संग विना चेतनमें, कर्मकलंक न कोय;
जिम वायुसंयोग विना जल,—मांही तरंग न होय. सं० ९९
- जीव अजीव तच्च त्रिभुवनमें, युगल जिनेश्वर भाखे;
अपर तच्च जे सप्त रहे ते, संयोगिक जिन दाखे. सं० १००

- गुण पर्याय द्रव्य ढोउके, जुए जुए दरसाये;
 ए समजण जिणके हिये उतरी, ते तो निज घर आये. सं० १०१
- भेद पंचशत अधिक तिरेशठ, जीवतणा जे कहीये;
 ते पुद्गलसंयोगथकी सहु, व्यवहारे सरदहीये. सं० १०२
- निहचेनय चिद्रूपद्रव्यमें, भेदभाव नहि कोय;
 बंध अवंधकता नयपरखथी, इण विध जाणो दोय. सं० १०३
- भेद पंचशत त्रीश अधिक, रुपी पुद्गलके जाणो;
 त्रीश अरुपी द्रव्यतणे जिन-आगमथी मन आणो. सं० १०४
- पुद्गलभेदभाव इम जाणी, परपखराग निवारो;
 शुद्ध रमणता रूप बोध, अंतर्गत सदा विचारो. सं० १०५
- रूप रूप रूपांतर जाणी, आणी अतुल विवेक;
 तद्गत लेश लीनता धारे, सो ज्ञाता अतिरेक. सं० १०६
- धार लीनता लवलव लाइ, चपलभाव विसराइ;
 आवागमन नही जिण थानक, रहिये तिहां समाइ. सं० १०७
- वालख्याल रचियो ए अनुपम, अल्पमति अनुसार;
 वालजीवकुं अति उपगारी, चिदानंद सुखकार. सं० १०८

॥ इति पुद्गलगीता संपूर्णा ॥

७. अध्यात्म-गीता.

प्रणमीए विश्वहित^१ जैनवाणी,
 महानंदतरु सिंचवा अमृतपाणी;
 महा मोहपुर भेदवा वज्रपाणि^२,
 गहन भवफंद छेदन कृपाणि^३. १

द्रव्य अनंत प्रकाशक भासक तत्त्वस्वरूप,
 आत्मतत्त्वविवोधक सत् चिद रूप;
 नय निक्षेप प्रमाणे जाणे वस्तु समस्त,
 त्रिकरणजोगे प्रणमुं जैनागम सुप्रशस्त.^४ २

जेणे आत्मा शुद्धताए पिछाण्यो,
 तेणे लोक अलोकनो भाव जाण्यो;
 आत्मा रमणी मुनि जगविदिता,
 उपदिशी तेणे अध्यात्म-गीता. ३

द्रव्य सर्वना भावनो जाणग पासग एह,
 ज्ञाता कर्ता भोक्ता रमता परिणति गेह;
 ग्राहक रक्षक व्यापक धारक धर्मसमूह,
 दान लाभ भोग उपभोग तणो जे व्यूह. ४

संग्रहे एक आया वखाण्यो, नैगमे अंशथी जे प्रमाण्यो;
 दुविध व्यवहार नय वस्तु वर्हेचे, अशुद्ध वळी शुद्ध भासन प्रपचे. ५

अशुद्धपणे पणसय तेसट्टी^१ भेद प्रमाण,
 उदयविभेदे द्रव्यना भेद अनंत कहाणः
 शुद्धपणे चेतनता प्रगटे जीव विभिन्न,
 क्षायोपशमिक असंख्य क्षायक एक अनुन्न^२. ६

नामथी जीव चेतन प्रबुद्ध, क्षेत्रथी असंख्य देशी विशुद्ध;
 द्रव्यथी स्व गुण पर्याय पिंड, नित्य एकत्व सहज अखंड. ७

उज्जुमुए^३ विकल्पपरिणामे^४ जीवस्वभाव,
 वर्तमान परिणत मय व्यक्त ग्राहकभाव;
 शब्दनये निज सत्ता जोतो इहतो^५ धर्म,
 शुद्ध अरूपी चेतन अणग्रहतो नव^६ कर्म. ८

इणी पेरे शुद्ध सिद्धात्मरूपी, मुक्त परशक्ति व्यक्त अरूपी;
 समकृती देशयति सर्वविरति, धरे साध्यरूपे सदा तच्चप्रीति. ९

समभिरुह नये निरावरणी ज्ञानादिकगुण मुख्य,
 क्षायक अनंत चतुष्टयी^७ भोगी मुग्ध अलक्ष्य;
 एवंबृति निर्मळ सकळ स्वधर्मप्रकास,
 पूरण पर्याय प्रगटे पूरण शक्तिविलास. १०

एम नय भंग संगे सनूरो, साधना सिद्धता रूप पूरो;
 साधकभाव त्यां लगे अधूरो, साध्य सिद्धे नहि हेतु मूरो. ११

काळ अनादि अतीत अनंते जे पररक्त,
 संगंगांपरिणामे वर्त्ते मोहासक्त;

१ पांचसो अने त्रैस्तट २ संपूर्ण. ३ रुजुसूत्रनये. ४ अनु-
 त्तारे ५ अभिलषतो, इच्छतो. ६ नवां ७ अनंतज्ञान, दर्शन;
 चारित्र्य अने वीर्य.

पुद्गलभोगे धारे पुद्गळखंध,

पर कर्त्ता परिणामे वांधे कर्मनो बंध.

१२

बंधक वीर्यकरणे उदीरे, विपाकीप्रकृति भोगवे दळ विखेरे;

कर्म उदयागता स्वगुण रोके^१, गुण विना जीव भवोभवे ढोके^२ १३

आतमगुणआवरणे न ग्रहे आतमधर्म,

ग्राहक शक्ति प्रयोगे जोडे पुद्गळशर्म^३;

परलोभे परभोगने योगे थाये पर कीरतार,

ए अनादि प्रवर्त्ते वाधे पर विस्तार.

१४

एम उपयोग वीर्यादि लब्धि, परभावरंगी करे कर्मवृद्धि;

परदयादिक यदा सुह विकल्पे, तदा पुण्यकर्मतणो बंध कल्पे. १५

तेहज हिंसादिक द्रव्याश्रव करतो चंचळ चित्त,

कटुकविपाके चैतन मेळे^४ कर्म विचित्त^५;

आतमगुणने हणतो हिंसकभावे थाय,

आतमधर्म^६ने रक्षक भावअहिंस कहाय.

१६

आत्मगुणरक्षणा तेह धर्म, स्वगुणविध्वंसणा ते अधर्म;

भाव अध्यात्म प्रवृत्ति, तेहथी होय संसारछित्ति^७.

१७

एह प्रबोधनो कारण तारण सद्गुरुसंग,

श्रुतउपयोगी चरणानंदी करी गुरुरंग,

आतमतस्वाल्ंबी रमता आतमराम,

शुद्ध स्वरूपने भोगे योगे जसु^८ विसराम.

१८

सद्गुरुयोगथी बहुला जीव, कोइ बळी सहजथी थइ सजीव;

आत्मशक्ति करी गंठी^९ भेदी, भेदज्ञानी थयो आत्मवेदी. १९

१ अटकावे २ गळडे. ३ सुख. ४ एकठां करे-संचे-
विचित्र. ५ ज्ञानादिकआत्मगुण. ६ छेद. ७ जेने ९ मोहप्रथि
रागद्वेषनी गांठ.

द्रव्य गुण पर्याय अनंतनी थइ परतीत,
जाण्यो आतम कर्त्ता भोक्ता गइ पर भीत;
श्रद्धायोगे उपन्यो भासन सुनये सत्य,
साध्यालंवी चेतना वळगी आतमतत्त्व.

इंद्र चंद्रादि पदवी रोग जाण्यो, शुद्ध निज शुद्धता धन पिछाण्यो;
आन्मधन अन्य आपे न चोरे, कोण जग दीन वळीकोण जोरेर ?

आतम सर्व सभान निधान महा सुखकंद,
सिद्धतणा साधर्मी सत्ताए गुणवृन्द;
जेह स्वजाति तेहथी कोण करे वध वंध,
प्रगट्यो भाव अहिंसक जाणे शुद्ध प्रबंध. २२

ज्ञाननी तीक्ष्णता चरण तेह, ज्ञान एकत्वता ध्यान गेह;
आत्मतादात्म्यता^१ पूर्ण भावे, तदा निर्मळानंद संपूर्ण पावे. २३

चेतन अस्ति स्वभावमां जेहने भासे भाव,
तेहथी भिन्न अरोचक रोचक आत्मस्वभाव,
समकितभावे भावे आतमशक्ति अनंत,
कर्मनाशनो चिंतन नाणे चिंते ते मतिमंद. २४

स्वगुण चिंतन रसे वुद्धि घाले, आत्मसत्ता भणी जे निहाळे;
शुद्ध स्याद्वादपद जे संभाळे,^२पर घरे^३तेह मति केम वाळे ? २५

पुन्य पाप बे पुद्गळदळपासे पर भाव,
पर भावे पर संगत पामे दुष्ट विभाव;
ते माटे निजभोगी योगीसर सुप्रसन्न,
देव नरक तृण मणि सम^४ भासे जेहने मन्न. २६

१ तन्मयता, अभेदता एकता २ वरावर काळजीथी (घीत-
रागनी आबाने) पाळे. ३ नकामी वस्तुमां. ४ न्यूनाधिकता रहित.

तेह समतारस तच्च साथे,
निश्चलानंद अनुभव आराधे;
तीव्र घनघाति^१ निज कर्म तोडे,
संधि^२ पडिलेहिने^३ ते विछोडे.

२७

सम्यग् रत्नत्रयी रस साचो चेतनराय,
ज्ञानक्रिया चरे चकचूरे सर्व अपाय^४;
कारक^५ चक्रस्वभावे साथे पूरण साध्य,
कर्त्ता कारण कारज एक थया निरवाय.

२८

स्वगुणआयुधथकी कर्म चूरे,
असंख्यात गुण निर्जरा तेह पूरे;
टले आवरणथी गुणविकासे,
साधनाशक्ति तेम तेम प्रकासे.

२९

प्रगटयो आत्मधर्म थयां सवि साधन रीत,
वाधकभावग्रहणता भागी जागी नीत;
उदय उदीरण ते पण पूरण निर्जराकाज,
अनभिसंधी बंधकता नीरसता^६ आत्मराज.

३०

देशपति जव थयो नित्यरंगी,
तदा कोण थाय कुनय चाल संगी ?
यदा आत्मा आत्मभावे रमाव्यो,
तदा वाधकभाव दूरे गमाव्यो.

३१

१ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी अने अंतराय कर्म.
२ लाग. ३ जोडने. ४ विघ्न ५ कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अ-
पादान अने अधिकरणरूप षट्. ६ अनाउपयोगे बंधातां कर्मनी
ओछाष्ट.

सहज क्षमा गुण शक्तिथी छेद्यो क्रोधसुभट,
 मार्दव^१ भाव प्रभावथी भेद्यो मानमरट्ट;
 माया आर्जव^२ योगे लोभे ते निःस्पृहभाव,
 मोह महाभड^३ ध्वंसे ध्वंस्यो^४ सर्व विभाव. ३२

एम स्वाभाविक थयो आत्मवीर, भोगवे आत्मसंपदा सुधीर;
 जे उदयागता प्रकृति वळगी, अव्यापक थयो खेरवे तेह अळगी. ३३

धर्मध्यान एक तानमे ध्यावे अरिहा सिद्ध,
 ते परिणतिथी प्रगटी ताच्चिक सहज समृद्ध^५;
 स्व स्वरूप एकत्वे तन्मय गुण पर्याय,
 ध्याने ध्यातां निरमोहीने विकल्प जाय. ३४

यदा निर्विकल्पी थयो शुद्ध ब्रह्म, तदा अनुभवे शुद्ध आनंदशर्म;
 भेद रत्नत्रयी तीक्ष्णताए, अभेद रत्नत्रयीमें समाए. ३५

दर्शन ज्ञान चरण गुण सम्यग् एक एकना हेतु,
 स्व स्व हेतु थया समकाले तेह अभेद भाषेतु;
 पूर्ण स्वजाति समाधि घनघाति दल छिन्न,
 क्षायिकभावे प्रगटे आत्मधर्म विभिन्न. ३६

पछी योग^६ रूंधी थयो ते अयोगी-भाव शैलेशोताए^७ अभंगी,
 पंच लघुअक्षरे कार्यकारी, भवोग्रही^८ कर्मसंतति विडारी. ३७

समश्रणे एक समये पहोत्या जे लोकांत,
 अफुसमाण^९ गति निर्मळ चेतनभाव महांत;
 चरम त्रिभाग विहीन^{१०} प्रमाणे जसु अवगाह,

१ नम्रता, लघुता-चिनय २ सरलता. ३ सुभट—वीर. ४
 विनाश्यो. ५ समृद्धि—अनर्गल धन ६ मन, वचन अने काया
 ७ मेरुपर्वतनी जेवी निश्चलता, शैलेशीकरण. - अवाति. ९
 अस्पृशमान. १० ३.

आतम भेद अरूप अखंडानंदावाह. ३८

जिहां एक सिद्धात्म तिहां छे अनंता,

अत्रन्ना अगंधा नहि फासर्मता^१;

आतमशुण पूर्णतावंत संता,

निरावाध अत्यंत मुखास्वादवंता. ३९

कर्त्ता कारण कारज निज पारिणामिकभाव,

ज्ञाता ज्ञायक भोग्य योग्यता शुद्ध स्वभाव;

ग्राहक रक्षक व्यापक तन्मयताए लीन,

पूरण आतमधर्म प्रकासरसे लयलीन. ४०

द्रव्यथी जीव चेतन अलेशी, क्षेत्रथी जे असंख्य प्रदेशी;

उत्पाद वली नास ध्रुव कालधर्म, शुद्ध उपयोग गुण भावशर्म. ४१

स्याद्वाद् आतम सत्ता रुचि समकित तेह,

आतमधर्मनो भासन निर्मल ज्ञानी जेह:

आतम रमणी ध्यानी आतमलीन,

आतमधर्म रमो तेणे^२ भव्य सदा सुखपीन.^३ ४२

अहो भव्यतमे ओळखो जैन धर्म, जेणे पामीए शुद्ध अध्यात्मधर्म,

अल्पकाले टले दुष्ट कर्म, पामीए सोय आनंदशर्म. ४३

नय निक्षेप प्रमाणे जाणे जीवाजीव,

स्वपर विवेचन करतां थाये लाभ सदैव;

निश्चय ने व्यवहारे विचरे जे मुनिराज,

भवसागरना तारण निर्भय तेह जहाज. ४४

वस्तुतत्त्वे रम्या ते निग्रंथ, तत्त्वअभ्यास तिहां साधुपंथ;

१ वर्णी गंध अने स्पर्शरहित, अरूपी शुद्ध सहज स्वरूपी.

२ ते माटे ३ पुष्ट.

तिणे गीतार्थचरणे रहीजे, शुद्ध सिद्धांतरस तो लहीजे. ४५

श्रुतअभ्यासी चोमासी वासी लीमडीठाम,
शासनरागी सोभागी श्रावकनां बहु धाम;
खरतर गच्छ पाठक श्री दीपचंद्र सुपसाय,
देवचंद्र निज हरखे गायो आतमराय. ४६

आत्मरमण करवा अभ्यासे, शुद्धसत्तारसीने उल्लासे;
देवचंद्रे रची आत्मगीता, आत्मरमणी मुनि सुप्रतीता. ४७

इति अध्यात्मगीता.

८. अथ श्री सीमंधर स्वामिनुं सवासो गाथानुं स्तवन.

ढाळ पहेली.

एक दिन दासी दोडती—ए देशी.

स्वामी सीमंधर दिनति, सांभळो माहरी देवरे;
ताहरी आण हुं शिर धरूं, आदरूं ताहरी सेवरे—

स्वामी सीमंधर विनति. १

कुगुरुनी वासनापासमां, हरिण परे जे पडया लोकरे;
तेहने शरण तुज विण नहीं, टळवळे वापडा फोकरे. स्वा० २
ज्ञान दर्शन चरण गुण विना, जे करावे कुळाचाररे;
लूटे तेणे जन देखतां, किहां करे लोक पोकाररे ? स्वा० ३

जेह नवि भव तर्या निरगुणी, तारशे केणी पेरे तेहरे ?
 एम अजाण्या पडे फंदमां, पापबंधे रखा जैहरे, स्वा० ४
 कामकुंभादिक अधिकनुं, धर्मनुं को नवि मूलरे;
 दोकडे कुगुरु ते दाखवे, शुं थयुं एह जग शूलरे ? स्वा० ५
 अर्थमी देशना जे दीए, ओळवे धर्मना ग्रंथरे;
 परम पदनो प्रगट चोरथी, तेहथी केम वहे पंथरे ? स्वा० ६
 धिपयरसमां गृही माचिया, नाचिया कुगुरु मदपूररे;
 धूमधामे धमाधम चली, ज्ञानमारग रह्यो दूररे. स्वा० ७
 कलहकारी कदाग्रहभर्या, थापता आपणा वोलरे;
 जिनवचन अन्यथा दाखवे, आज तो वाजते ढोलरे. स्वा० ८
 केइ निज दोषने गोपवा, रोपवा केइ मतकंदरे;
 धर्मनी देशना पालटे, सत्य भावे नहीं मंदरे. स्वा० ९
 बहु मुखे वोल एम सांभळी, नवि धरे लोक विश्वासरे;
 हुंढता धर्मने ते थया, भमर जेम कमलनिवासरे. स्वा० १०

ढाळ बीजी.

राग गोडी. भोलीडा हंसारे विषय न राचीए—ए देखी.

एम हुंढतारे धर्म सोहामणो, मिलिओ सदगुरु एक;
 तेहने साचोरे धारग दाखव्यो, आणी हृदय विवेक.

श्री सीमंधर साहेव सांभळो. ११

पर घर जोतारे धर्म तुमे फरो, निज घर न लहोरे धर्म;
 जेम नवि जाणोरे मृग कस्तूरिओ, मृगमद परिमल मर्म. श्री० १२

- जेम ते भूलोरे मृग दश दिशि फरे, लेवा मृगमदगंध,
तेम जग हुंढेरे वाहिर धर्मने, मिथ्यादृष्टि रे अंध. श्री० १३
- जातिअंधनोरे दोष न आकरो, जे नवि देखेरे अर्थ;
मिथ्यादृष्टिरे तेहथी आकरो, माने अर्थ अनर्थ. श्री० १४
- आप प्रशंसेरे परगुण ओळवे, न धरे गुणनोरे लेश;
ते जिनवाणीरे नवि श्रवणे सुणे, दिए मिथ्या उपदेश. श्री० १५
- ज्ञानप्रकाशेरे मोहतिमिर हरे, जेहने सदगुरुसूर;
ते निज देखेरे सत्ता धर्मनी, चिदानंदभरपूर. श्री० १६
- जेम निर्मळतारे रतन स्फटिकतणी, तेम जे जीवस्वभाव;
ते जिन व्रीरेरे धर्म प्रकाशीयो, प्रवळ कषाय अभाव. श्री० १७
- जेम ते रातेरे फूले रातडुं, श्याम फूलथीरे श्याम;
पापपुण्यथीरे तेम जग जीवने, राग द्वेष परिणाम. श्री० १८
- धर्म न कहिएरे निश्चे तेहने, जेह विभाव वड व्याधि,
पहेले अंगेरे एणी पेरे भाखियुं, करमे होए उपाधि. श्री० १९
- जे जे अंशेरे निरुपाधिकपणुं, ते ते जाणोरे धर्म;
सम्यग्दृष्टिरे गुणटाणाथकी, जाव लहे शिवशर्म. श्री० २०
- एम जाणीनेरे ज्ञानदशा भजी, रहीए आपस्वरूप;
पर परिणतिथीरे धर्म न छांडीए नवि पडीए भवकूप. श्री० २१

ढाल त्रीजी.

हवे राणी पद्मावती-ए देशी.

जिहां लगे आतमद्रव्यनुं, लक्षण नवि जाण्युं;
तिहां लगे गुणटाणुं भळुं, केम आवे ताण्युं ?
आतमतत्त्व विचारीए.

- आतमअज्ञाने करी, जे भवदुःख लहीए;
आतमज्ञाने ते टळे, एम मन सदहीए-आतम० २३
- ज्ञानदशा जे आकरी, तेह चरण विचारो;
निर्विकल्प उपयोगमां, नहीं कर्मनो चारो-आतम० २४
- भगवइ-अंगे भाखिओ, सामायिक अर्थ;
सामायिक पण आतमा, धरो सूधो अर्थ-आतम० २५
- लोकसार अध्ययनमां, समकित मुनिभावे;
मुनिभावज सम्कित कहुं, निज शुद्ध स्वभावे-आ० २६
- कष्ट करो संजम धरो, गाळो निज देह;
ज्ञानदशा विण जीवने, नहीं दुःखनो छेह आ० २७
- वाहिर यतना वापडा, करतां दूहवाए;
अंतर यतना ज्ञाननी, नवि तेणे थाए-आ० २८
- राग द्वेष मळ गाळवा, उपशमजळ शीलो;
आतमपरिणति आदरी, पर परिणति पीलो-आ० २९
- हुं एहनो ए माहरो, ए हुं इण बुद्धि;
चेतन जडता अनुभवे, न विमासो शुद्धि-आ० ३०
- वाहिरदृष्टि देखतां, वाहिर मन धावे;
अंतरदृष्टि देखतां, अक्षय पद पावे-आतम० ३१
- चरण होय लज्जादिके, नवि मनने भंगे,
त्रीजे अध्ययने कहुं, एम पहेले अंगे-आतम० ३२
- अध्यातम विण जे क्रिया, ते तनुमळ तोले,
ममकारादिक योगश्री, एम ज्ञानी बोले-आतम० ३३
- हुं करता परभावनो, एम जेम जेम जाणे;
तेम तेम अज्ञानी पडे, निज कर्मने घाणे-आतम० ३४

पुद्गलकर्मादिकतणो, करता व्यवहारे;	
करता चेतनकरमनो, निश्चय सुविचारे-आतम०	३५
कर्त्ता शुद्ध स्वभावनो, नय शुद्धे कहीए;	
कर्त्ता पर परिणामनो, केउ किरिया ग्रहीए-आतम०	३६

ढाल चौथी.

वीरमति प्रीतिकारणी—ए देशी.

शिष्य कहे जो परभावनो, अकर्त्ता कह्यो प्राणी;	
दानहरणादिक केम घटे, कहे सदगुरु वाणी—	
शुद्ध नय अर्थ मन धारीए.	३७
धर्म नवि दिए नवा सुख दिए, परजंतुने देतो;	
आप सत्ता रहे आपमां, एम हृदयमां चेतो-शु०	३८
जोगविशे जे पुद्गल ग्रह्या, नवि जीवना तेह;	
तेहथी जीव छे जूजूओ, वली जूजूओ देह-शु०	३९
भक्त पानादि पुद्गल प्रते, न दिए छति विना पोते;	
दानहरणादि पर जंतुने, एम नवि घटे जोते-शु०	४०
दान हरणादिक अवसरे, शुभ अशुभ संकल्पे;	
दिए हरे तुं निज रूपने, सुखे अन्यथा जल्पे-शु०	४१
अन्यथा वचनअभिमानथी, फरी कर्म तुं वांधे,	
ज्ञायकभाव जे एकलो, ग्रहे ते सुख साथे-शु०	४२
शुभ अशुभ वस्तु संकल्पथी, धरे जे नटमाया;	
तेटल्लं सहज सुख अनुभवे, प्रभु आतमराया-शु०	४३
परतणी आश विषवेलडी, फळे कर्म बहु भांति;	
ज्ञानदहने करी ते दहे, हीए एक जे जाति-शु०	४४

राग दोष रहित एक जे, दया शुद्ध ते पाळे;
 प्रथ अंगे एम भाखियुं, निज शक्ति अजुआले—शु० ४५
 एकता ज्ञान निश्चय दया, सुगुरु तेहने भाखे;
 जेह अविकल्प उपयोगभां, निज प्राणने राखे—शु० ४६
 जेह राखे पर प्राणने, दया तास व्यवहारे;
 निजदया विण कहो परदया, होए कवण प्रकारे?—शु० ४७
 लोक विण जेम नगरमेदनी, जेम जीव विण काया;
 फोक तेम ज्ञान विण परदया, जिसी नटीतणी माया—शु० ४८
 सर्व आचारमय प्रवचने, भण्यो अनुभवयोग;
 तेहथी मुनि वमे मोहने, वली अरति रति शोग—शु० ४९
 सूत्र अक्षर परावर्तना, सरस शेलडी दाखी;
 तास रस अनुभव चाखीए, जिहां एक छे साखी—शु० ५०
 आतमराम अनुभव भजो, तजो परतणी माया;
 एह छे सार जिनवचननो, वळी एह शिवछाया—शु० ५१

ढाल पांचमी.

प्रभु चित्त धरीने अवधारो मुज वात—ए देशी.

एम निश्चय नय सांभळीजी, बोले एक अजाण;
 आदरशुं अमे ज्ञाननेजी, शुं कीजे पच्चखाण ? —
 सोभागी जिन सीमंधर सुणो वात. ५२
 किरिया उत्थापि करीजी, छांडी तेणे लाज;
 नवि जाणे ते उपजेजी, कारण विण नवि काज—सो ५३

- निश्चय नय अलंबतांजी, नवि जाणे तस मर्म;
छोडे जे व्यवहारनेजी, लोपे ते जिनधर्म-सो० ५४
- निश्चयदृष्टि हृदय धरीजी, पाळे जे व्यवहार;
पुण्यवंत ते पामशेजी, भवसमुद्रनो पार-सो० ५५
- तुरंग चढी जेम पामिणजी, वेगे पुरनो पंथ;
मार्ग तेम शिवनो लहेजी, व्यवहारे निग्रंथ-सो० ५६
- महेल चढतां जेम नहींजी, तेह तुरंगनुं काज;
सकळ नहीं निश्चय लहेजी, तेम तनु किरिया साज-सो० ५७
- निश्चय नवि पामी शकेजी, पाळे नहि व्यवहार;
पुण्यरहित जे एहवाजी, तेहने कुण आधार?-सो० ५८
- हेमपरीक्षा जेम हुणजी, सहत हुताशनताप;
ज्ञानदशा तेम परखीएजी, जिहां बहु किरियाव्याप-सो० ५९
- आलंबन विण जेम पडेजी, पामी विषमी वाट;
मुग्ध पडे भवकूपमांजी, तेम विण किरिया घाट-सो० ६०
- चरित भणी बहु लोकमांजी, भरतादिकनां जेह;
लोपे शुभ व्यवहारनेजी, बोधि हणे निज तेह-सो० ६१
- बहु दळ दीसे जीवनांजी, व्यवहारे शिवयोग;
छींटी ताके पाधरोजी, छोडी पंथ अयोग-सो० ६२
- आवश्यकमांहे भास्त्रियोजी, एहज अर्थविचार;
फळसंशय पण जाणतांजी, जाणीजे संसार-सो० ६३

ढाल छट्टी.

मुनि मन सरोवर हंसलो अथवा ऋषभनो वंश रयणायरु
—प देशी.

- अवर इस्यो नय सांभळी, एक ग्रहे व्यवहारोरे;
मर्म द्विविध तस नवि लहे, शुद्ध अशुद्ध विचारोरे— ६४
तुज विण गति नहीं जंतुने, तुं जगजंतुनो दीवोरे;
जीवीए तुज अवलंबने, तुं साहेव चिरंजीवोरे—तुज० ६५
जेह न आगम वारियो, दीसे अशठ आचारोरे,
तेहज बुध बहु मानियो, शुद्ध कळो व्यवहारोरे—तुज० ६६
जेहमां निज मतिकल्पना, जेहथी नवि भवपारोरे;
अंधपरंपरा वांधियो, ते अशुद्ध आचारोरे—तुज० ६७
शिथिलविहारीए आचर्यां, आलंबन जे कूडारें;
नियतवासादिक साधुने, ते नवि जाणीए रुडारें—तुज० ६८
आज न चरण छे आकरुं, संहननादिकदोपरे;
एम निज अवगुण ओळवी, कुमतिकदाग्रह पोषेरे—तुज० ६९
उत्तरगुणमांहे हीणडा, गुरुकुलादिक पाखेरे;
मूळगुणे नहीं हीणडा, एम पंचाशक भाखेरे—तुज० ७०
परिग्रह ग्रह वश लिंगीया, लेइ कुमतिरज माथेरे;
निज गुण पर अवगुण लवे, इंद्रियवृषभ नवि नाथेरे—तुज० ७१
नाणरहित हित परिहरि, निज दंसणगुण लूसेरे;
मुनिजनना गुण सांभळी, तेह अनारज रूसेरे—तुज० ७२
अणुसम दोष जे परतणो, मेरुसमान ते बोलेरे;
जेहसुं पापनी गोठडी, तेहसुं हियडलं खोलेरे—तुज० ७३
मूत्रविरुद्ध जे आचरे, थापे अविधिना चाळारे,
ते अति निविड मिथ्यामति, बोले उपदेशमाळारे—तुज० ७४

पामर जन पण नवि कहे, सहसा जूठ सशूकोरे;	
जूठ कहे मुनिवेष जे, ते परमारथ चूकोरे—तुज०	७५
निर्दयहृदय छ कायमां, जे मुनिवेशे प्रवर्त्तरे;	
गृही यति धर्मथी वाहेरा, ते निर्धनगति वर्त्तरे—तुज०	७६
साधुभगति जिनपूजना, दानादिक शुभ कर्मरे;	
श्रावक जन कह्यो अति भलो, नहि मुनिवेषे अधर्मरे—तु०	७७
केवळ लिंगधारीतणो, जे व्यवहार अशुद्धोरे;	
आदरीए नवि सर्वथा, जाणी धर्मविरुद्धोरे—तुज०	७८

ढाळ सातमी.

आगे पूरव वार नवाणुं—ए देशी.

जे मुनिवेश शके नहि छंडी, चरणकरण गुणहीणाजी,	
ते पण मारगमांहे दाख्या, मुनिगुणपक्षे लीणाजी;	
मृषावाद भवकारण जाणी, मारग शुद्ध प्ररूपेजी,	
वंदे नवि वंदावे मुनिने, आप थइ निज रूपेजी.	७९
मुनि गुण रागे पूरा शूरा, जे जे जयणा पाळेजी,	
ते तेहथी शुभ भाव लहीने, कर्म आपणां टाळेजी;	
आपहीनता जे मुनि भाखे, मान सांकडे लोकेजी,	
ए दुर्द्धर व्रत एहनुं दाख्युं, जे नवि फूले फोकेजी.	८०
प्रथम साधु वीजो वर श्रावक, त्रीजो संवेगपाखीजी,	
ए त्रणे शिवमारग कहीए, जिहां छे प्रवचन साखीजी;	
शेष त्रण भवमारग कहीए, कुमत कदाग्रह भरियाजी,	
गृही यति लिंग कुलिंगे लखीए, सकळ दोपना दरियाजी.	८१

जे व्यवहार मुगतिमारगमां, गुणठाणाने लेखेजी,
 अनुक्रमे गुणश्रेणिनुं चढवुं, तेहज जिनवर देखेजी;
 जे पण द्रव्यक्रिया प्रतिपाळे, ते पण सन्मुखभावेजी,
 शुक्लबीजनी चंद्रकळा जेस, पूर्ण भावमां आवेजी. ८२
 ते कारण लज्जादिकथी पण, शील धरे जे प्राणीजी,
 धन्य तेह कृतपुण्य कृतारथ, महानिशीथे वाणीजी;
 ए व्यवहारनये मन धारो, निश्चयनयमत दाख्युंजी,
 प्रथमअंगमां वितिगिच्छाए, भावचरण नवि भाख्युंजी. ८३

ढाल आठमी.

चोपाइनी देशी छे.

अवर एक भाखे आचार, दया मात्र शुद्धज व्यवहार;
 जे बोले तेहज उत्थापे, शुद्ध करुं हुं मुख इम जपे. ८४
 जिनपूजादिक शुभ व्यापार, ते माने आरंभ अपार;
 नवि जाणे ऊतरतां नइ, मुनिने जीवदया क्यां गइ ? ८५
 जो ऊतरतां मुनिने नदी, विधिजोगे नवि हिंसा वदी;
 तो विधिजोगे जिनपूजना, शिवकारण मत भूलो जना. ८६
 विषयारंभतणो ज्यां त्याग, तेहथी लहीए भवजलताग;
 जिनपूजामां शुभ भावथी, विषयारंभतणो भय नथी. ८७
 सामायिकप्रमुखे शुभ भाव, यद्यपि लहीए जवजळनाव;
 तो पण जिनपूजाए सार, जिननो विनय कह्यो उपचार. ८८
 आरंभादिक शंका धरी, जो जिनराजभक्ति परिहरी;
 दान मान वंदन आदेश, तो तुज सवळो पडयो कलेश. ८९
 स्वरूपथी दीसे सावद्य, अनुबंधे पूजा निरवद्य;

जे कारण जिनगुण-बहुमान, जे अवसरे वरते शुभ ध्यान.	९०
जिनवरपूजा देखी करी, भवियण भावे भवजळ तरी;	
छकायना रक्षक हो वळी, एह भाव जाणे केवळी.	९१
जळ तरतां जळ उपर यथा, मुनिने दया न होए वृथा;	
पुष्पादिक उपर तिम जाण, पुष्पादिक पूजाने ठाण.	९२
तो मुनिने नहीं किम पूजना ? एम तुं शुं चिंते शुभमना;	
रोगीने औपधसम एह, नीरोगी छे मुनिवरदेह.	९३

ढाळ नवमी.

प्रथम गोवाळीयातणे भवेजी-७ देशी

भावस्तव मुनिने भलोजी, वेउ भेदे गृही धार;	
त्रीजे अध्ययने कह्योजी, महानिशीथ मझार-	
सुणो जिन तुज विण कवण आधार ?	९४
वळी तिहां फळ टाखियुंजी, द्रव्य स्तवनुरे सार;	
स्वर्ग वारसुं गेहिनेजी, एम दानादिक चार.	सुणो० ९५
छट्टे अंगे द्रौपदीजी, जिनप्रतिमा पूजेय;	
सूरियाभपरे भावथीजी, एम जिनवर कहेय.	सुणो० ९६
नारद आव्ये नवि थइजी, उभी तेह सुजाण;	
ते कारण ते श्राविकाजी, भाखे आळ अजाण.	सुणो० ९७
जिनप्रतिमा आगळ कह्योजी, शक्रस्तव तेणे नार;	
जाणे कुण विण श्राविकाजी, एह विध हृदयविचार?	सुणो० ९८
पूजे जिनप्रतिमा प्रतेजी, सूरियाभ सुरराय;	
वांची पुस्तक रत्ननांजी, लेइ धर्मव्यवसाय.	सुणो० ९९

- रायपसेणी-सूत्रमांजी, मोहोटो एह प्रबंध;
 एह वचन अणमानतांजी, करे करमनो वंध. सुणो० १००
- विजय देव वक्तव्यताजी, जीवाभिगमेरे एम;
 जो थिति छे ए सुरतणीजी, तो जिनगुणथुति केम?सुणो० १०१
- सिद्धारथ राये कर्याजी, याग अनेक प्रकार;
 कल्पसूत्रे एम भाखियुंजी, ते जिनपूजा सार. सुणो० १०२
- श्रमणोपासक ते कहाजी, पहेला अंग मझार;
 याग अनेरा नवि करेजी, ते जाणो निरधार. सुणो० १०३
- एम अनेक सूत्रे भण्युंजी, जिनपूजा गृहिकृत्यः
 जे नवि माने ते सहीजी, करशे वहु भव नृत्य. सुणो० १०४

ढाल दशमी.

जं सुरसंधा सा सुरसंधा अथवा एणे पुर कंबल
 कोइ न लेसी—ए देशी.

- अवर कहे पूजादिक ठामे, पुण्यबंध छे शुभ परिणामे;
 धर्म इहां नवि कोइ दीसे, जेम व्रतपरिणामे मन हीसे. १०५
- निश्चय धर्म न तेणे जाण्यो, जे शैलेशीअंत वखाण्यो;
 धर्म अधर्म तणो क्षयकारी, शिव सुख दे जे भवजळ तारी. १०६
- तस साधन तुं जे जे देखे, निज निज गुणठाणाने लेखे;
 तेह धरम व्यवहारे जाणो, कारज कारण एक प्रमाणो. १०७
- एवंभूततणो मत भाख्यो, शुद्ध द्रव्य नय एम वळी दाख्यो;
 निज स्वभाव परिणति ते धर्म, जे विभाव ते भावज कर्म. १०८
- धर्म शुद्ध उपयोग स्वभावे, पुण्य पाप शुभ अशुभ विभावे;
 धर्महेतु व्यवहारज धर्म, निज स्वभाव परिणतिनो मर्म. १०९

शुभयोगे द्रव्याश्रय थाय, निज परिणामे न धर्म हणाय;
 यावत् योगक्रिया नहीं थंभी, तावत् जीव छे योगारंभी. ११०
 मलिनारंभ करे जे किरिया, असदारंभ तजीने तरिया;
 विषय कषायादिकने त्यागे, धर्ममति रहीये शुभ मागे. १११
 स्वर्गहेतु जो पुण्य कहीजे, तो सराग संयम पण लहीजे;
 बहु रागे जे जिनवर पूजे, तस मुनिनी परे पातक धूजे. ११२
 भावस्तव एहथी पामीजे, द्रव्यस्तव ए तेणे कहीजे;
 द्रव्य शब्द छे कारणवाची, भर्म न भूलो कर्म निकाची. ११३

ढाल अग्यारमी.

दान उलट धरी दीजीए-ए देशी

कुमति एम सकळ दूरे करी, धारीए धर्मनी रीतरे;
 हारीए नवि प्रभु वळ थकी, पामीए जगतमां जीतरे-
 स्वामी सीमंधर तुं जयो. ११४
 भाव जाणे सकळ जंतुना, भवथकी दासने राखरे;
 वोलिया वोल जे ते गणुं, सफल जो छे तुज साखरे. स्वामी०
 एक छे राग तुज उपरे, तेह मुज शीवतरुंकंदरे;
 नवि गणुं तुज परे अवरने, जो मिले सुरनरवृन्दरे. स्वामी०
 तुज विना में बहु दुःख लह्यां, तुज मित्ये ते केम होयरे ?
 मेह विण मोर माचे नहीं, मेह देखी माचे सोयरे. स्वामी० ११७
 मनथकी मिलनमें तुज कियो, चरण तुज भेटवा सांइरे;
 कीजीए जतन जिन ए विना, अवर न वांछीए कांइरे स्वामी०
 तुज वचन राग मुख आगळे, नवि गणुं सुरनरशर्मरे;
 कोडी जो कपट कोइ दाखवे, नवि तजुं तोए तुज धर्मरे स्वामी०

तुं मुज हृदयगिरिमां वसे, सिंह जो परम निरीहरे;
 कुमत मातंगना जूथथी, तो कशी प्रभु मुज बीहरे? स्वामी०
 कोडी छे दास प्रभु ताहरे, माहरे देव तुं एकरे;
 कीजीए सार सेवकतणी, ए तुज उचित विवेकरे. स्वामी० १२१
 भक्तिभावे इस्थुं भाखीए, राखीए एह मनर्षाहीरे;
 दासनां भवदुःख वारीए, तारीए सो ग्रही वांहीरे स्वामी० १२२
 वाळ जेम तात आगळ कहे, विनवुं हुं तेम तुजरे;
 उचित जाणो तेम आचरुं, नत्रि रह्यो तुज किस्थुं गुजरे. स्वामी०
 मुज होजो चित्त शुभ भावथी, भव भव ताहरी सेवरे;
 याचीए कोडी यतने करी, एह तुज आगळे देवरे. स्वामी० १२४

कळश.

हरिगीत छंद.

इम सकळसुखकर दुरितभयहर विमळलक्षण गुणधरो,
 प्रभु अजर अमर नरिंद्रदित विनव्यो सीमंधरो;
 निज नाद तर्जित मेघगर्जित वैर्य निर्जित मंदरो,
 श्री नयविजय बुध चरण सेवक ज्ञशाविजय बुध जयकरो.

१२५

९ श्री सम्यक्त्व विचार गर्भित श्री महावीरजिन स्तवन. +

ढाल पहेली.

ए छीडी किहां राखी—ए देशी

इगविध दुविध त्रिविध चउविध बळी, पणविध दशविध जाणो,
ए समकित शिवतरुनुं वीजक, संप्रति परे मन आणो रे—
प्राणी समकित शुद्ध आराधो, जेम शिवमारग साधोरे—प्राणी० १
इगविध तुज आणा रुचि दुविहा, द्रव्य भावथी कहीए;
निश्चय ने व्यवहारे अथवा, समकित दुविध सदहीएरे—प्राणी० २
सदहणा सूधी तुज आगम, परमारथ नवि जाणे;
समकित द्रव्यथकी तस कहीए, भावथी तत्त्व वखाणे रे—प्राणी० ३
मिथ्या पुद्गल शुद्धतुं वेदन, समकित द्रव्य कहावे;
भावथी तत्त्वरुचि पण तिमहिज, तत्त्वरुचि परिभावे रे—प्राणी० ४
पुद्गळ रूपी अरूपी पुद्गल, ए पण द्विविध तुं देखे;
क्षायोपशमिक वेदक पुद्गल, शेष अपुद्गल लेखे रे—प्राणी० ५
निश्चय समकित शुभ आतमनो, ज्ञानादिक परिणाम;
अथवा आतम समकित कहीए, गुणगुणी भेद न टामरं—प्राणी० ६
मिथ्यादृष्टिणी संस्तवना, त्यागादिक व्यवहार;
वळीय निसर्गापर अधिगमथी, विहुं भेदे निरधार रे—प्राणी० ७

+आ स्तवननो अर्थ विस्तार सहित प्रकरण रत्नाकर भाग
वीजामां पृष्ठ ७३८ थी छे.

जिम कोइ मारगभूलो पंथी, भमतो मारग आवे;
 कोइक उपदेशादिकयोगे, कोइक थाग न पावे रे—प्राणी० ८
 ज्वर पण सहेजे औषधयोगे, जाये एक न जाय;
 मारग ज्वरदृष्टांते समकित, इणि परे द्विविध थाय रे—प्राणी० ९
 जातिसभरण प्रमुखथकी जे, तास निसर्ग विचारो;
 गुरु उपदेशादिकथी आव्युं, ते अधिगम चित्त धारो रे—प्राणी० १०
 कारक रोचक दीपक भेदे, त्रिविधे पण ए भाष्युं;
 अथवा उपशम क्षायोपशमिक, क्षायिक भेदे दाख्युं रे—प्राणी० ११
 तें जिम भाष्युं ते तिम कीधुं, ते कारक तस खास;
 तुज धर्मोपरि रुचिथी रोचक, नहि किरियाअभ्यास रे—प्राणी०
 मिथ्यादृष्टि थको पण पोते, धर्मकथादिक सारे;
 दीपक परे परने दीपावे, ते दीपक उपचारे रे—प्राणी० १३
 ते समकित जिम फरस्युं जीवे, तिम तुज आगळ दाखुं;
 तुज आगभ नय न्याय शुद्धोदधि, परमारथ रस चाखुं रे—प्राणी०

ढाळ बीजी.

देव ! तुज सिद्धांत मीठो—ए देशी

वीर जिणेसर साहेव सुणजो, निज सेवक अरदास रे,
 दीन दयाकर ठाकुर आपो, तुम चरणे मुज वास रे—वीर० १
 लोकाकाशी रह्यो अविनाशी, भाव अनादि अनंत रे;
 ए भवचक्रतणां दुःख बहुलां, भोगत्रियां भगवंत रे—वीर० २
 सूक्ष्म निगोद वस्यो हुं स्वामी, अनादि वणस्सइ नाम रे;
 तिहां में कीध अनंता पुद्गल—परावर्त विण स्वामीरे—वीर० ३

- अव्यवहारराशे इम वसियो, काळ अनंतो भोगे रे;
 कर्मपरिणाम नृपतिआदेशे, तादृश भव्यतायोगे रे-वीर० ४
- तिहां एकण सासोसासमें कीधा, भव सतरे झाझेरा रे;
 ए दुःख तुज विण कोण छोडावे?स्वामी मुज भवफेरा रे-वीर० ५
- व्यवहारराशि लइ उत्कर्षे, काळ अनंत अनंतो रे;
 थूल निगोदने पृथ्वी पाणी, तेज अनिल त्रस जंतो रे-वीर० ६
- तिहां पण हुं वसियो तुम पाखे, मिथ्यामतने जोरे रे;
 हरि हर देव करी में मान्या, तुं न चढ्यो मन मारे रे-वीर० ७
- तेण में छेदन भेदन ताडन, भूख तृषा गुरु भार रे;
 गर्भवास ने जन्म जरा दुःख, भोगवियां निरधार रे-वीर० ८
- इम चउ गइ भवनां दुःख फरसी, वार अनंती अनाणी रे;
 पालादृष्टांते इग पुद्गल-परावर्त्त-स्थिति आणी रे-वीर० ९
- भव्यपणादिकने परिपाके, गिरिसरिउपलन्याये रे;
 अध्यवसाय विशेष करण जे, अनाभोगथी थाये रे-वीर० १०
- ते त्रिविधे भाख्युं तिहां पहेळें, यथाप्रवृत्त वळी वीजुं रे;
 करण अपूरव नामे कहीए, अनिवृत्तकरण ते त्रीजुं रे-वीर० ११
- यथाप्रवृत्तकरणे आयु विण, सात करम करी खीण रे;
 कोडाकोडी साथर इग पलनो, असंख्य भाग तिणे हीण रे-वीर०
- इहां कर्कस निविड गुपिल जिम ग्रंथी-भेदन दुकर काम रे;
 कर्मपरिणामजनित घन जीवनो, राग द्वेष परिणाम रे-वीर० १३
- ते ग्रंथी नवि भेदी जीवे, पहिली इणे संसार रे;
 वार अनंती अभव्य पण आवे, ग्रंथीलगे निरधार रे-वीर० १४
- भव्य अभव्य रहे तिहां ग्रंथी, संख्य असंख्यो काळ रे;
 अरिहंतादिकनी ऋद्धि देखी, संयमने उजमाळ रे-वीर० १५

- तिहां लहे श्रुत सामायिक द्रव्ये, शेष लाभ नहि तास रे;
 तिहांथी ग्रैवेयके पण जीवे, पण नवि शिवपुरवासरे-वीर० १६
- कोइक भव्य महातम तेहमां, जेहने भवनो पार रे;
 निशित कुठारधारे जिम ततखिण, भेदे वळ मनोहाररे-वीर० १७
- करण अपूरव परम विशुद्धे, तिम ते ग्रंथी आय रे;
 भेदीने अंतरमुहूरतमां, अनिवृत्तिकरणे जाय रे-वीर० १८
- मिथ्यामोहतणी स्थिति तेहनुं, अंतरमुहूरत एको रे;
 उदयक्षण उपरे ओलंघी, ते समरथ सुविवेकोरे-वीर० १९
- अनिवृत्तिकरण विशेषे अंतर-मुहूरत काळ अनुपो रे;
 अंतरकरण करे तिहां वेद्य जे, दलिक अभाव सरुपो रे-वीर० २०
- जिम वनदव दग्धे घन ऊखर, पामी ठाम उल्हाय रे;
 तिम मिथ्यावेदन वनदव सम, अंतरकरणे थाय रे-वीर० २१
- अंतरकरण कर्ये मिथ्यातनी, थितियुग कहे जिन न्याने रे;
 अंतरकरणथकी थिति हेठी, पहेली मुहूरत माने रे-वीर० २२
- तेहथी ऊपरली थिति वीजी, तिहां प्रथम स्थिति जाणो रे;
 मिथ्यादलिकनुं वेदन तेहथी, मिथ्यादृष्टि वखाणो रे-वीर० २३
- अंतरमुहूरत ते थिति नाशे, नहि मिच्छादलवेदोरे;
 अंतरकरणनो प्रथम समय तिहां, लहे उपशम निरवेदो रे-वीर०
- परमानंद मगन होइ भट जिम, जीती कटक अशेष रे;
 न्यायवंत हरषे जिम गाढे, न्यायधनागम पेख रे-वीर० २५

ढाळ त्रीजी.

महारी सहारे समाणी-ए देशी.

इणि परे तुजथी समकित फरस्युं, जेहथी भवजळ तरस्युं रे-धन
 धन तुम सेवा;

- एहथी मनवंचित फळ लेवा, ते करवा मुज हेवारे-धन० १
- तिहां कोइ देशविरति तस सरसी, सर्वविरति लहे हरिसी रे-धन०
- मिच्छा मयणकोदरवा सरिखुं, उपशमआपथ परखुं रे-धन० २
- जळवस्त्रादिकने दृष्टांते, तुज आगम कहे खांते रे-धन०
- मिथ्यापुंज करे त्रण शोधी, उपशम करी शुभ बोधि रे-धन० ३
- शुद्ध ने अर्थ विशुद्ध ते वीजो, अविशुद्धे मत रीझो रे-धन०
- उपशमथी पडियो मन वामे, क्षायोपशमिक पामे रे-धन० ४
- मिश्र तथा मिथ्यात्वने फरसे, करम मति इम हरसे रे-धन०
- वीजुं क्षायोपशमिक कहीए, उपशम परि पण लहीए रे-धन० ५
- मिच्छापुंज करी त्रिण निरणे, कोइ अपूरवकरणे रे-धन०
- शुद्ध पुंज तिहां वेदतो ज्ञानी, जिनवचनामृतपानीरे-धन० ६
- उपशम पाम्या विण तुज नामे, क्षायोपशमिक पामे रे-धन०
- यथाप्रवृत्तिकरणत्रय क्रमनी, अंतरकरणे तुजथी रे-धन० ७
- जे लहे उपशम भवजळ तरवा, तस त्रण पुंज न करवा रे-धन०
- आलंवन अलहंती इयळ, जिम संटाण न सूके रे-धन० ८
- मिश्रपुंज अणलाभी उपशमे, तिम मिथ्यात्वे दूके रे-धन०
- उपशमसमकितथी विणे पडियो, जइ मिथ्यागुण अडियो रे-धन०
- इम सिद्धांती निज मत खोले, कल्पभाष्य पण बोले रे-धन०
- ते त्रण पुंजनुं संक्रम भापुं, जिनवयणे मन राखुं रे-धन० १०
- मिथ्यादलिकथी पुद्गल खिंची, समकितदृष्टि विंची रे-धन०
- संकरभावे समकित मीसे, शुभ परिणामे हिंसे रे-धन० ११
- समकितदृष्टि मीस आकर्षी, समकित मांहे दर्पी रे-धन०
- संकरभावे मिथ्यादृष्टि, मिथ्यामां गुण पृष्टि रे-धन० १२
- समकितपुद्गल मिथ्या मांहे, पण मीसे नवि चाहे रे-धन०

- मिच्छा खीण नहि छे जेहने, ते त्रण पुंज छे तेहने रे-धन० १३
- मिच्छा खीण थये दोय पुंजी, मीस खये एक पुंजीरे-धन०
- स्वायिक समकित पुद्गल नाशे, जिनआगम इम भाषे रे-धन० १४
- शोधित मयणकोद्रवा थाने, समकितपुद्गल माने रे-धन०
- तेहने विरुध्ध तैलादिक पाशे, शुद्धपणुं तस नाशे रे-धन १५
- तिमज कुशास्त्र कुतीर्थीक संगे, तस किरिया मन रंगे रे-धन०
- मिथ्या मिश्रित समकित जाये, ततक्षण मिथ्या थाय रे-धन० १६
- समकितथी षड्युं जो पाछुं, वळी समकित लहे आछुं रे-धन०
- ते त्रण पुंज करे तिहां फेरी, मिच्छ अपूरवी वेसी रे-धन० १७
- अनिवृत्तिकरणवले ते रसियो, समकितपुंजे वसियो रे-धन०
- समकित परे जिहां विरतिने पावे, आद्य करण वे आवे रे-धन०
- करण अपूरव कालने आगे, विरति लही तिहां जागे रे-धन० १८
- अंतरमुहूरतमां तस लाधे, निज परिणामे वाधे रे-धन०
- उंचो नियम नहि तिहां कोइ, वृद्धि हाणि सम होइरे-धन० १९
- अनाभोग परिणामनी हाणे, गइ विरति नवि जाणे रे-धन०
- अकृतकरण थको ते प्राणी, फिरी लहे विरति सुहाणी रे-धन २०
- आभोगे जे विरतिथी खसिया, तिमज मिथ्यागुणे वसिया रे-धन०
- अंतरमुहूरतमां रहे आछी, जघन्यथकी फिरी पाछी रे-धन० २१
- उत्कर्षे वहु काले भाषी, आद्य करण छे साखी रे-धन०
- इणि परे कर्मप्रकृतिवृत्ति मांहे, तिहां जो जो उच्छाहे रे-धन० २२
- कोइ विराधितसमकित फेरी, ते लहे मिथ्यावेरी रे-धन०
- छट्टी नरकलगे ते जाय, समयमते कहेवाय रे-धन० २३
- आउ बंध विना उच्छाहे, फिरी समकित अवगाहे रे-धन०
- वैमानिकविण आउ न बांधे, कर्ममति मत सांधे रे-धन० २४

समकितपतित कहे मत वांधे, उत्कृष्टी स्थिति वांधे रे-धन०
 भिन्नग्रंथीने आगमन्याने, स्थिति उत्कर्ष न माने रे-धन० २५
 इणि परे भेद मतांतर जाणे, पण संदेह न आणे रे-धन०
 निःशंकित तुज वचन आराधे, न्याये तस गुण वाधे रे-धन० २६

ढाल चोथी.

विनय वहो सुखकार अथवा शालिभद्र भोगी रहो-ए देशी.
 दर्शनमोहविनाशथी जी, जे निर्मळ गुणठाण;
 ते समकित ओघे कहुंजी, ते भवियण चित्त आण रे-
 जिनजी तुण आणामुं रंग, मुज न गमे मिथ्यासंग रे-जि० १
 मिच्छा दरसन माहनीजी, उपशमी उपशय जाण;
 धुर ग्रंथीभेदे कहुंजी, उपशम श्रेणी प्रमाण रे-जि० २
 नाश उंदीरण मिच्छनोजी, अनुदीरण सम ठाम;
 क्षय उपशमथी ऊपजेजी, क्षयोपशमिका नाम रे-जि० ३
 त्रिविध मोह विनाशथीजी, त्रीजुं क्षायिक नाम;
 क्षपक श्रेणी चढतां हुएजी, जेहथी शिवपुरठाम रे-जि० ४
 विपाक प्रदेशे वेदवुंजी, द्विविध उदय विष्कंभ;
 उपशमनुं तेहने कहेजी, आगममां थिर थंभ रे-जि० ५
 नाश विपाकोदयथकीजी, वेदन तेहनुं रे नाम;
 उपशमी ते नवि संभवेजी, क्षायोपशमिक ठाम रे-जि० ६
 मिच्छापुद्गल वेदवाजी, शुद्ध अशुद्ध तिहां दौय;
 विपाक प्रदेशोदयथकीजी, अनुक्रमे समजी जोय रे-जि० ७
 अण चउ दुग मिच्छातणाजी, पुंज खपावी रे होय
 शुद्ध पुंज खपतां तिहांजी, अंतिम पुद्गल होय रे-जि० ८
 तस वेदन तेहने कहुंजी, वेदक चोथुं रे नाम;
 उपशम वमतां पांचमुंजी, सासादन गुण धाम रे-जि० ९

- अंतरमुहूरत एकनीजी, उपशम स्थिति उवेख,
 उत्कर्षे षट आवळीजी, जघन्य समय होय शेष रे-जि० १०
- अशुद्ध पुंज जावातणीजी, इच्छाए तिहां तास;
 अण कषाय उदये हुएजी, जेहथी उपशमनाशरे-जि० ११
- उपशमथी पडतां थकांजी, न गयो मिच्छा रे जाव;
 तावत सासादन कहंजी, उपशम स्वाद सहाव रे-जि० १२
- अंतरमुहूरत काळनीजी, उपशमस्थिति गुणखाण;
 सासादन षट आवळीजी, वेदक समयप्रमाण रे-जि० १३
- स्थिति सागर तेत्रीशनोजी, साधिक क्षायिक जाण;
 वमणी स्थिति एहथी कहीजी, क्षायोपशमिक ठाण रे-जि० १४
- उपशम सासादन कहंजी, आभववेळा रे पंच;
 वेदक एक वेळा हुएजी, तिमहीज क्षायिक संच रे-जि० १५
- वार असंख उत्कर्षथीजी, क्षायोपशमिक होय;
 हवे तस गुणठाणां कहंजी, सांभळजो सहु कोय रे-जि० १६
- उपशम अड गुणठाणमांजी, अविरत गुण पद रेख;
 क्षायिक गुणठाणे सवेजी, आदिम त्रण विण शेष रे-जि० १७
- अविरति गुणठाणा थकीजी, जावत सत्तमठाण;
 एक वेदक वीजुं इहां जी, क्षायोपशमिक जाण रे-जि० १८
- सासादन सासादनेजी, भाषे अंग उवंग;
 न्याये शिवसुख ते लहेजी, जश तुज आण अभंग रे-जि० १९

ढाळ पांचमी.

शांति सुधारस कुंडमां तुं रमे मुनिवर—ए देशी.

धन धन शासन ताहरूं, माहरूं जिहां मन लीन रे;
 क्षण पण तस विण नवि रहे, जिम जळभर विण मीन रे-धन० १.

- देशविरति दरशन थकी, पलिय पहुत्तमां जाणी रे; १
- अनुक्रमे चरण श्रेणी विहुं, संख्य सायर गुणखाणी रे-धन० २
- तेहिज भवे हुए तेहने, जेहने सत्तग खीण रे; ३
- चउ तिय भव उत्कर्षथी, पुव वद्धाउने पीण रे-धन० ३
- वद्धायु सुर नरगनुं, तेहने तिय भव तंत रे; ४
- आउ असंख्य नर तिरि तणुं, तस पण चउ भवे अंत रे-धन० ४
- समकितस्थिति होए ओघथी, अंतरमुहूरत एक रे; ५
- साहिय खओवसमा सिरी, सायर छासट्टी छेक रे-धन० ५
- इग अथवा बहु आसरी, दरसणनो उपयोग रे; ६
- जघन्य उत्कृष्ट थकी कखी, अंतरमुहूरत भोग रे-धन० ६
- दरसणलविध शुभ सुरलता, क्षयोपशमादिक रूप रे; ७
- अंतरमुहूरत माननी, जघन्यथी कहे जिनभूप रे-धन० ७
- छासठ सायर सवि मळी, नरभव हिय उत्कृष्ट रे; ८
- तेहथी उर्द्ध जो नवि दिए, समकित रयणने पृष्ठ रे-धन० ८
- ते निश्चय शिवपद लहे, ए एक जीवने योग रे; ९
- जीव नानाश्रित सर्वदा, दरसणनो उपयोग रे-धन० ९
- अंतरमुहूरत एकनुं, जघन्य अंतर मन आण रे; १०
- अर्द्ध पुद्गलपरावर्त्तनुं, तस उत्कृष्ट परिमाण रे-धन० १०
- जीव नानाश्रित नवि होए, समकित अंतर लेश रे; ११
- तत्र आवश्यकवृत्तिमां, ए अधिकार विशेष रे-धन० ११
- दशविध सहज उपदेशथी, उपशमप्रमुख जे पंच रे; १२
- अहव निसगग रुइ भेदथी, दशविध तस परपंच रे-धन० १२
- निसगगुवएस-आणारुइ, वीयरुइ अभिराम रे; १३
- अभिगमा-भोग-किरियारुइ, संखेव-धम्मरुइ नाम रे-धन० १३
- गुरु उपदेश विण सहेजथी, जिनवयणे परतीत रे; १४
- जेहने तेहने जाणजो, प्रथम निसर्गरुचि रीत रे-धन० १४

ते सवि गुरु उपदेशथी, सहहे जे जण आप रे;	
ते उपदेशरुचि नर कह्यो, इम तुम आगमथाप रे-धन०	१५
कारणप्रमुख अजाणतो, मुज जिनआणज खेम रे;	
तइय आणारुचि तुं कहे, मापतुषादिक जेम रे-धन०	१६
सूत्र भणवो समकित लहे, प्रसन्न प्रसन्न परिणाम रे;	
गोविंद वाचकनी परे, सुत्तरुइ तस नाम रे-धन०	१७
देशरुइ खओवसमथी, सबरुइ विस्तारी रे;	
उदकमां तेलविंदु परे, वीयरुइ भव तारी रे-धन०	१८
अभिगमरुइ सुअनाणने, अरथथकी अवगाहे रे;	
अंग पइन्न प्रमुख जे, शास्त्र सव्वे निरवाहे रे-धन०	१९
द्रव्यना भाव जाण्या जिणे, सर्व प्रमाणे असेस रे;	
सर्व नये तिम तस कह्युं, वित्थाररुइ अवलेश रे-धन०	२०
दंसण नाण चारित वळी, तिम तिनयोत्तम काम रे;	
सुमति गुपति किरिया रुचे, ते किरियारुइ नाम रे-धन०	२१
आगमकोविद नवि हुए, कुमय कुदिद्विवि जुत्त रे;	
संखेवरुइ तेहने कह्युं, जिम चिलातिय पुत्त रे-धन०	२२
धम्म अधम्म प्रमुख दव, चरण सुयधम्मना भेद रे;	
जे जिनभाषित सहहे, ते धम्मरुइ निरवेद रे-धन०	२३
ए दशविध दरसण कह्युं, उत्तराध्ययनमझार रे;	
अध्ययने ते अडवीसमे, न्यायसागर सुखकार रे-धन०	२४

ढाल छट्टी.

माइ धन्न सुपन तुं—ए देशी.

जड जळ पण पोते सिंच्युं काठ न बोळे,

तस संगति लोहुं तेहने पण तस तोळे;

- तेम हुं गुणहीणो तो पण दास तमारो,
 अवगुण उवेखी प्रभुजी पार उतारो. १
- तुं गुणमणिदरीयो उद्धरियो जग जेणे,
 मुज कांड न तार्यो तुज संगति नहि तेणे;
 अलगो तर्हि विलगो तुं मुज दिलथी देव,
 अविचळ पद आपो ढीलतणी शी टेव ? २
- नहि तो मुज दावे नहि मूकुं करुं सोर,
 झाली दिलभितर घाली करशुं जोर,
 जाशो किम दीधा-विण शिवसुख जिनराज !
 सहेजे जो देशो तो रहेशे तुम लाज. ३
- अविनय मुज खमजो हुं छुं मूढ अजाण,
 करतां नवि आवे विनतडी जगभाण;
 वाळक जिम वोले कालो गहिलो वोल,
 ते मातपितामन लागे अमृततोल. ४
- इणि परे प्रभु स्तवियो समकित लेश विचारे,
 आगम अनुसारे मुज मतिने अनुहारे;
 संवत ऋतुरसमुनि-चंद्र* संवत्सर जाणी,
 भाद्रवे मासे सीत पंचमी गुणखाणी. ५
- श्री तपगच्छ नायक श्री विजयरत्न सूरींद,
 सुरगुरु जस आगळे कर जोडे मतिमंद;
 तस राज्ये पंडित उत्तमसागर सीस,
 कहे न्यायसागर प्रभु पूरो संघजगीस. ६

इति श्री सम्यक्त्व विचार गर्भित स्तवन.

१० श्री अठार पापस्थानकनी सज्झाय.

पहेला हिंसा पापस्थानकनी सज्झाय.

कपूर होये अति ऊजळो रे-ए देशी.

पापस्थानक पहिलुं कहुं रे, हिंसा नाम दुरंत;^१
मारे जे जग जीवने रे, ते लहे मरण अनंत रे प्राणी

—जिनवाणी धरो चित्त. १

मातपितादि अनंतनारे, पामे वियोग ते मंद;
दारिद्र्य दोहग^२ नवि टळेरें, मिले न वल्लभदंदरे— प्राणी० २
होय विपाके^३ दश गुणुरे, एक वार कियुं कर्म;
शत सहस्र कौडी गमेरे, वीत्र भावना मर्म रे— प्राणी० ३
मर कहेतां यण दुःख हुएरें, मारे किम नवि होय ?
हिंसाभगिनी अति बुरीरे, वैश्वानरनी^४ जोय रे— प्राणी० ४
तेहने जोरे जे हुआ रे, रौद्र ध्यान प्रमत्त;
नरकअतिथि ते नृप हुआ रे, जिम सुभूम ब्रह्मदत्तरे— प्राणी० ५
राय विवेक कन्या क्षमा रे, परणावे जस साय;
तेहथकी दूरे टळे रे, हिंसा नाम बलाय रे— प्राणी० ६

बीजा मृषावाद पापास्थानकनी सज्झाय.

लाळलदे मात मल्हार-ए देशी

बीजुं पापनुं स्थान, मृषावाद दुर्ध्यान;
आज हो छंडो रे भवि मंडो धर्मशुं प्रीतडीजी. १
वैर खेद अविश्वास, एहथी दोषअभ्यास;
आज हो थाए रे नवि जाए, व्याधि अपथ्यथीजी.^५ २

१ जेनां फळनो दुखे पार आवे ते. २ माठी गतिमां
जवापणुं. ३ फळ आपवाने वखते ४ यमराजा. ५ प्रतिकूल वस्तु -

रहियुं कालिकसूरि, परिजनवचन ते भूरि;
 आज हो सहियुं रे नवि कहियुं, जूठ भयादिकेजी. ४
 जे सत्य व्रत धरे चित्त, होय जगमांहे पवित्त;
 आज हो तिहने रे नवि धय, सुर व्यतर यक्षथीजी. ५
 जे नवि भाखे अलिक,^१ बोले ठायुं ठीक;
 आज हो टेके रे मुविवेके, सुयश ते सुख वरंजी. ६

त्रीजा अदत्तादान पापस्थानकनी सज्जाय.

निंदरडी बेरण हुड रही-ए देशो

चोरी व्यसन निवारीए, पापस्थानक हो त्रीजु कहुं घोरके;
 इहभव परभव दुःख घणां, एह व्यसने हो पामे जग चोरके. १
 चोर ते प्राय दरिद्री हुए, चोरीथी हो धन न ठरे नेट^२ के;
 चोरनो कोइ धणी नहीं, प्राये भूख्युं हो रहे चोरनुं पेटके-चो० २
 जिम जळमांही नांखीयो, तळे आवे हो जळने अयः गोळ^३के;
 चोर कठोर करम करी, जाय नरके हो तिम निपट^४निटोल^५के. ३
 नाहुं^६ पड्युं वळी विसर्युं, रहुं राख्युं हो थापण कर्युं जेहके;
 तृण तुस^७ मात्र न लीजीए, अणदीधुं हो किहां कोइनुं तेहके- ४
 दूरे अनर्थ सकळ टळे, मिले व्हाला हो सघळे जश थायके;
 मुरमुखनां हुए भेटणां, व्रत त्रीजुं हो आवे जस दायके-चोरी० ५
 त्यजी चोरपणुं देवता, होय निश्चय हो रोहिणीया जेप्रके;
 ए व्रतथी जेस मुख लहं, वळी प्राणी हो वहे पुण्यशुं प्रेम के-चो० ६

१ जूठ. २ स्थिर थइने, लांबो वगवत. ३ लांढानो गोळो.
 ४ गमार, मूर्ख. ५ निर्लेज्ज. ६ खोवाचलुं ७ फोतगं, लेश मात्र.

चोथा अब्रह्मचर्य पापस्थानकनी सज्जाय.

पापस्थानक चोथुं वर्जीए, दुर्गतिमूल अवंभ;	
जग सवि मूंझयो छे एहमां, छंडे तेह अचंभ-	पा० १
रुडुं लागे छे ए धुरें, परिणामे अति क्रूर;	
फळ किंपाक ^१ नी सारिखां, वर्जे सज्जन दूर-	पाप० २
अधर विद्रुम ^२ स्मित फूलडां, ^३ कुचफळ ^४ कठिन विशाल;	
रामा देखी न राचीए, ए विषवेलि रसाल-	पाप० ३
प्रवळ ज्वलित अय पूतळी, ^५ आर्लिगन भळुं तंत;	
नरकदुवारनितंविनी, ^६ जघन ^७ सेवन ए दुरंत-	पाप० ४
दावानळ गुणवनतणो, कुळ मशी कुर्चक ^८ एह;	
राजधानी मोहरायनी, पातक कानन ^९ मेह-	पाप० ५
प्रभुताए हरि सारिखो, रूपे मयण ^{१०} अवतार;	
सीताए रे रावण यथा, छंडो पर नर नार-	पाप० ६
दश शिर रज मांहे रोळव्यां, रावण विवश अवंभ;	
रामे न्याये रे आपणो, रोप्यो जग जयथंभ-	पाप० ७
पाप वंधाये रे अति घणुं, सुकृत सकळ क्षय जाय;	
अब्रह्मचारीनुं चिंतव्युं, कदिय सफल नवि थाय-	पाप० ८
मंत्र फळे जग जस वधे, देव करे रे सान्निद्ध;	
ब्रह्मचर्य धरे जे नरा, ते पामे नव निद्ध-	पाप० ९
शेठ सुदर्शनने टळी, शूळी सिंहासन होय;	
गुण गाये गगनेरे देवता, सहिमा शीलनुं जोय-	पाप० १०

१ झेरी फळ. २ परवाळां जेवा होठ ३ फूल झरे एवं थोडुं हसवुं ४ स्तन. ५ सख्त धगावेली लोढानी पूतळी. ६ नारी. ७ केडनो आगलो भाग ८ शाहीनो कुचडो. ९ पाप रुपी घन. १० कामदेव.

मूल चारित्र्यं ए भलं, समकित वृद्धि निदान;
शील सलील धरे जिके, तस हुए सुजस वखाण- पा० ११

पांचमा परिग्रह पापस्थानकनी सज्जाय.

सुमति सदा दिलमां धरो-ए देशी.

परिग्रह ममता परिहरो, परिग्रह दोषनुं मूल सलूणे;	
परिग्रह जेह धरे घणो, तस तप जप प्रतिकूल.	स. प. १
नवि पलटे मूल राशिथी, मार्गी ^१ कदिय न होय	स.
परिग्रह ग्रह छे अभिनवो, सहुने दीए दुःख सोय	स. प. २
परिग्रह मद गरुअत्तणे, ^२ भवमांही पडे जंत	स.
यानपात्र ^३ जिम सायरे, भाराक्रांत ^४ अत्यंत	स. प. ३
ज्ञानध्यान ह्यगयवरे, तप जप श्रुत परतंत	स.
छोडे सम प्रभुता लहे, मुनि पण परिग्रहवंत	स. प. ४
परिग्रह ग्रह वशे लिंगीया, लेइ कुमतिरज सीस	स.
जिम तिम जग लवता फिरे, उनमत्त हुइ निशदिस.	स. प. ५
तृपतो न जीव परिग्रहे, इंधणथी जिम आग	स.
तृष्णादाह ते उपशमे, जल सम ज्ञान वैराग.	स. प. ६
तृपतो सगर सुते नहि, गोधनथी कुचीकर्ण	स.
तिलक शेठ वळी धान्यथी, कनके नंद सकर्ण ^५	स. प. ७
असंतुष्ट परिग्रहभर्या, सुखीया न इंद नरिंद	स.
सुखी एक अपरिग्रही, साधु सुजस समकंद ^६	स. प. ८

१ निश्चित मार्गे चालनार, २ भारे धवाथी, ३ वहाण,
४ भारे भरेलुं, ५ पंडित डाळो. ६ समताना कंद,

छट्टा क्रोध पापस्थानकनी सज्जाय.

ऋषभनो वंश रयणायरु-ए देशी.

क्रोध ते वोधनिरोध छे, क्रोध ते संयमघातीरे;	
क्रोध ते नरकनुं वारणुं, क्रोध दुरित ^१ पक्षपातीरे.	१
पापस्थानक छट्टुं परिहरो, मन धरी उत्तम खंति ^२ रे;	
क्रोधभुयंग ^३ नी जांगुली ^४ , एह कही जयवंतीरे.	पा. २
पूरव कोडि चरण ^५ गुणे, भाव्यो छे आतम जेणरे;	
क्रोधविवश हुता दोय घडी, हारे सवि फळ तेणरे.	पा. ३
वाळे आश्रम आपणो, भजना ^६ अन्यने दाहेरे;	
क्रोध कृशानु ^७ समान छे, टाळे प्रशम ^८ प्रवाहेरे.	पा. ४
आक्रोश तर्जना घातना, धर्मभ्रंशने भावेरे;	
अग्रिम अग्रिम विरहथी ^९ , लाभ ते शुद्ध स्वभावेरे.	पा. ५
न होय ने होय तो चिर नहि, चिर रहे तो फळ छे हो रे;	
सज्जनक्रोध ते एहवो, जेहवो हुर्जननेहो रे.	पा. ६
क्रोधी मुखे कटु बोलणा, कंटकीया कूटसाखी ^{१०} रे;	
अदिद्व कल्याणकरा ^{११} कह्या, दोष तरुशत साखीरे.	पा. ७
कूरगडू चउ तप कर्या, चरित सुणी सम आणोरे;	
उपशम सार छे प्रवचने, सुजशवचन ए प्रमाणोरे.	पा. ८

सातमा मान पापस्थानकनी सज्जाय.

नदी यमुनाके तीर उडे दोय पंखिडां—ए देशी.

पापस्थानक कहे सातमुं श्री जिनराजए,
मान मानवने होय दुरितशिरताज ए;

१ पाप, २ क्षमा, ३ सर्प, ४ जांगुलीमंत्र, ५ चारित्र, ६ होवुं अथवा न होवुं (बाळे के न बाळे), ७ अग्नि, ८ शांति, ९ एक एकना अनुक्रमे-त्यागथी, १० खराव झाड (बोरडी, बावळ, थोर वनेरे), ११ नहि जायाज भला.

आठ शिखर गिरिराजतणां आडां वळे,
नावे विमलालोक^१ तिहां किम तम^२ टळे ? १

प्रज्ञामद तपमद वळी गोत्रमदे भयां,
आजीविकामदवंत न मुक्ति अंगीकर्यां;
अयोपशम अनुसारे जो एह गुण वहे,
श्यो मद करवो एहमां ? निर्मद मुख लहे. २

उच्चभाव दृढदोषे मदज्वर आकरो,
होय तेहनो प्रतिकार^३ कहे मुनिवर खरो;
पूर्व पुरुष सिंधुर^४थी लघुता भाववुं,
शुद्ध भावन ते पावन शिवसाधन नवुं. ३

माने खोशुं राज्य लंकानुं रावणे,
नरनुं मान हरे हरि आवी औरावणे;
धृतिभद्र श्रुतमदथी पाम्या विकार ए,
माने जीवने आवे नरकअधिकार ए. ४

विनय श्रुत तप गील त्रिवर्ग हणे सवे,
मान ते ज्ञाननो भंजक होय भवोभवे;
लंपक छेक विवेकरयणनो मान छे,
एहने छांडे तास न दुःख रहे पळे. ५

माने वाहुवलि वरसलगे काउस्सग रह्या,
निर्मद सेवक चक्री दोग्य मुनि सम कह्या;
सावधान त्यजी मान जे ध्यान धवल धरे,
परमा सुजसरमा^५ तस आलिंगन करे. ६

आठमा माया पापस्थानकनी सज्झाय.

स्वामी स्वयंप्रभ सांभळो अरिहंताजी-ए देशी.

पापस्थानक अष्टम कथं सुणो संताजी,

छांडो माया मूल गुणवंताजी;

कष्ट करे व्रत आदरे सु., मायाए ते प्रतिकूल गु. १

नगन मासउपवासिया सु., सीथ^१लीए कृश अन्न गु;

गर्भ अनंता पामझे सु., जो छे माया मन्न गु० २

केश लोच मलधारणा सु., भूमिशय्या व्रतयाग गु.

सुकर^२सकळ छे साधुने सु., दुप्कर मायात्याग गु. ३

नयन वचन आकारनुं सु., गोपन माभ्यावंत गु. ४

जेह करे असती परे सु., ते नहि हितकर तंत गु.

कुसुमपुरे घर शेठने सु., हेठे रह्यो संविज्ञ गु. ५

उपरे तस बीजो रह्यो सु., मुत्कल^३पण सुगुणज्ञ गु.

दंभी एक निंदा करे सु., बीजो धरे गुणराग गु.

पहेलाने भव दुत्तर^४ कहे सु., बीजाने कहे वळी ताग गु. ६

विधि निषेध नवि उपदिशे सु., एकांते भगवंत गु.

कारणे निष्कपटी हवुं सु., ए आणा छे तंत गु. ७

मायाथी अळगा टळो सु., जिम मळो सुगतिहुं रंग गु.

सुजसविलास सुखी रह्यो सु., लक्षण आवे अंग गु. ८




१ दाणो, २ सहेलुं, ३ मोकळो (शिथिलाचारी), ४ दु खे संसार तरनार

नवमा लोभ पापस्थानकनी सज्ज्ञाय.

जीरे मारे जाग्यो कुमर जाम—ए देशी.

- जीरे मारे लोभ ते दोष अथोभ,^१
 पापस्थानक नवमुं कहुं जीरेजी;
 जी. सर्व विनाशनुं मूल, एहथी कोइ न सुख लहुं जी रे. १
 जी. सुणीए बहु लोभांध, चक्रवर्ती हरीनी कथा जी रे.
 जी. पाम्या कटुक विपाक, पीवत रक्त^२जळो यथा जी रे. २
 जी. निर्धनने शतचाह^३, शतचहे सहस लोभीए जी रे.
 जी. सहस लहे लखलोभ, लखलोभे मन कोडीए जी रे. ३
 जी. कोटीश्वर नृपकृद्धि, नृप चाहे चक्रीपणुं जी रे.
 जी. चाहे चक्री सुरभोग, सुर चाहे सुरपतिसुख घणुं जी रे. ४
 जी. मूल लघुपणे लोभ, बाधे शराव^४परे सही जी रे.
 जी. उत्तराध्ययने अनंत, इच्छा आकाशसमी कही जी रे. ५
 जी. स्वयंभूरमण समुद्र, कोइक अवगाही शके जी रे.
 जी. ते पण लोभसमुद्र—पार न पामे वलथके जी रे. ६
 जी. कोइक लोभने हेत, तप श्रुत हारे जे जडा जी रे.
 जी. काग उडावण हेत, सुरमणि^५ नाखे तें खडा जी रे. ७
 जी. लोभ तजे जे धीर, तस सवि संपत्ति किंकरी जी रे.
 जी. सुजस मुपुण्य विलास, गावे तस सुरमुंदरी जी रे. ८



१ अति घणो, २ लोही, ३ सोनी इच्छा- ४ सरवलां, अल-
 सियां, ५ न्हाड. ६ चिंतामणि ग्न

दशमा राग पापस्थानकनी सज्जाय.

सुण मोरी सजनी रजनी न जावे रे-ए देशी.

पापस्थानक दशमुं कहुं रागरे, कुणहि न पाभ्यो तेहनो तागरे;
 रागे वाह्या हरि हर वंभारे, राचे नाचे करेय अचंभारे. १
 राग केशरी छे बड राजारे, विषयाभिलाष ते मंत्री ताजारे;
 जेहना छोरु इंद्रिय पंचोरे, तेहनो कीयो ए सकल प्रपंचोरे. २
 जेह सदागमवश हुइ जाशेरे, अप्रमत्तता शिखरे वाशे^१रे;
 चरण धरम नृप शैल^२ विवेकेरे, तेहशुं न चले रागो टेकेरे. ३
 बीजा तो सवि रागे वाह्यारे, एकादश गुणठाणे उमाह्या^३ रे;
 रागे पाड्या ते नर खुत्तारे, नरकनिगोदे महादुःखजुत्तारे. ४
 रागहरण तप जप श्रुत भाख्यांरे,
 तेहथी पण जिणे भवफळ चाख्यांरे;
 तेहनो कोइ न छे प्रतिकारोरे, अमीय होय विष त्यां शो चारोरे १५
 तपवले छुट्या तरणुं ताणीरे, कंचन कोडि आषाढभूति नाणीरे;
 नंदिवेण पुण रागे नडियारे, श्रुतनिधि पण वेश्यावश पडियारे. ६
 वावीश जिन पण रही घरवासेरे, वर्या पूर्व राग अभ्यासेरे;
 वज्रबंध पण जस बल तूटेरे, नेहतंतुथी तेह न छूटे रे. ७
 देहउच्चाटन^४ अग्निनुं दहवुंरे, घणकुट्टन ए सवि दुःख सहवुं रे;
 अति घणुं राती जे होय मजीठ रे, रागतणो गुण एहज दीठरे. ८
 राग न करजो कोइ नर कोइशुंरे,
 नवि रहेवाय तो करजो मुनिशुंरे,
 मणि जिम फणीविषनो^५ तिम तेहोरे,
 रागनुं भेषज सुजशसनेहोरे. ९

१ वसशे. २ पर्वत. ३ पहाँच्या. ४ देहनो नाश (खंडाइन
 भूको थइ जहुं ते. ५ झेरनो
 १२

अग्यारमा द्वेष पापस्थानकनी सज्जाय.

लालननी देशी.

द्वेष न धरीए लालन द्वेष न धरीए,
 द्वेष तज्याथी लालन शिवसुख वरीए ला. शि.
 पापस्थानक ए अग्यारमुं कूडुं,
 द्वेषरहित चित्त होय सवि रुडुं ला. हो. १
 चरण करण गुण वनी चित्रशाली^१,
 द्वेषधूमे^२ होय ते सवि काली ला. ते. २
 दोष वेंतालीश शुद्धआहारी,
 धूम्रदोषे होय प्रवल विकारी ला. प्र. ३
 उग्र विहार ने तप जप किरिया,
 करता द्वेष ते भवमांहे फरिया ला. भ. ४
 योगनुं अंग अद्वेष छे पहेलुं,
 साधन सवि लहे तेहथी वहेलुं ला. ते. ५
 निर्गुण ते गुणवंत न जाणे,
 गुणवंत ते गुण द्वेषमां ताणे ला. द्वे. ६
 आप गुणी ने वळी गुणरागी,
 जगमांहे तेहनी कीरति जागी ला. की. ७
 राग धरीजे जिहां गुण लहीए,
 निर्गुण उपर समचित्त रहीए ला. स. ८
 भवधित्तिचित्तन सुजशविलासे,
 उत्तमना गुण एम प्रकाशे ला. ए. ९



१ चित्रवाळो सुंदर आवास (रहेवानुं घर), २ द्वेषरूपी धुमाडाघटे.

वारमा कलह पापस्थानकनी सज्जाय.

किसके चेले किसके पूत-प देशी.

- कलह ते वारमुं पापनुं स्थान, दुरगति वननुं मूळ निदान-
साजन सांभळो, महोटो रोग कलह काचकामळो.^१
- दंतकलह जे घरमांहे होय, लच्छीनिवास तिहां नवि जोय. सा. १
- शुं सुंदरी तुं न करे सार^२? न करे आपे कांइ गमार-सा.
- क्रोधमुखी तुं तुजने धिकार, तुजथी अधिको कुण ? कलिकाळ-सा. २
- साहसुं वोले पापणी नित्त, पापी तुज पिता जुओ चित्त-सा.
- दंतकलह इम जेहने थाय, ते दंपतीने सुख कुण ठाय ? स्व. ३
- कांटे कांटे थाये वाडी, वोले वोले वाथे राडी-सा.
- जाणी मौन धरे गुणवंत, ते सुख पामे अतुल अनंत- सा. ४
- नित्ये कलहण कोहणशील^३, भंडणशील^४ विवादनशील^५ सा.
- चित्त उताप धरे जे एम, संयम करे निरर्थक तेम- सा. ५
- कलह करीने खमावे जेह, लघु गुरु आराधक होय तेह-सा.
- कलह समावे ते धन्न धन्न, उपशमसार कहियो सामन्न^६ सा. ६
- नारद नारी निर्दय चित्त, कलह उदीरे^७ त्रणे नित्त-सा.
- सज्जन सुजन सुशील महंत, वारे कलह स्वभावे संत- सा. ७

तेरमा अभ्याख्यान पापस्थानकनी सज्जाय.

अरुणिक मुनिवर चाल्या गोचरी-प देशी.

पापस्थानक ते तेरमुं छांडीए, अभ्याख्यान दुरंतोजी;
अछतां आळ जे परनां उच्चरे, दुःख पामे ते अनंतोजी-

१ कमळा, २ संभाळ, ३ क्रोध करवानी टेंव, ४ भांडवाली
टेंव, ५ वाद करवानी टेंव, ६ धमण (साधु)पणुं, ७ जगडे,

- धन धन ते नर जे जिनमत धरे. १
- अछते दोषे रे अभ्याख्यान जे, करे न पूरे ठाणोजी;
ते ते दोषेरे तेहने दूषीए, इम भाखे जिनभाणो जी-ध. २
- जे बहु मुखरी^१ रे बळी मत्सरभर्या, अभ्याख्यानी ते होयजी;
प्रातक लागेरे अगकीधां सही, ते कीधुं सवि खोयजी-ध. ३
- मिथ्यामतिनी रे दश संज्ञा जिके, अभ्याख्यानना भेदोजी;
गुण अवगुणनो रे जे करे पालटो, ते पामे बहु खेदोजी-ध. ४
- परमे दोष न अछता दीजीए, पीजीए जो जिनवाणीजी;
उपक्षयरसथुरे जगमां भींजीए, कीजीए सुजशकमाणीजी-ध. ५

चौदमा पैशुन्य पापस्थानकनी सज्ज्ञाय.

शिरोहीनो शालु हो के उपर योधपुरी-ए देशी.

पापस्थानक हो के चौदसुं आकरुं,
पिथुनपणानुं^३ हो के व्यसन छे अति बूरुं;
अशन^५ मात्रनो हो के शुनक^४ कृतज्ञ^६ छे,
तेहथी भूंडो हो के पिथुन^७ लवे पछे. १
बहु उपकरीए हो के पिथुनने परे परे,
कलहनो दाता हो के होय ते उपरे;
दूधे धोयो हो के वायस^८ उजळो,
किम होये प्रकृते^९ हो के जे छे शामळो. २

१ वाचाळ, २ बोलका, ३ इष्यांळ, ४ चाडी खावानु, ५ खावानु,
६ कृतरो, ७ कपां गुणना जाण, ८ चाडीयो, ९ फरी फरी, १० कागडो,
१० स्वभाषे.

तिलहतिलक्षण^२ हो के नेह^२ छे त्यां लगे,
 नेह विणट्टे^३ हो के खल^४ कहीए जगे;
 इम निःस्नेही हो के निर्दय हृदयथी,
 पिशुननी वात्ता हो के नवि जाये कथी. ३
 चाडी करनां हो के वाडी गुणतणी,
 सूके चूके हो के ख्याति पुण्यतणी;
 कोइ नदी देखे हो के वदन पिशुनतणुं,
 निर्मळ कुळने हो के दीए ते कलंक घणुं. ४
 जिम सज्जनगुण हो के पिशुनने दूपीए,
 तिम तिणे सहेजे हो के त्रिभुवन भूपीए;
 भस्मे मांज्यो हो के दर्पण होय भलो,
 सुजश सवाइ हो के सज्जन सुकुलतिलो^५.




पंदरमा रतिअरति पापस्थानकनी सज्जाय.

प्रथम गोवाळातणे भवेजी-ए देशी.

जिहां रति^६ कोइक कारणेजी, अरति^७ तिहां पण होय;
 पापस्थानक ते पंदरमुंजी, तिणे ए एकज जोय
 -सुगुण नर, समजो चित्तमोझार. १
 चित्त अरति रति पांखशुंजी, ऊडे पंखीरे नित्त;
 पिंजर^८ शुद्ध समाधिमेंजी, वध्यो रहे ते मित्त-सु. २
 मनपारद^९ ऊडे नहिजी, पामी अरति रति आग;
 तो हुए सिद्धि कल्याणनीजी, भावठ जाए भाग-सु. ३
 रतिवशे अरति करीजी, भूतारथ होय जेह,

१ तलनुं तलपणुं, २ तेल, ३ नाश पामे, ४ खोळ, ५ सारा कुळमां तिलक समान, ६ प्रीति, ७ अप्रीति, ८ पांजरे; ९ पारो.

- तस विवेक आवे नहिजी, होय न दुःखनो छेह-सु. ४
 न रति अरति छे वस्तुथीजी, ते उपजे मनबांदि;
 अंगज^१ वल्लभ^२ सुत हुआजी, यूकादिक^३ नहि कांहि-सु. ५
 मनकल्पित रति अरति छे जी, नहीं सत्य पर्याय;
 नहीं तो वेची वस्तुमांजी, किम ते सवि मिट जाय ? सु. ६
 जेह अरति रति नवि गणेजी, सुख दुःख दोय समान;
 ते पामे जससंपदाजी, वाधे जग तस वान-सु. ७



सोळमा परपरिवाद पापस्थानकनी सज्झाय.

साहेव वाहु जिणेसर विनवुं-ए देशी.

- सुंदर पापस्थानक तजा सोळमुं, परनिंदा असराळहो;
 सुंदर निंदक जे मुखरी हुए, ते चोथो चंडाळ हो सुं. पा० १
 सुं. जेहने निंदानो ढाळ^३ छे, तप किरिया तस फोक हो;
 सुं. देव किव्विस^४ ते उपजे, ए फळ रोकारोक^५ हो सुं. पा० २
 सुं. क्रोध अजीरण तपतणुं, ज्ञानतणुं अहंकारहो;
 सुं. परनिंदा किरियातणुं, वमन अजीर्ण आहार हो सुं. पा० ३
 सुं. रुप न कोइनुं धारीए, दाखीए निज निज रंग हो;
 सुं. तेहमां कांइ निंदा नहि, बोले वीजुं अंग हो सुं. पा० ४
 सुं. निर्घ^६नो जेह स्वभाव छे, तास कथन नवि निंद हो;
 सुं. नाम धरी जे निंदा करे, तेह महामतिमंद हो सुं. पा० ५
 सुं. एह कुशीलणी एम कहे, कोप हुए जेह भाख हो;
 सुं. तेह वचन निंदातणुं, दश वैकालिक साख हो सुं. पा० ६

१ अंगयो उत्पन्न थयेलो, २ जू वगेरे, ३ देव, ४ चंडाळ
 जातिना देय, ५ रोकडे रोकडें, ६ निंदवा योग्य (वस्तु).

- सुं. दोषनजरथी निंदा हुए, गुणनजरे हुए राग हो;
- सुं. जग सवि चाले मादल^१मढ्यो, सर्वगुणी वीतराग हो सुं. पा० ७
- सुं. निजमुख-कनककचोलडे, निंदक परमल लेइ हो;
- सुं. जेह घणा पर गुण ग्रहे, संतं ते विरला कोइ हो सुं. पा० ८
- सुं. परपरिवाद^२-व्यसन तजो, न करो निज उत्कर्ष^३ हो;
- सुं. पापकरम इम सवि टळे, पामे शुभ जस हर्ष हो सुं. पा० ९




सत्तरमा मायामृषावाद पापस्थानकनी सज्ज्ञाय.

सखी चैतरज महीने चाल्या-ए देशी.

- सत्तरसुं पापनुं ठाम, परिहरजो सदगुणधाम;
- जिम वाधे जगमां माम^४ हो लाल,
- मायामोस न कीजीए. १
- ए तो विषने वळीय वधार्युं, ए तो शस्त्रने अवळुं धार्युं;
- ए तो वाघनुं वाल वकार्युं हो लाल-माया. २
- ए तो मायी ने मोसावाइ,
- थइ महोटा करेय टगाइ;
- तस हेठे गइ चतुराइ हो लाल-माया. ३
- वगलां परे पगलां भरता, थोडुं वोले जाणे मरता^५;
- जगधंघे घाले^६ फरता हो लाल-माया. ४
- जे कपटी वोले जूठुं, तस लागे पाप अपूठुं;
- पंडितमां होये मुख भूठुं हो लाल-माया. ५
- दंभीनुं जूठुं मीठुं, ते नारीचरित्रे दीठुं;
- पण ते छे दुर्गतिचीठुं हो लाल-माया. ६

१ ढोल, २ पारकी निंदा, ३ प्रशंसा, वखाण, ४ महिमा, ५ मृषावादी, ६ मरवा पडेलं, ७ माथुं मारे.

जे जूठो घे उपदेश, जनरंजननो घरे वेश;
 तेनो जूठो सकल कलेश हो लाल-माया. ७
 तेणे त्रीजो मारग भाख्यो, वेश निंदे दंभे राख्यो^१;
 शुद्धभाषके रामसुख चाव्यो हो लाल-माया. ८
 जूठं बोली उदर जे भरवुं, कपटीने वेशे फरवुं;
 ते जमवारे शुं करवुं हो लाल-माया. ९
 पडे जाणे तो पण दंभे,
 मायामोसने अधिक अचंभे;
 समकितदृष्टि मन थंभे हो लाल-माया. १०
 श्रुतपर्यादा निरधारी, रक्षा मायामोस निवारी;
 शुद्धभाषकनी वलिहारी हो लाल-माया. ११
 जे मायाए जूठ न बोले,
 जग नहि कोइ तेहने तोले;
 ते राजे सुजस अमोले हो लाल-माया. १२



अठारमा मिथ्यात्वशतक पापस्थानकनी सज्झाय.

उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आरा-प देशी.

अठारसुं जे पापनुं थानक, ते मिथ्यात्व परिहरीएजी;
 मत्तरथी पण ते एक भारी, होए तुलाए^२ जो धरीएजी;
 कष्ट करो परे परे टमो अप्पा^३, धर्मअर्थे धन खरचोजी,
 पण मिथ्यात्व छते ते जूठुं, तिणे तेहथी तुमे विरचो^४जी. ?
 किरिया करतो त्यजतो परिजन, दुःख तहतो मन रीझेजी,
 अंध न जीये परनी सेना, तिम मिथ्यादृष्टि न सीझेजी;

१ दंभघटे गत्तेला वेशने लोको निंदे, २ त्राजचामां, ३ आत्मा, ४ अटको.

श्रीकैलाससागरसूरि ज्ञानमन्दिरे
वीरसेन शूरसेन दृष्टान्ते, समकित्तनी निर्युक्तेजी,
जोइने भली परे मन भावो, एह अरथ वर युक्तेजी. २

धम्मे अधम्म^१ अधम्मे धम्मह^२, सन्ना मग्ग उमग्गा^३जी,
उन्मार्गे मारगनी^४ सन्ना, साधु असाधु संलग्गा^५जी;
असाधुमां साधुनी मति, जीवे अजीव (अजीव) जीव वेदो^६जी,
मुत्ते अमुत्त^७ अमुत्ते मुत्तह^८, सन्ना^९ ए दश भेदोजी. ३

अभिग्रहिक^{१०} निज निज मते अभिग्रह, अनभिग्रहिक^{११} सहु सरिखाजी,
अभिनिवेशी^{१२} जाणतो कहे जूहुं, करे न तत्वपरिख्खाजी;
संशय^{१३} ते जिनवचननी शंका, अव्यक्ते अनाभोगा^{१४}जी,
ए पण पांच भेद छे विश्रुत,^{१५} जाणे समजु लोगाजी. ४

लोक लोकोत्तर भेद ए पडविध,^{१६} देव धर्म वळी गुरु पर्वजी,
शक्ते तिहां लौकिक त्रण आदर, करतां प्रथम निगर्वजी;

१ धर्मने अधर्म माने, २ अधर्मने धर्म माने, ३ खरा मार्गने
खोटा मार्ग माने, ४ खोटा मार्गने खरो मार्ग माने, ५ साथे, ६ जाणे,
७ रूपीने अरूपी माने, ८ अरूपीने रूपी माने, ९ संज्ञा,
जाणवुं ते, १० पोताना मतमां आग्रह राखे, ११ बधा धर्मने सारा
माने, गोळ खोळ के सुवर्ण लोहनी परीक्षा न करे, १२ सत्य
मार्ग जाणे पण पोतानो आग्रह छोटे नहि, १३ जिनवचनमां
शंका करे, १४ एकेंद्रियादिकनी पेठे कंइज समजे नहि, १५
प्रख्यात, १६ लौकिक देवगत मिथ्यात्व (कुदेवमे सुदेव मानबा),
लौकिक गुरुगत मिथ्यात्व (कुगुरुने सुगुरु मानबा), लौकिक
पर्वगत मिथ्यात्व (मिथ्यात्वीनां होळी, बळेव वगेरे पर्वने
सुपर्व मानबां), लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व (वीतराग देवने
आ लोकनां सुखनी प्राप्तिनी इच्छाथी माने), लोकोत्तर गुरुगत
मिथ्यात्व (निग्रंथ सुगुरुनी सांसारिक सुखनी इच्छाथी सव
करे), लोकोत्तर पर्वगत मिथ्यात्व (ज्ञान पर्वने, सुखनी इच्छाथी
वगेरे पर्वने आ लोकनां सुखने माटे आराधना करे)


लोकोत्तर देव माने नीयाणे^१, गुरु जे लक्षणहीनाजी;
 पर्वनिष्ठ इह लोकने काजे, माने गुरुपदलीनाजी. ५
 एम एकवीश मिथ्यात्व त्यजे जे, भजे चरण गुरुकेरांजी,
 सजे न पापे रजे न राखे, मत्सर द्रोह अनेराजी;
 समकितधारी श्रुतआचारी, तेहनी जग वलिहारीजी,
 शासन समकितने आराधे, तेहनी करो मनोहारीजी. ६
 मिथ्यात्व ते जग परम रोग छे, वळीय महाअंधकारोजी,
 परम शत्रु ने परम शस्त्र ते, परम नरकसंचारो^२जी;
 परम दोहग^३ने परम दरिद्र ते, परम संकट ते कहीएजी,
 परम कंतार^४ परम दुर्भिक्ष^५ते, ते छांडे सुख लहीएजी. ७
 जे मिथ्यात्व लवलेश न राखे, शुद्धो मारग भाखेजी,
 ते समकित सुरतरु फळ चाखे, रहे वळी अणीए आखे^६जी,
 महोटाइ शी होय? गुणपाखे, गुण प्रभु समकित दाखेजी,
 श्री मयविजय विबुध पय सेवक, वाचक जस इम भाखे जी. ८

श्री अठार पापस्थानकनी सज्जाय संपूर्ण.



१ सुखप्राप्तिनी इच्छा, २ नरके जवुं, ३ दुर्भाग्य, ४ अटवी
 ५ दुष्काल, ६ अणीशुद्ध

११ श्री समकितना सडसठ बोलनी सज्झाय.



दूहा.

सुकृत वल्लि कादंविनी, समरी सरस्वती मात;
 समकित सडसठ बोलनी, कहीशुं मधुरी वात. १
 समकितदायक गुरुतणो, पच्चुवयार न थाय;
 भव कोडाकोडे करी, करतां सर्व उपाय. २
 दानादिक किरिया न दिये, समकित विण शिवशर्म;
 ते माटे समकित वडुं, जाणो प्रवचनमर्म. ३
 दर्शनमोहविनाशथी, जे निर्मळ गुणटाण;
 ते निश्चय समकित कहुं, तेहनां ए अहिठाण. ४

ढाळ पहेली वीरजिनेश्वर उपदिशे ए देशी.
 चउ सदहणा तिलिङ्ग छे, दशविध विनय विचारोरे;
 त्रण शुद्धि पण दूषण, आठ प्रभावक धारो रे. ५

हरिगीत छंद

प्रभावक अड पञ्च भूषण, पञ्च लक्षण जाणीए,
 षट जयण षट आगार भावना, छविहा मन आणीए;
 षट ठाण समकिततणा सडसठ, भेद एह उदार ए,
 एहनो तच्चविचार करतां, लहीजे भवपार ए. ६

ढाळ.

चउविह सदहणा तिहां, जीवादिक परमत्थो रे;
 प्रवचनमांहि जे भाखिया, लीजे तेहनो अत्थो रे. ७

हरिगीत छंद.

तेहनो अर्थ विचारीए, ए प्रथम सदहणा खरी,
 बीजो सदहणा तेहना जे, जाण मुनि गुण जवहरी;

संवेग रंग तरंग झीले, मार्ग शुद्ध कहे बुधा,
तेहनी सेवा कीजीए जिम, पीजीए समतासुधा. ८

ढाळ.

समकित जेणे ग्रही वस्युं, निहव ने अहाछन्दा रे;
पासत्था ने कुशीलिया, वेपविडंवक मंदा रे. ९

हरिगीत छंद.

मंदा अनाणी दूरे छंडो, त्रीजी सदहणा ग्रही,
परदर्शनीनो संग तजीए, चोथी सदहणा कही;
हीणातणो जे संग न तजे, तेहनो गुण नवि रहे,
ज्युं जलधिजलमां भल्युं गंगा,—नीर ल्णपणुं लहे. १०

ढाळ २.

जंबुद्वीपना भरतमां रे ए देशी.

त्रण लिंग समकिततणां रे, पहेलो श्रुतअभिलाप;
जेहथी श्रोता रस लहे रे, जेवो साकर द्राख रे—
प्राणी धरीए समकित रंग; जिम लहीए सुख

अभंगरे, प्राणी० ११

तरुण सुखी स्त्रीपरिवर्यो रे, चतुर सुणे सुरगीत;

तेहथी रागे अति घणे रे, धर्म सुण्यानी रीतरे, प्रा० १२

भूख्यो अटवी उतर्यो रे, जिम द्विज घेवर चंग;

इच्छे तिम जे धर्मने रे, तेहिज वीजु लिंग रे, प्रा० १३

वेयावच गुरु देवनुं रे, त्रीजुं लिंग उदार;

विद्यासाधक परे करे रे, आलस नविय लगाररे, प्रा० १४

ढाळ ३.

समकितबुं मूल जाणीए जी ए देशी

अरिहंत ते जिन विचरताजी, कर्म खपी हुआ सिद्ध;

चेइय जिनपडिमा कही जी, सूत्र सिद्धांत प्रसिद्ध-
चतुर नर, समजो विनयप्रकार, जिस लहीए समकित

सार-चतुर० १५

धर्म खिमादिक भाखियो जी, साधु तेहना रे गेह;
आचारज आचारना जी,—दायक नायक जेह चतुर० १६
उपाध्याय ते शिष्यने जी, सूत्र भणावणहार;
प्रवचन संघ वखाणीए जी, दरिसण समकित सार. च० १७
भगति वाह्य प्रतिपत्तिथी जी, हृदयप्रेम बहुमान;
गुणशुति अवगुण ढांकवा जी, आशातननी हाण. च० १८
पांच भेदे ए दशतणो जी, विनय करे अनुकूल;
सींचे तेह सुधारसेजी, धर्म वृक्षनुं मूल-चतुर० १९

ढाळ ४. धोवीडा तुं धोजे मननुं धोतीयुं रे ए देशी.

त्रण शुद्धि समकिततणीरे, तिहां पहिली मन शुद्धिरे;
श्रीजिन ने जिनमत विना रे, जूठ सकल ए बुद्धि रे-
चतुर विचारो चित्तमां रे. २०

जिनभगते जे नवि थयुं रे, ते वीजाथी केम थाय रे ?
एवुं जे मुखे भाखीए रे, तेनी वचनशुद्धि कहेवाय रे-च० २१
छेद्यो भेद्यो वेदनारे, जे सहेता अनेक प्रकार रे;
जिन विण पर सुर नवि नमे रे, तेहनी काया शुद्धि उदार
रे-चतुर० २२

ढाळ ५

कडवां फळ छे क्रोधनां ए देजीं

समकितदूषण परिहरो, जेहमां पहिली छे शंकारे;
ते जिनवचनमां मत करो, जेहने सम नृप रंकारे-
समकितदूषण परिहरो.

२३

कंखा कुमतनी वांछना, वीजुं दूषण तजीए;	
पामी सुरतरु परगडो, किम वाउल भजीए ? स०	२४
संशय धर्मनां फळतणो, वितिगिच्छा नामे;	
त्रीजुं दूषण परिहरो, निज शुभ परिणामे. सम०	२५
मिथ्यामति गुण वर्णनो, टाळो चोथो दोष;	
उनमारगी थुणतां हुवे, उनमारगपोष. सम०	२६
पांचमो दोष मिथ्यामति,--परिचय नवि कीजे;	
इम शुभ मति अरविंदनी, भली वासना लीजे. स०	२७

ढाळ ६.

अभिनंदन जिन दरिसण तरसीए ए देशी.

आठ प्रभावक प्रवचनना कहा, पावयणी धुरि जाण;	
वर्त्तमान श्रुतना जे अर्थनो, पार लहे गुणखाण-	
धन धन शासन मंडन मुनिवरा.	२८
धर्मकथी ते वीजो जाणीए, नंदिषेण परे जेह;	
निज उपदेशे रे रंजे लोकने, भंजे हृदयसंदेह. ध०	२९
वादी त्रीजो रे तर्कनिपुण भण्यो, मल्लवादी परे जेह;	
राजद्वारे जयकमळा वरे, गाजंतो जिम मेह. ध०	३०
भद्रवाहु परे जेह निमित्त कहे, परमत जीपण काज;	
तेह निमित्तीरे चोथो जाणीए, श्रीजिनशासनराज. ध०	३१
तप गुण ओपे रे रोपे धर्मने, गोपे नवि जिनआण,	
आस्रव लोपेरे नवि कोपे कदा, पञ्चम तपसी ते जाण. ध०	३२
छठो विद्या रे मंत्रतणो बलि, जिम श्री वयर मुर्णितः	
सिद्ध सातमो रे अञ्जनयोगथी, जिम कालिक मुनि-	

चंद, ध०

३३

काव्य सुधारस मधुर अर्थ भयीं, धर्महेतु करे जेह;
 सिद्धसेन परे राजा रीझवे, अट्टम वर कवि तेह. ध० ३४
 जव नवि होवे प्रभावक एहवा, तव विधिपूर्व अनेक;
 जात्रा पूजादिक करणी करे, तेह प्रभावक छेक. ध. ३५

ढाळ ७.

सतीय सुभद्रानी देशी.

सोहे समकित जेहथी, सखी जिम आभरणे देह;
 भूषण पांच ते मन वस्यां, सखी मन वस्यां तेहमां
 नहीं संदेह, मुज समकितरंग अचळ होजारे. ३६

पहिलुं कुशलपणुं तिहां, सखी वंदन ने पचरकाण;
 किरियानो विधि अति घणो, सखी अति घणो आचरे
 तेह सुजाण. मुज० ३७

वीजुं तीरथसेवना, सखी तीरथ तारे जेह;
 ते गीतारथ मुनिवरा, सखी तेहशुं कीजे नेह. मुज० ३८

भगति करे गुरुदेवनी, सखी त्रीजुं भूषण होय;
 किणहि चलाव्यो नवि चले, सची चोशुं ए भूषण
 जोय. मुज० ३९

जिनशासनअनुमोदना, सखी जेहथी बहु जन हुँत;
 कीजे तेह प्रभावना, सखी पांचशुं भूषण खँत. ४०

ढाळ ८

धर्मजिनेश्वर गाउं रंगशुं प देशी.

लक्षण पांच कहां समकिततणां, धुर उपशम

अनुकूल, सुगुण नर;

अपराधीशुं पण नवि चित्तथकी, चित्तवीए प्रतिकूल
 सुगुणनर, श्री जिनभाषित वचन विचारीए. ४१

सुरनरसुख जे दुःखकरी लेखवे, वंछे शिवसुख एक, सु०
 वीजुं लक्षण ते अंगीकरे, सार संवेगशुं टेक सु० श्री. ४२
 नारक चारक सम भवज्जभग्यो तारक जाणीने धर्म. सु०
 चाहे निकलवुं निर्वेद ते, त्रीजुं लक्षणमर्म, सु० श्री. ४३
 द्रव्यथकी दुःखियानी जे दया, धर्महीणानी रे भाव्य, सु०
 चोशुं लक्षण अनुकंपा कही, निज शक्ते मन लाव्य, सु० श्री ४४
 जे जिनभाख्युं ते नहि अन्यथा, एहवो जे दृढ रंग, सु०
 ते आस्तिकता लक्षण पांचसुं, करे कुमतिनो ए
 भंग सु० श्री. ४५

ढाल ९.

त्रीजे भव वर स्थानकतप करी ए देशी.

परतीरथी परना सुर तेणे, चैत्य ग्रहां वळी जेह;
 वंदन प्रमुख तिहां नवि करवुं, ते जयणा षट भेयरे-
 भविका, समकितयतना कीजे. ४६

वंदन ते करयोजन कहीए, नमन ते शीश नमावै;
 दान इष्ट अन्नादिक देवुं, गौरव भगति देखावे
 रे भ० स० ४७

अनुप्रदान ते तेहने कहीए, वार वार जे दान;
 टोप कुपात्रे पात्रमतिए, नहि अनुकंपा मानरे भ० स० ४८
 अणवोलावे जेह वोळवुं, ते कहीए आलाप;
 वार वार आलाप जे करवो, ते जाणो संलापरे भ० स० ४९
 ए जयणाथी समकित दीपे, वळी दीपे व्यवहार;
 एमां पण कारणथी जयणा, तेहना अनेक प्रकार
 रे भ० स० ५०

ढाळ १०.

ललनानी देशी.

शुद्ध धर्मथी नवि चले, अति दृढ गुण आधार ललना;
 तो पण जे नहि ऐहवा, तेहने ए आगार ललना- ५१
 वोल्हुं तेहवुं पाळीए, दंतीदंतसम वोळ ललना;
 सज्जन ने दुर्जनतणा, कछप कोटिने तोळ ललना. वो० ५२
 राजा नगरादिक धणी, तस शासनअभियोग ललना;
 तेहथी कार्तिकनी परे, नहि मिथ्यात्व संयोग ललना. वो० ५३
 मेलो जननो गण कळो, वलचोरादिक जाण ललना;
 क्षेत्रपालादिक देवता, तातादिक गुरुठाण ललना. वो० ५४
 वृत्ति दुर्लभ आजीविका, ते भीषणकांतार ललना;
 ते हेते दूषण नहीं, करतां अन्य आचार ललना. वो० ५५

ढाळ ११.

राग मल्हार.

पांच पोथी रे ठवणी पाटां विटांगणां ए देशी.

भावीजे रे समकित जेहथी रुअडुं,
 ते भावना रे भावो करी मन परवडुं;
 जो समकित रे ताजुं साजुं मूल रे,
 तो व्रततरु रे, दीए शिवफळ अनुकूल रे. ५६

हरिगीत छंद.

अनुकूल मूल रसाळ समकित, तेह विण मतिअंध ए,
 जे करे किरिया गर्वभरिया, तेह जूटो धंध ए;
 ए प्रथम भावन गुणे रुडी, सुणो बीजी भावना,
 बारणुं समकितधर्मपुरनुं, एहवी ते पावना. ५७

ढाळ.

त्रीजी भावना रे समकितपीठ जो दृढ ग्रही,
तो मोटो रे धर्मप्रासाद डगे नहीं;
पाये खोटे रे मोटे मंडाण न शोभीए,
तेणे कारण रे समकितशुं चित्त थोभीए.

५८

हरिगीत छंद.

थोभीए चित्त नित एम भावी, चोथी भावना भावीए,
समकित निधान समस्त गुणतुं. एहवुं मन लावीए;
ते विना छटा रत्न सरिखा मूल उत्तर गुण सवे,
किम रहे ताके जेह हरवा, चोरजोर भवे भवे.

५९

ढाळ.

भावो पंचमी रे भावना शम दम साररे,
पृथ्वी परे रे समकित तस आधार रे;
छट्टी भावना रे समकितभाजन जो मळे,
श्रुत शीलनो रे तो रस तेहमांथी नवि ढळे.

६०

हरिगीत छंद.

नवि ढळे समकितभावनो रस, अभियसम संवरतणो,
पट भावना ए कही एहमां, करो आदर अति घणो;
इम भावतां परमार्थ जलनिधि, होय नित्य झकझोल ए,
घन पवन पुण्य प्रमाण प्रगटे, चिदानंदकल्लोल ए.

६१

ढाळ १२.

मंगळ आठ करो जस्त आगळ प देशी.

ठरे जिहां समकित ते थानक, तेहनां पटविथ कहीएरे;
तिहां पहिले थानक छे चेतन, लक्षण आतम लहीएरे;

खीरनीरपरे पुद्गलमिश्रित, पण एहथी छे अळगोरे,
अनुभव हंसचंचु जो लागे, तो नहि दीसे वळगो रे. ६२

वीजुं थानक नित्य आतमा, जे अनुभूत संभारे रे,
वाळकने स्तनपानवासना, पूरव भव अनुसारे रे;
देव मनुज नरकादिक तेहना, छे अनित्य पर्यायो रे,
द्रव्यथकी अविचलित अखंडित, निज गुण आतमरायारे. ६३

त्रीजुं स्थानक चेतन कर्ता, कर्मतणे छे योगे रे,
कुंभकार जिम कुंभतणो जग, दंडादिकसंयोगे रे;
निश्चयथी निज गुणनो कर्ता, अनुपचरित व्यवहारे रे,
द्रव्यकर्मनो नगरादिकनो, ते उपचार प्रकारे रे. ६४

चोथुं थानक चेतन भोक्ता, पुण्य पाप फळकरो रे,
व्यवहारे निश्चय नय दृष्टे, भुंजे निज गुण नेरो रे;
पांचसुं थानक अछे परम पद, अचल अनंत सुखवासो रे,
आधि व्याधि तन मनथी लहीए, तस अभावे सुख
खासो रे. ६५

छटुं थानक मोक्षतणुं छे, संजम ज्ञान उपायो रे,
जो सहजे लहीए तो सघळे, कारण निष्फल थायो रे;
कहे ज्ञाननय ज्ञानज साचुं. ते विण जूठी किरिया रे,
न लहे रूपं रूपं जाणो, सीपमणी जे फरिया रे. ६६

कहे किरियानय किरिया विण जे, ज्ञान तेह थुं करशे रे ?
जळ पेसी कर पद न हलावे, तारु ते किम तरशे रे ?
दूषण भूषण छे इहां बहोळां, नय एकेकने वादे रे,
सिद्धांती ते बेहु फल समथे, ज्ञानवंत अप्रमादेरे. ६७

इणि परे सडसठ वोल विचारी, जे समकित आराहेरे,
 राग द्वेष टाळी मन वाळी, ते समसुख अवगाहे रे;
 जेहनुं मन समकितमां निश्चल, कोइ नहीं तस तोले रे,
 श्री नयविजय विबुध पय सेवक, वाचकजस इम बोले रे. ६८

इति श्री सम्यक्तवना सडसठ वोलनी सज्जाय संपूर्ण.

१३ यति धर्म बत्रिशी.

दोहरा.

भावयति तेने कहो, ज्यां दशविध यतिधर्म;	
कपटक्रियामां म्हालता, महीयां वांधे कर्म.	१
लौकिक लोकोत्तर क्षमा, दुविध कही भगवंत;	
तेहमां लोकोत्तर क्षमा, प्रथम धर्म छे तंत.	२
वचन धर्म नामे कह्यो, तेहना पण बहु भेद,	
आगमवयणे जे क्षमा, तेह प्रथम अपखेद.	३
धर्म क्षमा निज सहजयी, चंदन गंध प्रकार;	
निरतिचार ते जाणीए, प्रथम सूक्ष्म अतिचार.	४
उपकारे अपकारथी, लौकिक वळी विवाग;	
बहु अतिचार भरी क्षमा, नहि संयमने लाग.	५
वार कपाये क्षय करी, जे मुनि धर्म लहाय,	
वचन धर्म नामे क्षमा, जे बहु तिहां कहाय.	६
मद्व अज्जव मुत्ति तव, पंच भेद एम जाण,	
त्यां पण भावनियंठने, चरम भेद प्रमाण.	७
इह लोकादिक कामना, विण अणसण मुख जाग;	
शुद्ध निर्जरा फळ कह्यो, तप शिवसुखसंयोग.	८

- आश्रयद्वारने रंधीए, इंद्रिय दंड कषाय;
सत्तर भेद संयम कह्यो, एहिज मोक्षउपाय. ९
- सत्य सूत्र अविरुद्ध जे, वचन विवेक विशुद्ध;
आलोयण जळ शुद्धता, शौच धर्म अविरुद्ध. १०
- खग उपाय मनमे धरे, धर्मोपगरण जेह;
वरजित उपधि न आदरे, भावअकिंचन तेह. ११
- शील विषय मन वृत्ति जे, ब्रह्म तेह सुपवित्त;
होय अनुत्तरदेवने, विषय त्यागनो चित्त. १२
- ए दशविध यतिधर्म जे, आराधे नित्यमेव;
मूळ उत्तर गुण यतनथी, तेहनी कीजे सेव. १३
- अंतर जतना विण किश्यो, वाह्यक्रियानो लाग ?
केवळ कंचुकि परिहरे, निर्विष हुए न नाग. १४
- दोषरहित आहार ल्ये, मनमां गारव राखी,
ते केवळ आजीविका, सूयगडांगनी साखी. १५
- नाम धरावे चरणनुं, विगर चरण गुणखाण;
पापश्रमण ते जाणीए, उत्तराध्ययन प्रमाण. १६
- शुद्ध क्रिया न करी शके, तो तुं शुद्धुं भाख;
शुद्ध प्ररूपक होइ करी, जिनशासनस्थिति राख. १७
- उसन्नो पण करमरज, टाळे पाळे बोध;
चरण करण अनुमोदतां, गच्छाचारे शोध. १८
- हीणो पण ज्ञाने अधिक, सुंदर सुखचि विशाळ;
अल्पागम मुनि नहि भलो, बोले उपदेशमाळ. १९
- ज्ञानवंतने केळवी, द्रव्यादिक अहि नाण;
बृहत् कल्प भाषे वळी, सरसां भाष्या जाण. २०
- ज्ञानादिक गुण मच्छरी, कष्ट करे ते फोक;
ग्रंथिभेद पण तस नहीं, भूले भोळा लोक. २१

- ज्यों जोहार जवेहरी, ज्ञाने ज्ञानी तेम;
हीनाधिक जाणे चतुर, मूरख जाणे केम ? २२
- आदर कीधे तेहने, उन्मारग थिर होय;
बाह्यक्रिया मत राचजो, पंचाशक अवलोय. २३
- जेहथी मारग पापीयो, तेहने सामो थाय;
प्रत्यनीकते पापीयो, निश्चय नरके जाय. २४
- सुंदर बुद्धिपणे कर्यो, सुंदर सरव न थाय;
ज्ञानादिक वचने करी, मारग चाल्यो जाय. २५
- ज्ञानादिक वचने रह्या, साथे जे शिवपंथ;
आतमज्ञाने ऊजळो, ते हु भावनिग्रंथ. २६
- निंदक निश्च नारकी. बाह्यरुचि मतिअंध;
आतमज्ञाने जे रमे, तेहने तो नहि बंध. २७
- आतमसाखे धर्म जे, त्यां जननुं शुं काम ?
जन मन रंजन धर्मनुं, मूल न एक वदाम. २८
- जगयां जन छे बहु सुखी, रुचि नहीं को एक;
निज हित होय तिम कीजीए, ग्रही प्रतिज्ञा टेक. २९
- दूर रही जे विषयथी, कीजे श्रुतअभ्यास;
संगति कीजे संतनी, हुइए तेहना दास. ३०
- समतानें लय लाइए, धरी अध्यातमंग;
निद्रा सजीए परतणी, भजीए संयम चंग. ३१
- बाह्यक यशविजये कही, ए मुनिने हितवात;
एह भाव जे मुनि धरे, ते पामे शिवसात. ३२

इति संयम वत्रिशी संपूर्ण.

१४ श्रीचिदानंदजी कृत परमात्म छत्रिशी.

दूहा.

- परम देव परमात्मा, परम ज्योति जगदीस;
परम भाव उर आनके, प्रणमत हुं निस दीस. १
- एक ज्युं चेतन द्रव्य हे, तामें तीन प्रकार;
वहिरातम अंतर कखो, परमातम पद सार. २
- वहिरातम ताकुं कहे, लखे न ब्रह्मस्वरूप;
मगन रहे पर द्रव्य हे मिथ्यावंत अनुप. ३
- अंतर आतम जीव सो, सम्यग्दृष्टि होय;
चोथे अरु फुनि वारमे, गुणथानक लों सोय. ४
- परमातम पद ब्रह्मको, प्रगटयो शुद्ध स्वभाव;
लोकालोक प्रमाण सब, झळके तिनमें आय. ५
- वहिर आतम भाव तज, अंतरआतम होय;
परमातमपद भजतु हे, परमातम वहे सोय. ६
- परमातम सोइ आतमा, अवर न दूजो कोय;
परमातमकुं ध्यावते, एह परमातम होय. ७
- परमातम एह ब्रह्म हे, परम ज्योति जगदीस;
परसु भिन्न निहारीए, जोइ अलख सोइ इस. ८
- जे परमातम सिद्धमें, सोही आतम मांहि;
मोह मयल दृग लग रखो, तामें सूजत नांहि. ९
- मोह मयल रागादिके, जा जिन कीजे नास;
ता छिन एह परमातमा, आपही लहे प्रकास. १०

- आतम सो परमातमा, परमातम सोइ सिद्ध;
बिचकी दुविधा मिट गइ, प्रगट भइ निज रिद्ध. ११
- मेंहि सिद्ध परमातमा, मेंहि आतमराम;
मेंहि ध्याता ध्येयको, चेतन मेरो नाम. १२
- मेंहि अनंत सुखको धनी, सुखमें मोहि सोहाय;
अविनाशी आनंदमय, सोहं त्रिभुवनराय. १३
- शुद्ध हमारो रूप हे, शोभित सिद्धसमान;
गुण अनंत करी संयुत, चिदानंदभगवान. १४
- जेसो शिवपे तहि वसे, तेसो या तनमांहि;
निश्चयदृष्टि निहारतां, फेर रंच कछु नांहि. १५
- करमनके संजोगते, भए तीन प्रकार;
एक आतमा द्रव्यकुं, कर्म नटावणहार. १६
- कर्मसंघाते अनादिके, जोर न कछु वसाय;
पाइ कला विवेककी, रागद्वेष छिन जाय. १७
- करमनकी जर राग हे, राग जरे जर जाय;
परम होत परमातमा, भाइ सुगम उपाय. १८
- काहेकुं भटकत फिरे ? सिद्ध होनेके काज;
राग द्वेषकुं त्याग दे, भाइ सुगम इलाज. १९
- परमातमपदको धनी, रंक भयो विल लाय;
राग द्वेषकी प्रीति सौं, जनम अकारथ जाय. २०
- राग द्वेषकी प्रीति तुम, भूले करो जन रंच;
परमातमपद ढांकके, तुमहि कियो तिरयंच. २१
- तप जप संजम सब भले, राग द्वेष जो नांहि;
राग द्वेषके जागते, ए सब भए जांहि. २२

- राग द्वेषके नासते, परमातिमपरकास;
राग द्वेषके भासते, परमातमपदनास. २३
- जो परमातमपद चहे, तो तुं राग निवार;
देखी संजोग सामीको, अपने हिये विचार. २४
- लाख वातकी वात यह, तोकुं देइ वताय;
जो परमातमपद चहे, राग द्वेष तज भाय. २५
- राग द्वेष त्यागे विनु, परमातमपद नांहि;
कोटि कोटि तप जप करे, सब अकारथ जाय. २६
- दोष आतमकुं यह, राग द्वेषको संग;
जेसे पास मजिठमें, वख्ख ओरहि रंग. २७
- तेसे आतमद्रव्यकुं, राग द्वेषके पास;
कर्मरंग लागत रहे, केसे लहे प्रकास? २८
- इण करमनको जीतवो, कठिन वात हे वीर;
जर खोदे विनुं नहि मिटे, दुष्ट जात बे पीर. २९
- लल्लो पत्तोके किये, ए मिटवेके नांहि;
ध्यानअगनि परकाशके, होम देहि ते मांहि. ३०
- ज्युं दारुके गंजकुं, नर नहि शके उठाय;
तनक आग संजोग ते, छिन एकमें उड जाय. ३१
- देहसहित परमातमा, एह अचरीजकी वात;
राग द्वेषके त्यागते, कर्मशक्ति जरी जात. ३२
- परमातमके भेद द्वय, निकल सकल परवान;
सुख अनंतमें एकसें, कहेवेके द्रव्यथान. ३३
- भाइ एह परमातमा, सो हे तुममें याहि;
अपणी शक्ति संभारके, लिखावत दे तांहि. ३४

राग द्वेषकुं त्यागके, धरी परमातमध्यान;	
युं पावे सुख शाश्वत, भाइ इम कल्यान.	३५
परमातम छत्रिसीको, पढियो प्रीति संभार;	
चिदानंद तुम प्रति लिखी, आतमके उद्धार.	३६

१५ क्षमा छत्रिशी.



आदर जीव क्षमा गुण आदर, म करीश राग ने द्वेषजी;	
समताए शिवसुख पामीजे, क्रोधे कुगति विशेषजी.	आ० १
समता संजमसार मुणीजे, कल्पसूत्रनी साखेजी;	
क्रोध पूर्व कोडि चारित्र वाले, भगवंत एणी पेरे भाखेजी.	आ० २
कुण कोण जीव तर्या उपशमथी ? सांभळ तुं दृष्टांतजी,	
कुण कोण जीव भम्या भवमांहे ? क्रोधतणे विरतंतजी.	आ० ३
सोमल ससरे शीश प्रजाळयो, वांधी माटीनी पाळजी;	
गजमुकुमाल क्षमा मन धरतो, मुक्ति गयो ततकाळजी.	आ० ४
कुळवाळुओ साधु कहातो, कीधो क्रोध अपारजी;	
क्रोणिकनी गणिका वग पडियो, रडवडियो संसारजी.	आ० ५
सोवनकार करी अति वेदन, वाध्रमुं व्रीट्युं गीशजी;	
मेतारज मुनि मुगति पढोत्यो, उपशम एह जगीशजी.	आ० ६
कुरुड अकुरुड वे साधु कहाता, रद्या कुणाला खाळजी;	
क्रोध करी कुगते ते पढोत्या, जनम गमायो आळजी.	आ० ७
कर्म खपाची मुगते पढोता, खंधक मृरिना जिण्यजी;	
पालक पापीए याणी पील्या, नाणी मनमां रीशजी.	आ० ८

- अच्चंकारी नारी अछंकी, तोड्यो पियुशुं नेहजी;
 वव्वरकुळ सहां दुःख वहोळां, क्रोधतणां फळ एहजी. आ० ९
- वाघणे सर्व शरीर वळ्युं, तत्क्षण छोड्या प्राणजी;
 साधु सुकोशल शिवसुख पाम्या, एह क्षमागुण जाणजी. आ० १०
- कुण चंडाळ कहीजे विहुमें ? निरती नहि कहे देवजी;
 रुषि चंडाळ कही जे वढतो, टाळे वेढनी टेवजी. आ० ११
- सातमी नरके गयो ते ब्रह्मदत्त, काढी ब्राह्मणआंखजी;
 क्रोधतणां फळ कडवां जाणी, रागद्वेष द्यो नांखजी. आ० १२
- खंधकरुषिनी खाल उतारी, सह्यो परिसह जेणजी;
 गरभवासनां दुःखथी छुड्यो, सवळ क्षमागुण तेणजी. आ० १३
- क्रोध करी खंधकआचारज, हुओ अग्निकुमारजी;
 दंडकनृपनो देश प्रजाळ्यो, भमशे भवहमझारजी. आ० १४
- चंडरुद्रआचारज चलतां, मस्तक दीध प्रहारजी;
 क्षमा करंतां केवळ पाम्यो, नवदीक्षित अणगारजी. आ० १५
- पांच वार रुषिने संताप्यो, आणी मनमां द्वेषजी;
 पंच भवसीमदह्यो नंदनादिक, क्रोधतणां फळ देखजी. आ० १६
- सागरचंदनुं शीश प्रजाळी, निशि नभसेननरिंदजी;
 समताभाव धरी सुरलोके, पुहुतो परमानंदजी. आ० १७
- चंदना गुरुणीए घणुं निभ्रंछी, धिक् धिक् तुज आचारजी;
 मृगावती केवळसिरि पामी, एह क्षमाअधिकारजी. आ० १८
- सांव प्रद्युम्न कुमारे संताप्यो, कृष्ण द्विपायन साहजी;
 क्रोध करी तपनुं फळ हार्यो, कीधो द्वारिकादाहजी. आ० १९
- भरतने मारण मूठी उपाडी, बाहुवळ वळवंतजी;
 उपशमरस मनमांहि आणी, संजम ले मतिमंतजी. आ० २०

- काउसगमां चडियो अति क्रोधे, प्रसनचंद्र रुपिरायजी;
सातमी नरकतणां दळ मेळ्यां, कडुआ तेणे कषायजी. आ० २१
- आहारमांहे क्रोधे रुपि थुंवयो, आण्यो अमृतभावजी;
कूरगड्ढए केवळ पाम्युं, क्षमातणे परभावजी. आ० २२
- पार्श्वनाथने उपसर्ग कीधा, कमठ भवांतर धीठजी;
नरक तिर्यंचतणां दुःख लाथां, क्रोधतणां फळ दीठजी. आ० २३
- क्षमावंत दमदंत मुनीश्वर, वनमां रह्यो काउस्सग्गजी;
कौरवकटक हण्यो इंटाळे, त्रोज्यां कर्मना वर्गजी. आ० २४
- सज्यापाळक काने तरुओ, नाम्यो क्रोधउदीरजी;
विहुं काने खीला ठोकाणा, नवि छटा महावीरजी. आ० २५
- चार हत्यानो कारक हुंतो, दृढप्रहारी अतिरेकजी;
क्षमा करीने मुक्ति पहीत्यो, उपसर्ग सही अनेकजी. आ० २६
- पोहोरमांहे उपजंतो हार्यो, क्रोधे केवळनाणजी;
देखो श्री दमसार मुनीश्वर, सूत्र गुण्यो उट्टाणजी. आ० २७
- सिंहगुफावासीरुपि कीधो, धूलिभद्रउपर कोपजी;
वेश्यावचने गयो नेपाळे, कीधो संजमलोपजी. आ० २८
- चंद्रावतंसक काउसग रहियो, क्षमातणो भंडारजी;
ढासी तेल भर्यो निशि दीवो, सुरपदवी लही सारजी. आ० २९
- एम अनेक तर्या त्रिभुवनमें, क्षमागुणे भवि जीवजी,
क्रोध करी कुगते ते पहील्या, पाडंता मुखरीवजी. आ० ३०
- विप हलाहल कहीए विरुओ, ते मारे एक वारजी,
पण कषाय अनंती वेळा, आपे मरण अपारजी. आ० ३१
- क्रोध करंतां तप जप कीधा, न पडे कांड टामजी;
आप तपे परने संतापे, क्रोधशुं केहो कामजी ? आ० ३२

क्षमा करंतां खरच न लागे, भांगे कोड कलेश जी;
 अरिहंत देव आराधक थावे, व्यापे सुयश प्रदेशजी. आ० ३३

नगरमांहे नागोर नगीनो, ज्यां जिनवरप्रासादजी;
 श्रावकलोक वसे अति सुखीया, धर्मतणे प्रसादजी. आ० ३४

क्षमछत्रिशी खांते कीधी, आतम पर उपकारजो;
 सांभळतां श्रावक पण समज्या, उपशम धर्यो अपारजी. आ० ३५

जुगप्रधान जिणचंद सुरीश्वर, सकळचंद तसु शिष्यजी;
 समयसुंदर तसु शिष्य भणे एम, चतुर्विध संघजगीसजी. आ० ३६

१६ अथ पद्मावती आराधना प्रारंभ.

हवे राणी पद्मावती, जीवराशि खमावे;
 जाणपणुं जुगते भळुं, इण वेळा आवे— १

ते मुज मिच्छामि दुकडं, अरिहंतनी साख;
 जे में जीव विराधिया, चउराशी लाख. ते० २

सात लाख पृथिवीतणा, साते अपकाय;
 सात लाख तेउकायना, साते वळी वाय. ते० ३

दश प्रत्येक वनस्पति, चउदह साधार;
 वि ति चउरिंदी जीवना, बे बे लाख विचार. ते० ४

देवता तिर्यंच नारकी, चार चार प्रकाशी;
 चउदह लाख अनुष्यना, ए लाख चोराशी. ते० ५

इण भव परभवे सेविया, जे पाप अढार;
 त्रिविध त्रिविध करी परिहरुं, दुर्गतिना दातार. ते० ६

- हिंसा कीधी जीवनी, बोल्या मृषावाद;
दोष अदत्तादानना, मैथुनउन्माद. ते० ७
- परिग्रह मेळयो कारमो, कीधो क्रोध विशेष;
मान माया लोभ में कीया, वळी राग ने द्वेष. ते० ८
- कलह करी जीव दूहव्या, दीधां कूडां कलंक;
निंदा कीधी पारकी, रति अरति निशंक. ते० ९
- चाडी कीधी चोतरे, कीधो थापणमोसो,
कुगुरु कुदेव कुधर्मनो, भलो आप्यो भरोंसो. ते० १०
- खाटकीने भवे में कीया, जीव नानाविध घात;
चडीमारभवे चरकलां, मार्यीं दिन रात. ते० ११
- काजी मुल्लाने भवे, पढी मंत्र कठोर;
जीव अनेक जव्भे कीया, कीधां पाप अघोर. ते० १२
- माळीने भवे माळलां, जाळ्यां जळवास;
धीवर भील कोळी भवे, मृग पाड्या पास. ते० १३
- कोटवाळने भवे में कीया, आकरा कर दंड;
वंदीवान मरावीया, कोरडा छडी दंड. ते० १४
- परमाधामीने भवे, दीधां नारकी दुःख;
छेदन भेदन वेदना, ताडन आत तिकख. ते० १५
- कुंभारने भवे मे कीया, नीभाड पचाव्या;
तेलीभवे तिल पीलिया, पापे पिंड भराव्यां. ते० १६
- हालीभवे हळ खेडीयां, फाड्यां पृथ्वीनां पेट;
मृड निदान घणां कीधां, दीधा वळड चपेट. ते० १७
- माळीने भवे रोपियां, नानाविध वृक्ष,
मृळ पत्र फळ फुलनां, लाग्यां पाप ते लक्ष. ते० १८

- अधोवाइआने भवे, भर्या अधिका भार;
पोठीपुंठे कीडा पड्या, द्या नाणी लगार. ते० १९
- छीपाने भवे छेतर्या, कीधा रंगण पास;
अग्निआरंभ कीधा घणा, धातुर्वाद अभ्यास. ते० २०
- शूरपणे रण झञ्जतां, मार्या माणसवृंद;
मदिरा मांस माखण भर्यां, खाधां मूळ ने कंद. ते० २१
- खाण खणावी धातुनी, पाणी उलेच्यां,
आरंभ कीधा अति घणा, पोते पापज संच्यां. ते० २२
- कर्म अंगार कीयां वळी, धरमें दव दीधा;
सम खाधा वीतरागना, कूडा ऋसज कीधा. ते० २३
- विळीभवे उंदर लीया, गीरोली हत्यारी;
मूढ गमारतणे भवे, में जू लीख मारी. ते० २४
- भाडभुंजातणे भवे, एकेंद्रियजीव;
ज्वारी चणा गहुं शेकिया, पाडंता रीव. ते० २५
- खांडण पीसण गारना, आरंभ अनेक;
रांधण इंधण अग्निनां, कीधां पाप उद्रेक. ते० २६
- विकथा चार कीधी वळी, सेव्या पांच प्रमाद;
इष्टवियोग पाड्या घणा, कीयां रुदन विषवाद. ते० २७
- साधु अने श्रावकतणां, व्रत लेइने भांग्यां;
मूळ अने उत्तरतणां, मुज दूषण लाग्यां. ते० २८
- साप वींछी सिंह चीवरा, शकरा ने समळी;
हिंसक जीवतणे भवे, हिंसा कीधी सवळी. ते० २९
- सूवावडी दूषण घणां, वळी गर्भ गळाव्या;
जीवाणी ढोळ्यां घणां, शीलव्रत भंजाव्यां. ते० ३०

- भव अनंत भमतां थकां, कीथा देहसंबंध;
त्रिविध त्रिविध करी वोसिरुं, तीणशुं प्रतिबंध. ते० ३१
- भव अनंत भमतां थकां, कीथा परिग्रहसंबंध;
त्रिविध त्रिविध करी वोसिरुं, तीणशुं प्रतिबंध. ते० ३२
- भव अनंत भमतां थका, कीथां कुटुंबसंबंध;
त्रिविध त्रिविध करी वोसिरुं, तीणशुं प्रतिबंध. ते० ३३
- इणि परे इह भव पर भवे, कीथां पाप अखत्र;
त्रिविध त्रिविध करी वोसिरुं, करुं जन्म पवित्र. ते० ३४
- एणी विधे ए आराधना, भवि करशे जेह;
सगयसुंदर कहे पापथी, वळी छूटशे तेह. ते० ३५
- राग वेराडी जे सुणे, एह त्रीजी ढाल;
समयसुंदर कहे पापथी, छुटे ततकाळ. ते. ३६



१२ श्री अमृतवेलिनी सज्जाय.

- चेतन ज्ञान अजुआळीए, टाळीए मोहसंतापरे;
चित्तुंडुं डमडोलतुं वाळीए, पाळीए सहज गुण आपरे—चेतन० १
- उपशम अमृतरस पीजीए, कीजीए साधुगुणगानरे;
अधमवयणे नवि खीजीए, दीजीए सज्जननें मानरे—चेतन० २
- क्रोधअनुबंध नवि राखीए, भाखीए वयण मुख साचरे;
समकितरत्न रुचि जोडीए, छोडीए कुमति मति काचरे—चेतन० ३
- शुद्ध परिणामने कारणे, चारनां शरण थरे चित्तरे;
प्रथम तिहां शरण अरिहंतनुं, जेह जगदीश जगमित्तरे—चेतन० ४
- जे समोसरणमां राजता, भांजता भविकसंदेहरे;
धर्मनां वचन वरसे सदा, पुष्करावर्त जिम मेहरे—चेतन० ५

- शरण वीजुं भजे सिद्धनुं, जे करे कर्म चकचूररे;
भोगवे राज्य शिवनगरनुं, ज्ञान आनंद भरपूररे—चेतन० ६
- साधुनुं शरण त्रीजुं धरे, जेह साथे शिवपंधरे;
मूल उत्तर गुण जे वर्या, भव तर्या भाव निग्रंधरे—चेतन० ७
- शरण चोथुं धरे धर्मनुं, जेहमां वर दयाभावरै;
जे सुखहेतु जिनवर कहुं, पापजळ तारवा नावरै—चेतन० ८
- चारनां शरण ए पडिवजे, वळी भजे भावना शुद्धरै;
दुरित सवि आपणां निंदीए, जेम होय संवरवृद्धिरै—चेतन० ९
- इहभव परभव आचर्यां, पापअधिकरण मिथ्यातरै;
जे जिनाशातनादिक घणां, निंदीए तेह गुणघातरै—चेतन० १०
- गुस्तणां वचन ते अवगणी, गूंथीया आप मतजाळरै;
बहु परे लोकने भोळव्या, निंदीए तेह जंजाळरै—चेतन० ११
- जेह हिंसा करी आकरी, जेह वोल्या मृषावादरै;
जेह परधन हरी हरखिया, कीधलो कामउन्मादरै—चेतन० १२
- जेह धन धान्य मूच्छा धरी, सेविया चार कषायरै;
रागने द्वेषने वश हुआ, जे कियो कलहउपायरै—चेतन० १३
- जूठ जे आळ परने दियां, जे कर्यां पिशुनतापापरै;
रति अरति निंद मायामृषा, वळीय मिथ्यात्वसंतापरै—चेतन० १४
- पाप जे एहवां सेवियां, तेह निंदीए त्रिहुं काळरै;
सुकृतअनुमोदना कीजीए, जिम होये कर्म विसराळरै—चेतन० १५
- विश्वउपगार जे जिन करे, सार जिन नाम संयोगरै;
ते गुण तास अनुमोदीए, पुण्य अनुबंध शुभयोगरै—चेतन० १६
- सिद्धनी सिद्धता कर्मना—क्षयथकी ऊपनी जेहरै;
जेह आचार आचार्यनो, चरणवन सिंचवा मेहरै—चेतन० १७

- जेह उवझायनो गुण भलो, सूत्र सज्झाय परिणामरे;
 साधुनी जे वळी साधुता, मूल उत्तर गुणधामरे—चेतन० १८
- (जेह) विरति देश श्रावकतणी, जे समकित सदाचाररे;
 समकितदृष्टि सुर नरतणों, तेह अनुमोदीए साररे—चेतन० १९
- अन्यमां पण दयादिक गुणा, जेह जिनवचनअनुसाररे;
 सर्व ते चित्त अनुमोदीए, समकितबीज निरधाररे—चेतन० २०
- पाप नवि तीव्र भावे करे, जेहने नवि भवरागरे;
 उचित स्थिति जेह सेवे सदा, तेह अनुमोदवा लागरे—चेतन० २१
- थोडलो पण गुण परतणो, सांभळी हर्ष मन आणरे;
 दोष लव पण निज देखतां, निज गुण निजातमा जाणरे—चेतन० २२
- उचित व्यवहार अवलंबने, एम करी स्थिर परिणामरे;
 भावीए शुद्ध नयभावना, पापनाशनतणुं ठामरे—चेतन० २३
- देह मन वचन पुद्गलथकी, कर्मथी भिन्न तुज रूपरे;
 अक्षय अकलंक छे जीवनुं, ज्ञान आनंद सरूपरे—चेतन० २४
- कर्मथी कल्पना उपजे, पवनथी जेम जलधिवेलरे;
 रूप प्रगटे सहज आपणुं, देखतां दृष्टि स्थिर मेलरे—चेतन० २५
- धारतां धर्मनी धारणा, नारतां मोह वड चोररे;
 ज्ञानरुचिवेल विस्तारतां, वारतां कर्मतुं जोररे—चेतन० २६
- राग विष दोष उत्तारतां, जारतां द्वेषरस शेषरे;
 पूर्व मुनि वचन संभारतां, सारतां कर्म निःशेषरे—चेतन० २७
- देखीए मार्ग शिवनगरनो, जे उदासीनपरिणामरे;
 तेह अणळोडतां चालीए, पाप्मीए जिम परम धामरे—चेतन० २८
- श्रीनयविजय गुरुशिष्यनी, गीखटी अमृतवेलरे;
 एह जे चनुर नर आदरे, ते लहे सुयश रंगरेलरे—चेतन० २९

१७ सारसमुच्चयः

ॐ नमो वीतरागाय ।

- देवदेवं जिनं नत्वा, भवोद्भवविनाशनम् ।
वक्ष्येऽहं देशनां काञ्चिन्मतिहीनोऽपि भक्तितः ॥१॥
- संसारे पर्यटन् जन्तु-बहुयोनिसमाकुले ।
शारीरं मानसं दुःखं, प्राप्नोति वत दारुणम् ॥२॥
- आर्त्तध्यानरतो मूढो, न करोत्यात्मनो हितम् ।
तेनासौ सुमहत्क्लेशं, परत्रेह च गच्छति ॥३॥
- ज्ञानभावनया जीवो, लभते हितमात्मनः ।
विनयाचारसंपन्नो, विषयेषु पराङ्मुखः ॥४॥
- आत्मानं भावयेन्नित्यं, ज्ञानेन विनयेन च ।
मा पुनर्भ्रियमाणस्य, पश्चात्तापो भविष्यति ॥५॥
- तथा हि सत्तपः कार्यं, ज्ञानसद्भावभावितैः ।
यथा विमलतां याति, चेतोरत्नं सुदुर्लभम् ॥६॥
- नृजन्मनः फलं सारं, यदेतद् ज्ञानसेवनम् ।
अनिगूहितवीर्यस्य, संयमस्य च धारणम् ॥७॥
- ज्ञानध्यानोपवासैश्च, परिषहजयैस्तथा ।
शीलसंयमयोगैश्च, स्वात्मानं भावयेत्सदा ॥८॥

ज्ञानाभ्यासः सदा कार्थो, ध्यानेनाध्ययनेन च ।
 तपःसंरक्षणं चैव, यदीच्छेद्धितमात्मनः ॥९॥
 ज्ञानादित्यो हृदि यस्य, नित्यमुद्योतकारकः ।
 तस्य निर्मलतां याति, पञ्चेन्द्रियदिगाननम् ॥१०॥
 एतद् ज्ञानफलं नाम, यच्चारित्रोद्यमः सदा ।
 क्रियते पापनिर्मुक्तैः, साधुसेवापरायणैः ॥११॥
 सर्वं द्वंद्वं परित्यज्य, निभृतेनान्तरात्मना ।
 ज्ञानामृतं सदा पेयं, चित्ताह्लादनमुत्तमम् ॥१२॥
 ज्ञानं नाम महारत्नं, यन्न प्राप्तं कदाचन ।
 संसारे भ्रमता भीमे, नानादुखविधायिनि ॥१३॥
 अधुना तत्त्वया प्राप्तं, सम्यद्दर्शनसंयुतम् ।
 प्रमादं मा पुनः काषीर्विपयास्वादलालसः ॥१४॥
 आत्मानं सततं रक्षेः, ज्ञानध्यानतपोवलैः ।
 प्रमादिनोऽस्य जीवस्य, शीलरत्नं विलुप्यते ॥१५॥
 शीलरत्ने हृते तस्य, मोहध्वान्तमुपेयुषः ।
 नानादुःखशताकीर्णैः, नरके पतनं ध्रुवम् ॥१६॥
 यावत्स्वास्थ्यं शरीरस्य, यावच्चेन्द्रियसंपदः ।
 तावत्युक्तं तपः कर्तुं, वार्धके केवलं श्रमः ॥१७॥
 शुद्धे तपसि सद्दीर्यं, ज्ञानं कर्मपरिक्षये ।
 उपयोगं धनं प्राप्ते, यस्य याति स पण्डितः ॥१८॥

गुरुशुश्रूषया जन्म, चित्तं सद्ध्यानचिन्तया ।
 श्रुतं यस्य शमे याति, विनियोगं स पुण्यभाक् ॥१९॥
 छित्त्वा स्नेहमयान्पाशान्, भित्त्वा मोहमहार्गलाम् ।
 सञ्चारित्रसमायुक्ताः, शूरा मोक्षपथे स्थिताः ॥२०॥
 कर्मणा मोहनीयेन, मोहितं सकलं जगत् ।
 धन्या मोहं समुत्सार्य, तपस्यन्ति महाधियः ॥२१॥
 अहो मोहस्य माहात्म्यं, विद्वांसो येऽपि मानवाः ।
 मुह्यन्ति तेऽपि संसारे, कामार्थरतितत्पराः ॥२२॥
 कामःक्रोधस्तथा लोभो, रागोद्वेषश्च मत्सरः ।
 मदो माया तथा मोहः, कन्दर्पो दर्प एव च ॥२३॥
 एते हि रिपवो घोरा, धर्मसर्वस्वहारिणः ।
 एतैर्वैभ्रम्यते जीवः, संसारे बहुदुःखदे ॥२४॥
 रागद्वेषमयो जीवः, कामक्रोधवशं गतः ।
 लोभमोहमदाविष्टः, संसारे संसरत्यसौ ॥२५॥
 सम्यक्तवज्ञानसंपन्नो, जैनभक्तो जितेन्द्रियः ।
 लोभमोहमदैस्त्यक्तो, मोक्षभागी न संशयः ॥२६॥
 कामः क्रोधस्तथा मोहस्त्रयोऽप्येते महाद्विषः ।
 एते न निर्जिता यावत्तावत्सौख्यं कुतो नृणाम् ॥२७॥
 नास्ति कामसमो व्याधिर्नास्ति मोहसमो रिपुः ।
 नास्ति क्रोधसमो वह्निर्नास्ति ज्ञानसमं सुखम् ॥२८॥
 कषायविषयात्तानां, देहिनां नास्ति निर्तिः ।

- तेषां च विरमे सौख्यं, जायते परमाद्भुतम् ॥२९॥
 कषायविषयै रोगै-रात्मानं पीडितं सदा ।
 चिकित्सयतां प्रयत्नेन जिनवाक्सारभेषजैः ॥३०॥
 विषयोरगदष्टस्य, कषायविषमोहिनः ।
 संयमो हि महामन्त्र-स्त्राता हि सर्वदेहिनः ॥३१॥
 कषायकलुषो जीवो, रागरञ्जितमानसः ।
 चतुर्गतिभवाम्भोधौ, भिन्ननोरिव सीदति ॥३२॥
 कषायवशागो जीवः कर्म वध्नाति दारुणम् ।
 तेनासौ क्लेषमाप्नोति, भवकोटिषु दुस्तरम् ॥३३॥
 कषायविषयेश्चिक्तं, मिथ्यात्वेन च संयुतम् ।
 संसारवीजतां याति, विमुक्तं मोक्षवीजताम् ॥३४॥
 कषायविजये सौख्यं, इन्द्रियाणां च निग्रहे ।
 जायते परमोत्कृष्ट-मात्मनो भवभेदि यत् ॥३५॥
 कषायान्शत्रुवत्पश्ये-द्विषयान्विषवत्तथा ।
 मोहं च परमं व्याधि-मेवमूचुर्विचक्षणाः ॥३६॥
 कषायविषयैश्चौरै-र्धर्मरत्नं विलुप्यते ।
 वैराग्यखड्गधाराभिः, शूराः कुर्वन्ति रक्षणम् ॥३७॥
 कषायकर्षणं कृत्वा, विषयाणामसेवनम् ।
 एतद्वो मानवाः पथ्यं, सम्यग्दर्शनमुत्तमम् ॥३८॥
 कषायातपतप्तानां, विषयामयमोहिनाम् ।
 संयोगाद्योगखिन्नानां, सम्यक्त्वं परमं हितम् ॥३९॥

वरं नरकवासोऽपि, सम्यक्त्वेन समायुतः ।
 न तु सम्यक्त्वहीनस्य, निवासो दिवि राजते ॥४०॥
 सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य, ध्रुवं निर्वाणसङ्गमः ।
 मिथ्यादृशोऽस्य जावस्य, संसारे भ्रमणं सदा ॥४१॥
 सम्यक्त्वं परमं रत्नं, शङ्कादिमलवर्जितम् ।
 संसारदुःखदारिद्र्यं, नाशयेत्सुविनिश्चितम् ॥४२॥
 पण्डितोऽसौ विनीतोऽसौ, धर्मज्ञः प्रियदर्शनः ।
 यः सदाचारसंपन्नः, सम्यक्त्वदृढमानसः ॥४३॥
 जरामरणरोगाणां, सम्यक्त्वज्ञानभेषजैः ।
 शमनं कुरुते यस्तु, स वै वैद्योऽभिधीयते ॥४४॥
 जन्मान्तरार्जितं कर्म, सम्यक्त्वज्ञानसंयमैः ।
 निराकर्तुं सदा युक्तमपूर्वं च निरोधनम् ॥४५॥
 सम्यक्त्वं भावयेत्क्षिप्रं, सज्ज्ञानं चरणं तथा ।
 कृच्छ्रात्सुचरितं प्राप्तं, नृत्वं याति निरर्थकम् ॥४६॥
 अतीतेनापि कालेन, यन्न प्राप्तं कदाचन ।
 तदिदानीं त्वया प्राप्तं, सम्यग्दर्शनमुत्तमम् ॥४७॥
 उत्तमे जन्मनि प्राप्ते, चारित्र्यं कुरु यत्नतः ।
 सद्धर्मे च परां भक्तिं, शमे च परमां रतिम् ॥४८॥
 अनादिकालं जीवेन, प्राप्तं दुखं पुनः पुनः ।
 मिथ्यामोहपरीतेन, कषायवशवर्तिना ॥४९॥
 सम्यक्त्वादित्यसंभिन्नं, कर्मध्वान्तं विनश्यति ।

आसन्नभव्यसत्त्वानां, काललब्ध्यादिसंनिधौ ॥५०॥

सम्यक्त्वभावशुद्धेन, विषयासङ्गवर्जिना ।

कषायविरतेनेव, भवदुखं विहन्यते ॥५१॥

संसारध्वंसनं प्राप्य, सम्यक्त्वं नाशयन्ति ये ।

वमन्ति तेऽमृतं पीत्वा, सर्वव्याधिहरं पुनः ॥५२॥

मिथ्यात्वं परमं वीजं, संसारस्य दुरात्मनः ।

तस्मात्तदेव मोक्तव्यं, मोक्षसौख्यं जिघृक्षुणा ॥५३॥

आत्मतत्त्वं न जानन्ति, मिथ्यामोहेन मोहिताः ।

मनुजा येन मानस्था, विप्रलुब्धाः कुशासनैः ॥५४॥

दुःखस्य भीरवोऽप्येते, सद्धर्मं न हि कुर्वते ।

कर्मणा मोहनीयेन, मोहिता बहवो जनाः ॥५५॥

कथं न रमते चित्तं, धर्मेऽनेकसुखप्रदे ।

जीवानां दुःखभीरूणां, प्रायो मिथ्यादृशो यतः ॥५६॥

दुःखं न शक्यते सोढं, पूर्वकर्माजितं नरैः ।

तस्मात्कुरुत सद्धर्मं, येन तत्कर्म नश्यति ॥५७॥

सुकृतं तु भवेद्यस्य, तेन यान्ति परिश्रयम् ।

दुःखोत्पादनभृतानि, दुष्कर्माणि समन्ततः ॥५८॥

धर्म एव सदा कार्यो, सुक्त्वा व्यापारमन्यतः ।

यः करोति परं सौख्यं, यावन्निर्वाणसङ्गमः ॥५९॥

क्षणेहि समतिक्रान्ते, सद्धर्मपरिवर्जिते ।
 आत्मानं मुषितं मन्ये, कषायेन्द्रियतस्करैः ॥ ६० ॥
 धर्मकार्ये मतिं धत्स्व, यावदायुर्दृढं तव ।
 आयुःकर्माणि संक्षीणे, पश्चाच्च किं करिष्यसि ? ॥६१॥
 धर्ममाचर यत्नेन, मा भवस्त्वं मृतोपमः ।
 सद्धर्मचेतसां पुंसां, जीवितं सफलं भवेत् ॥ ६२ ॥
 मृता नैव मृतास्तेषु, ये नरा धर्मकारिणः ।
 जीवन्तोऽपि मृतास्ते वै, ये नरा पापकारिणः ॥६३॥
 धर्मामृतं सदा पेयं, दुःखातङ्कविनाशम् ।
 यस्मिन्पीते परं सौख्यं, जीवानां जायते सदा ॥६४॥
 सद्धर्मा यो दयायुक्तः, सर्वप्राणिहितप्रदः ।
 स एवोत्तारणे सक्तो, भवाम्भोधेः सुदुस्तरात् ॥६५॥
 यदा कण्ठगतप्राणः, जीवोऽसौ परिवर्त्तते ।
 नान्यः कश्चित्तदा त्राता, मुक्त्वा धर्मं जिनोदितम् ॥६६॥
 अल्पायुषा नरेणेह, धर्मकर्मविजानता ।
 न ज्ञायते कदा मृत्युर्भविष्यति न संशयम् ॥६७॥
 आयुर्यस्यापि देवज्ञैः, परिज्ञाते हि जातके ।
 तस्यापि क्षीयते सद्यो, निमित्तोत्तरयोगतः ॥६८॥
 जिनैर्निगदितं धर्मं, सर्वसौख्यमहानिधिम् ।
 ये न तं प्रतिपद्यन्ते, तेषां जन्म निरर्थकम् ॥ ६९ ॥

हितं कर्म परित्यज्य, पापकर्मसु रज्यते ।

तेन वै दह्यते चेतः, शोचनीयो भविष्यति ॥७०॥

यदि नामाप्रियं दुःखं, सुखं च यदि वा प्रियम् ।

ततः कुरुत सद्धर्मं, जिनानां जितजन्मनाम् ॥७१॥

विशुद्धादेव संकल्पाद्, धर्मः सद्भिरुपार्थ्यते (स्यते) ।

स्वल्पेनैव प्रयासेन, चित्रमेतदहो परम् ॥७२॥

धर्म एव सदा त्राता, जीवानां दुःखसङ्कटात् ।

तस्मात्कुरुत भो यत्नं, तत्रानन्तसुखप्रदे ॥७३॥

यत्त्वया न कृतो धर्मः, सदा मोक्षसुखावहः ।

प्रसन्नमनसा जैन-स्तेन दुःखी भवानिह ॥७४॥

यत्त्वया क्रियते कर्म, विषयान्धेन दारुणम् ।

उदये तस्य संप्राप्ते, कस्ते त्राता भविष्यति ॥७५॥

भुक्त्वाप्यनन्तशो भोगान्, देवलोके यथेप्सितान् ।

यो हि तृप्तिं न संप्राप्तः, स किं प्राप्स्यति सांप्रतम् ॥७६॥

वरं हालाहलं भुक्तं, विषं तद्भवनाशनम् ।

न तु भोगविषं भुक्तं, अनन्तभवदुखदम् ॥७७॥

इन्द्रियप्रभवं सौख्यं, सुखाभासं न तत्सुखम् ।

तच्च कर्मविवन्धाय, दुःखदानैकपण्डितम् ॥७८॥

अक्षाश्वा(न्) निश्चला(न्) धत्स्व, विप्रयोत्पथगामिनः ।

वैराग्यप्रग्रहाकृष्टान्, सन्मार्गं विनियोजयेत् ॥७९॥

अक्षाण्यैव स्वकीयानि, शत्रवो दुःखहेतवः ।

विषयेषु प्रवृत्तानि, कषायवशवर्त्तिनः । ॥८०॥

इन्द्रियाणां यदा छन्दे, वर्त्तते मोहसङ्गतः ।

तदात्मैव भवेच्छत्रु-रात्मनो दुःखबंधनः ॥८१॥

इन्द्रियाणि प्रवृत्तानि, विषयेषु निरन्तरम् ।

संज्ञानभावनाशक्ता, वारयन्तु हिते रताः ॥८२॥

इन्द्रियेच्छां रुजामज्ञः, कुरुते यो ह्युपक्रमम् ।

तमेव मन्यते सौख्यं, किन्तु कष्टमतः परम् ॥८३॥

आत्माभिलाषरागाणां, यत् श्रमः क्रियते बुधैः ।

तदेवं परमं तत्त्वं, इत्थूचुर्ब्रह्मवेदिनः ॥८४॥

इन्द्रियाणां स(श)मेनालं, रागद्वेषजयेन च ।

आत्मानं यो जयेत्सम्यक्, संसृतिव्छेदकारणम् ॥८५॥

इन्द्रियाणि वशे यस्य, यस्य दुष्टं न मानसम् ।

आत्मा धर्मरतो यस्य, सफलं तस्य जीवितम् ॥८६॥

परनिन्दासु ये मूका, निजश्लाघापराङ्मुखाः ।

ईदृशैर्ये गुणैर्युक्ताः, पूज्याः सर्वत्र विष्टपे ॥८७॥

प्राणान्तिकेऽपि संप्राप्ते, वर्जनीयानि साधुना ।

परलोकविरुद्धानि, येनात्मा सुखमश्नुते ॥८८॥

संमानयति भूतानि, यः सदा विनयान्वितः ।

स प्रियः सर्वलोकेस्मिन्नापमानं समश्नुते ॥८९॥

किंपाकस्य फलं भक्ष्यं, कदाचिदपि धीमता ।
 विषयास्तु न भोक्तव्या, यद्यपि स्युः सुपेशलाः ॥९०॥
 स्त्रीसंपर्कसमं सौख्यं, वर्णयन्त्यबुधा जनाः ।
 विचार्यमाणमेतद्धि, दुःखानां वीजमुत्तमम् ॥९१॥
 स्मराग्निना प्रदग्धानि, शरीराणि शरीरिणाम् ।
 स(श)मांभसा ह्यसिक्तानि, निर्वृतिं नैव भेजिरे ॥९२॥
 अग्निना तु प्रदग्धानां, स(श)मोऽस्तीति यतोऽत्र वै ।
 स्मरवह्निप्रदग्धानां, स(श)मो नास्ति भवेष्वपि ॥९३॥
 मदनोऽस्ति महाव्याधि-दुश्चिकित्स्यः सदा बुधैः ।
 संसारवर्धनोऽत्यर्थं, दुःखोत्पादनतत्परः ॥९४॥
 यावदस्य हि कामाग्नि-हृदये प्रज्वलत्यलम् ।
 आश्रयन्ति हि कर्माणि, तावदस्य निरन्तरम् ॥९५॥
 कामाहिदृढदष्टस्य, तीव्रा भवति वेदना ।
 यया सुमोहितो जन्तु-स्संसारे परिवर्तते ॥९६॥
 दुःखाणामाकरो यस्तु, संसारस्य च वर्धनः ।
 स एष मदनो नाम, नराणां स्मृतिसूदनः ॥९७॥
 संकल्पाण्डात्समुद्भूतः, कामसर्पोऽतिदारुणः ।
 रागद्वेषद्विजिह्वोऽसौ, वशीकर्तुं न शक्यते ॥९८॥
 दुष्टा चेयमनङ्गेच्छा, सेयं संसारवर्धनी ।
 दुःखस्योत्पादने शक्ता, शक्ता वित्तस्य नाशने ॥९९॥

अहो ते धिषणाहीना, ये स्मरस्य वशं गताः ।

कृत्वा कल्मषमात्मानं, पातयन्ति भवार्णवे ॥१००॥

स्मरेणातीवरौद्रेण, नरकावर्त्तपातिना ।

अहो खलीकृतो लोको, धर्माभृतपराडुखः ॥१०१॥
मु

स्मरेण स्मरणादेव, वैरं दैवनियोगतः ।

हृदये निहितं शल्यं, प्राणिनां तापकारकम् ॥१०२॥

तस्मात्कुरुत सद्बृत्तं, जिनमार्गरताः सदा ।

येन तत्खण्डशो याति, स्मरशल्यं सुदुर्धरम् ॥१०३॥

चित्तसंदूषणः कामस्तथा सद्गतिनाशनः ।

सद्बृत्तध्वंसनश्चासौ, कामोऽनर्थपरंपरा ॥१०४॥

दोषाणामाकरः कामो, गुणानां च विनाशकृत् ।

पापस्य च निजो बन्धु-रापदां चैव सङ्गमः ॥१०५॥

पिशाचेनैव कामेन, छिद्रितं सकलं जगत् ।

बंध्रमीति परायत्तं, भवाब्धौ तन्निरन्तरम् ॥१०६॥

वैराग्य भावनामन्त्रै-स्तन्निवार्य महाबलम् ।

स्वच्छन्दबृत्तयो धीराः, सिद्धिसौख्यं प्रपेदिरे ॥१०७॥

कामो त्यजति सद्बृत्तं, गुरोर्वाणीन्द्रियं तथा ।

गुणानां समुदायं च, चेतःस्वास्थ्यं तथैव च ॥१०८॥

तस्मात्कामः सदा हेयो, मोक्षसौख्यं जिघृक्षुभिः ।

संसारं च परित्यक्तं, वाञ्छद्भिर्यतिसत्तमैः ॥१०९॥

कामार्थौ वैरिणौ नित्यं, विशुद्धध्यानरोधिनौ ।
 संत्यजतां महाक्रूरौ, सुखं संजायते वृणाम् ॥११०॥
 कामदाहो वरं सोढुं, न तु शीलस्य खण्डनम् ।
 शीलखण्डनशीलानां, नरके पतनं ध्रुवम् ॥१११॥
 कामदाहः सदा नैव, स्वल्पकालेन शाम्यति ।
 सेवनाच्च महत्पापं, नरकावर्त्तपातनम् ॥११२॥
 सुतीव्रेणापि कामेन, स्वल्पकालं तु वेदनाः ।
 खण्डनेन तु शीलस्य, भवकोटिपु वेदनाः ॥११३॥
 नियतं प्रशमं याति, कामदाहः सुदारुणः ।
 ज्ञानोपयोगसामर्थ्या-द्विषं मन्त्रपदैर्यथा ॥११४॥
 असेवनमनङ्गस्य, शमाय परमं स्मृतम् ।
 सेवनाच्च परावृद्धिः, शमस्तु न कदाचन ॥११५॥
 उपवासोऽवमौदर्य-रसानां त्यजनं तथा ।
 स्नानस्यासेवनं चैव, ताम्बूलस्य च वर्जनम् ॥११६॥
 असेवेच्छा निरोधस्तु, निरनुस्मरणं तथा ।
 एते हि निर्जनोपाया, मदनस्य महारिपोः ॥११७॥
 काममिच्छानिरोधेन, क्रोधं च क्षमया भृशम् ।
 जयेन्मानं मृदुत्वेन, मोहं संज्ञानसेवया ॥११८॥
 तस्मिन्नुपशमे प्राप्ते, युक्तं सद्वृत्तधारणम् ।
 तृष्णां सुदूरतस्त्वक्त्वा, विपाक्तमिव भोजनम् ॥११९॥

कर्मणां शोधनं श्रेष्ठं, ब्रह्मचर्यं सुरक्षितम् ।

सारभूतं चरित्रस्य, देवेरपि सुपूजितम् ॥१२०॥

या चैषा प्रमदा भाति, लावण्यजलवाहिनी ।

सैषा वैतरणी घोरा, दुःखोर्मिशताकुला^१ ॥१२१॥

संसारस्य च बीजानि, दुःखानां राशयः पराः ।

पापस्य च निधानानि, निर्मिताः केन योषितः ॥१२२॥

इयं सा मदनज्वाला, व रेवं समद्भुता ।

नराणां यत्र हियन्ते, यौवनानि धनानि च ॥१२३॥

नरकावर्त्तपातिन्यः, स्वर्गमार्गदृढार्गलाः ।

अनर्थानां विधायिन्यो, योषितः केन निर्मिताः ॥१२४॥

कृमिजालशताकीर्णैः, दुर्गन्धमलपूरितैः ।

त्वग्मात्रसंवृते स्त्रीणां, का काये रमणीयता ? ॥१२५॥

अहो ते सुखतां प्राप्ता, ये काममलवर्जिताः ।

सदृत्तं विधिनाऽऽपाल्य, यास्यन्ति पदमुत्तमम् ॥१२६॥

भोगार्थी यः कशेत्यज्ञो, निदानं मोहसङ्गतः ।

चूर्णीकरोत्यसौ रत्नं, अनर्घ्यं सूत्रहेतुना ॥१२७॥

भवभोगशरीरेषु, भावनीयः सदा बुधैः ।

निर्वेदः परया बुद्ध्या, कर्माशतिजिघृक्षुभिः ॥१२८॥

१ शतसंङ्कुला. (इति समीचीनम्.)

यावन्न मृत्युवज्रेण, देहशैलो निपात्यते ।

नियुज्यतां मनस्तावत्कर्मारतिपरिक्षये ॥१२९॥

त्यज कामार्थयोः सङ्गं, धर्मध्यानं सदा भज ।

छिन्धि स्नेहमयान्पाशान्मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम् ॥१३०॥

कथं ते भ्रष्टसद्गुत्ता, विषयानुपसेवते^१ ।

पंचतान्तरिता येषां, नरके तीव्रवेदना ॥१३१॥

सद्गुत्ताद्भ्रष्टचित्तानां, विषयासङ्गसङ्गिनाम् ।

तेषामेवेह दुःखानि, भवन्ति नरकेषु च ॥१३२॥

विषयास्वादलुब्धेन, रागद्वेषवशात्मना ।

आत्मा सुवञ्चितस्तेन, यः स(श)मं नापि सेवते ॥१३३॥

आत्मना यत्कृतं कर्म, भोक्तव्यं तदनेकधा ।

तस्मात्कर्माश्रवं रुद्ध्वा, स्वेन्द्रियाणि वशं नयेत् ॥१३४॥

इन्द्रियप्रसरं रुद्ध्वा, स्वात्मानं वशमानयेत् ।

येन निर्वाणसौख्यस्य, भाजनत्वं प्रपत्स्यसे ॥१३५॥

संपन्नेष्वपि भोगेषु, महतां नास्ति गृह्णिता ।

अन्येषां गृह्णिरेवास्ति, शमस्तु न कदाचन ॥१३६॥

पदखण्डाधिपतिश्चक्री, परित्यज्य वसुंधराम् ।

तृणवत्सर्वभोगांश्च, दीक्षां देगंवरीं स्थितः ॥१३७॥

१ नुपभुञ्जते. (इति समीचीनम्.)

कृमितुल्यैः किमस्माभिर्भोक्तव्यं वस्तुसुन्दरम् ।

येनात्र गृहपङ्केषु, सीदामः किमनर्थकम्? ॥१३८॥

येन ते जनितं दुःखं, भवांभोधौ सुदुस्तरम् ।

तं कर्मारातिमत्युग्रं, विजेतुं किं न वाञ्छसि? ॥१३९॥

अब्रह्मचारिणो नित्यं, मांसभक्षणतत्पराः ।

शुचित्वं तेऽपि मन्यन्ते, किन्तु चित्रमतः परम् ॥१४०॥

येन संक्षीयते कर्म, संचयश्च न जायते ।

तदेवात्मविदा कार्यं, मोक्षसौख्याभिलाषिणा ॥१४१॥

अनेकशस्त्वया प्राप्ता, विविधा भोगसंपदः ।

अप्सरोगणसंकीर्णै, दिवि देवविराजिते ॥१४२॥

पुनश्च नरके रौद्रे, रौरवेऽत्यन्तभीतिदे ।

नानाप्रकारदुःखौघैः, संस्थितोऽसि विधेर्वशात् ॥१४३॥

तप्ततैलकभल्लीषु, पच्यमानेन यत् त्वया ।

संप्राप्तं परमं दुःखं, तं वक्तुं नैव पार्यते ॥१४४॥

नानायन्त्रेषु रौद्रेषु, पीड्यमानेन वह्निना ।

दुःसहा वेदना प्राप्ता, पूर्वकर्मनियोगतः ॥१४५॥

विष्मूत्रपूरिते भीमे, पूतिश्लेष्मावसाकुले ।

भूयो गर्भगृहे मातु देवाद्यातोऽसि संस्थितिम् ॥१४६॥

तिर्यग्गतौ च यद्दुःखं, प्राप्तं छेदनभेदनैः ।

न शक्तस्तत्पुमान्वक्तुं, जिह्वाकोटिशतैरपि ॥१४७॥

संसृतौ नास्ति तत्सौख्यं, यन्न प्राप्तमनेकधा ।
 देवमानवतिर्यक्षु, भ्रमता जन्तुनानिशम् ॥१४८॥
 चतुर्गतिनिबन्धेऽस्मिन्-संसारेऽत्यन्तभातिदे ।
 सुखदुःखान्यवाप्तानि, भ्रमताविधियोगतः ॥१४९॥
 एवं चिरमिदं कष्टं, ज्ञात्वात्यन्तविनश्वरम् ।
 कथं न यासि वैराग्यं ? धिगस्तु तव जीवितम् ॥१५०॥
 जीवितं विद्युता तुल्यं, संयोगाः स्वप्नसंनिभाः ।
 संध्यारागसमः स्नेहः, शरीरं तृणविन्दुवत् ॥१५१॥
 शक्रचापसमा भोगाः, संपदो जलदोपमाः ।
 यौवनं जलरेखेव, सर्वमेतदशाश्वतम् ॥१५२॥
 समानवयसो दृष्टा, मृत्युना स्ववशीकृताः ।
 कथं चेतः स(श)मो नास्ति, मनागपि हितात्मनः ॥१५३॥
 सर्वाशुचिमये काये, नश्वरे व्याधिपीडिते ।
 को हि विद्वान् रतिं गच्छेद्यस्यास्ति श्रुतसङ्गमः ॥१५४॥
 चिरं सुपोषितः कायो, भोजनाच्छादनादिभिः ।
 विकृतिं याति सोऽप्यन्ते, कास्या बाह्येषु वस्तुषु ॥१५५॥
 नायातो वन्द्युभिः सार्धं, न गतो वन्द्युभिः समम् ।
 वृथैव स्वजनैः स्नेहो, जनानां मूढचेतसाम् ॥१५६॥
 जातेनावश्य मर्तव्यं, प्राणिना प्राणधारिणा ।
 अतः कुरुत मा शोकं, मृते वन्द्युजने बुधाः ॥१५७॥

आत्मकार्यं परित्यज्य, परकार्येषु यो रतः ।

ममत्वरतचेतस्कः, स्वहितात् भ्रंस(श)मेष्यति ॥१५८॥

स्वहितं तु भवेद् ज्ञानं, चारित्रं दर्शनं तथा ।

तपःसंरक्षणं चैव, सर्वविद्धिस्तदुच्यते ॥१५९॥

सुखसंभोगसन्मूढा, विषयास्वादलंपटाः ।

स्वहितात् भ्रंस(श)मागत्य, गृहवासं सिषेविरे ॥१६०॥

वियोगा बहवो दृष्टा, द्रव्याणां च परिक्षयः ।

तथापि निर्धृणं चेतः सुखास्वादनलंपटम् ॥१६१॥

यथा च जायते चेतः सम्यक् शुद्धिं सुनिर्मलाम् ।

तथा ज्ञानविदा कार्यं, प्रयत्नेनापि भूरिणा ॥१६२॥

विशुद्धं मानसं यस्य, रागादिमलवर्जितम् ।

संसारमफलं तस्य, सकलं समुपस्थितम् ॥१६३॥

संसारध्वंसने हृष्टिं, धृतिमिन्द्रियनिग्रहे ।

कषायविजये यत्नं, नाभव्यो लब्धुमर्हति ॥१६४॥

एतदेव परं ब्रह्म, न विदन्तीह मोहिनः ।

यदेतच्चित्तनैर्मल्यं, रागद्वेषादिवर्जनम् ॥१६५॥

तथा तुष्टे यमे तद्धि, पण्डितेन हितैषिणा ।

यथा न विक्रियां याति, मनोऽत्यर्थं विपत्स्वपि ॥१६६॥

धन्यास्ते मानवा लोके, ये प्राप्ताप्यापदां पराम् ।

विकृतिं नैव गच्छन्ति, यतस्ते साधुमानसः ॥१६७॥

संक्लेशो नहि कर्तव्यः, संक्लेशो बन्धकारणम् ।

संक्लेशपरिणामेन, जीवो दुःखस्य भाजनम् ॥१६८॥

संक्लेशपरिणामेन, जीवः प्राप्नोति भूरिशः ।

सुमहत्कर्मसंबंधं, भवकोटिषु दुःखदम् ॥१६९॥

चित्तरत्नमसंक्लिष्टं, महतामुत्तमं धनम् ।

येन संप्राप्यते स्थानं, जरामरणवर्जितम् ॥१७०॥

संपत्तौ विस्मिता नैव, विपत्तौ नैव दुःखिताः ।

महतां लक्षणं ह्येतत्, तनु द्रव्यसमागमः ॥१७१॥

आपत्सु संपतन्तीषु, पूर्वकर्मनियोगतः ।

धैर्यमेव परं त्राणं, न युक्तमनुशोचनम् ॥१७२॥

विशुद्धपरिणामेन, शान्तिर्भवति सर्वतः ।

संक्लिष्टेन तु चित्तेन, नास्ति शान्तिर्भवेष्वापि ॥१७३॥

संक्लिष्टचेतसां पुंसा-मायात्संसारवर्धनम् ।

विशुद्धा चेतसो वृत्तिः, संपन्निर्वृतिदायिनी ॥१७४॥

यदा चित्तविशुद्धिः स्या-दापदः संपदस्तदा ।

समास्तत्त्वविदां पुंसां, सर्वं हि महतां महत् ॥१७५॥

परोऽप्युत्पथमापन्नो, निपेच्छुं युक्त एव सः ।

किं पुनः स्वमनोऽत्यर्थं, विपयोत्पथयायि यत् ॥१७६॥

अज्ञानाद्यदि वा मोहात्, यत्कृतं कर्म कुत्सितम् ।

व्यावर्तये मनस्तस्मात्, पुनस्तन्न समाचरेत् ॥१७७॥

अचिरेणैव कालेन, फलं प्राप्स्यसि दुर्मते ।

विपाकेऽतीवतिक्तस्य, कर्मणो यत् त्वया कृतम् ॥१७८॥

स्वल्पेनैव तु कालेन, फलं प्राप्स्यसि यत्कृतम् ।

शशवदात्मकर्णाभ्यां, गोपयत् स्वं मनागपि ॥१७९॥

वर्धमानं हि तत्कर्म—अज्ञानाद्यो न शोधयेत् ।

सुप्रभूतर्णसंग्रस्तः, स पश्चात्परितप्यते ॥१८०॥

सुखभावकृते मूढाः, किं न कुर्वन्ति मानवाः ।

ये न संतापमायान्ति, जन्मकोटिशतेष्वपि ॥१८१॥

परं च वञ्चयामीति, ये हि मायां प्रयुञ्जते ।

इहान्यत्र च लोके वै, तैरात्मा वञ्चितः सदा ॥१८२॥

पंचतासन्नतां प्राप्ता, न कृतं सुकृतार्जनम् ।

सुमानुष्ये हि संप्राप्ते, हा गतं जन्म निष्फलम् ॥१८३॥

कर्मपाशविमोक्षाय, यत्नो यस्य न देहिनः ।

स संसारमहागुप्तौ, बद्धः संतिष्ठते सदा ॥१८४॥

गृहचारकवासेऽस्मि—न्विषयामिषलोभितः ।

सीदन्ति नरशार्दूला, बद्धा बान्धवबन्धनैः ॥१८५॥

गर्भवासेऽपि यद्दुःखं, प्राप्तमत्रैव जन्मनि ।

अधुना विस्मृतं किं ते? येनात्मानं न बुध्यसे ॥१८६॥

चतुरशीतिलक्षेषु, योनीनां भ्रमता त्वया ।

प्राप्तानि दुःखशल्यानि, नानाकाराणि मोहिना ॥१८७॥

कथं नोद्विजसे मूढ ? दुःखात्संसृतिसंभवात् ।
 येन त्वं विषयासक्तो, लोभेनास्मिन् वशीकृतः ॥१८८॥
 यत्त्वयोपार्जितं कर्म, भवकोटिषु पुष्कलम् ।
 तच्छेत्तुं चेन्न शक्नोषि, गतं ते जन्म निष्फलम् ॥१८९॥
 अज्ञानी क्षपयेत् कर्म, यज्जन्मशतकोटिभिः ।
 तद् ज्ञानी तु त्रिगुप्तो, निहन्त्यन्तर्हूर्ततः ॥१९०॥
 जीवितेनापि किं तेन ? कृता यत्र न निर्जरा ।
 कर्मणां संवरो वापि, संसारासारकारिणाम् ॥१९१॥
 स जातो येन जातेन, सुकृता पक्वपाचना ।
 कर्मणां पाकघोराणां, विबुधेन महात्मना ॥१९२॥
 रोषे रोषं परं कृत्वा, माने मानं विधाय च ।
 सङ्गे सङ्गं परित्यज्य, स्वात्माधीनं सुखं कुरु ॥१९३॥
 परिग्रहे महाद्वेषो, मुक्तौ च रति रुत्तमा ।
 सदृध्याने चित्तमेकाग्रं, रौद्रार्ते नैव संस्थितम् ॥१९४॥
 धर्मस्य संचये यत्नं, कर्मणां च परिक्षये ।
 साधूनां चेष्टिते चित्तं, सर्वदा पापनाशनम् ॥१९५॥
 मानस्तंभं दृढं भङ्गत्वा, लोभाद्रिं प्रविदार्य वै ।
 मायावल्लिं समुत्पाट्य, क्रोधशत्रुं निहत्य च ॥१९६॥
 यथाख्यातं हितं प्राप्य, चारित्रं ध्यानतत्पराः ।
 कर्मणां प्रक्षयं कृत्वा, प्रयाताः परमं पदम् ॥१९७॥

सङ्गादिरहिता धीरा, रागादिमलवर्जिताः ।

शान्ता दान्ता तपोभूषा, मुक्तिकाङ्क्षणतत्पराः ॥१९८॥

धृतिभावनया युक्ताः, सत्यभावनयान्विताः ।

तत्त्वार्था हितचेतस्कास्ते पात्रं दातुमुत्तमाः ॥१९९॥

धृतिभावनया दुःखं, सत्त्वभावनया भयम् ।

ज्ञानभावनया कर्म, नाशयन्ति न संशयः ॥२००॥

आग्रहो हि स (श) मे येषां, विग्रहं कर्मशत्रुभिः ।

विषयेषु निरासङ्गास्ते पात्रं यातुत्तमाः ॥२०१॥

निःसङ्गिनोऽपि वृत्ताद्या, निःस्नेहास्तु श्रुतिप्रियाः ।

अभूषापि तपोभूषा-स्ते पात्रं योगिनः सदा ॥२०२॥

यैर्ममत्वं सदा त्यक्तं, स्वकायेऽपि मनीषिभिः ।

ते पात्रं संयतात्मानः, सर्वसत्त्वहिते रताः ॥२०३॥

परिषहजये शक्तं, शक्तं कर्मपरिक्षये ।

ज्ञानध्यानतपोभूषं, शुद्धाचारपरायणम् ॥२०४॥

प्रशान्तमानसं सौम्यं, प्रशान्तकरणं शुभम् ।

प्रशान्तारिमहामोहं, कामक्रोधनिसूदनम् ॥२०५॥

निंदास्तुतिसमं धीरं, शरीरेऽपि च निःस्पृहम् ।

जितेन्द्रियं जितक्रोधं, जितलोभमहाभटम् ॥२०६॥

रागद्वेषविनिर्मुक्तं, सिद्धिसंज्ञमनोत्सुकम् ।

ज्ञानाभ्यासरतं नित्यं, नित्यं च प्रशमे स्थितम् ॥२०७॥

एवं विधं हि यो दृष्ट्वा, स्वगृहाङ्गणमागतम् ।

मात्सर्यं कुरुते मोहात्क्रिया तस्य न विद्यते ॥२०८॥

मायां निरासिकां कृत्वा, तृष्णां च परमौजसः ।
 रागद्वेषौ समुत्सार्य, प्रघाताः पदमक्षयम् ॥२०९॥
 धीराणां यतयो धीरा, ये निराकुलचेतसः ।
 कर्मशत्रुमहासैन्यं, निर्जयन्ति तपोबलात् ॥२१०॥
 परीषहजये शूराः, शूराश्चेन्द्रियनिग्रहे ।
 कषायविजये शूरास्ते शूरा गदिता बुधैः ॥२११॥
 नादत्तेऽभिनवं कर्म, स्वचारित्रनिविष्टधीः ।
 पुराणं निर्ययेद् बाढं, विशुद्धध्यानसङ्गतः ॥२१२॥
 संसारवासनिवृत्ताः, शिवसौख्यसमुत्सुकाः ।
 सद्भिस्ते गदिताः प्राज्ञाः, शेषाः स्वार्थस्य वाचकाः ॥२१३॥
 समतां सर्वभूतेषु, यः करोति सुमानसः ।
 ममत्वभावनिर्मुक्तो, यात्यसौ पदमव्ययम् ॥२१४॥
 इन्द्रियाणां जये शूरः कर्मबंधे च कातरः ।
 तत्त्वार्थो हितचेतस्कः स्वशरीरेऽपि निस्पृहः ॥२१५॥
 परीषहमहाराति-वलनिर्दलनक्षमः ।
 कषायविजये शूरः स शूर इति कथ्यते ॥२१६॥
 संसारध्वंसिनीं चर्या, ये कुर्वन्ति सदा नराः ।
 रागद्वेषहतिं कृत्वा, ते यान्ति परमां गतिम् ॥२१७॥
 मलैस्तु रहिता धीरा, मलदिग्धाङ्गयष्टयः ।
 ते ब्रह्मचारिणो नित्यं, ज्ञानाभ्यासं सिषेविरे ॥२१८॥

ज्ञानभावनया शक्ता--निभृतैरन्तरात्मना ।
 अप्रमत्तगुणं प्राप्य, लभन्ते हितमात्मनः ॥२१९॥
 संसारवासमीरूणां, त्यक्तान्तर्बाह्यसङ्गिनाम् ।
 विषयेभ्यो निवृत्तानां, श्लाघ्यं तेषां हि जीवितम् ॥२२०॥
 समं शत्रौ च मित्रे च, समं मानापमानयोः ।
 लाभालाभे समं नित्यं, लोष्टकाञ्चनयोस्तथा ॥२२१॥
 सम्यक्तवभावनाशुद्धं, ज्ञानसेवापरायणम् ।
 चारित्रचरणासक्तं, अक्षीणसुखकाङ्क्षिणम् ॥२२२॥
 ईदृशं श्रमणं दृष्ट्वा, योऽवमन्येत दुष्टधीः ।
 नृजन्मनः फलं सारं, स हारयति सर्वथा ॥२२३॥
 रागादिवर्धनं सङ्गं, परित्यज्य दृढव्रताः ।
 धीरा निर्मलचेतस्कास्तपस्यन्ति महाधियः ॥२२४॥
 संसारोद्विग्नचित्तानां, निःश्रेयससुखैषिणां ।
 सर्वसङ्गनिवृत्तानां, धन्यं तेषां हि जीवितम् ॥२२५॥
 सप्तभीस्थानमुक्तानां, यत्रास्तमितशायिनाम् ।
 त्रिकालयोगयुक्तानां, जीवितं सफलं भवेत् ॥२२६॥
 आर्तरौद्रपरित्यागात्, धर्मशुक्लसमाश्रयात् ।
 जीवः प्राप्नोति निर्वाणं, अनन्तसुखमच्युतम् ॥२२७॥
 आत्मानं विनियम्याशु, विषयेषु पराङ्मुखः ।
 साधयेत्स्वहितं प्राज्ञो, ज्ञानाभ्यासरतो यतिः ॥२२८॥

यथा सङ्ग परित्यागस्तथा कर्मविमोचनम् ।
 यथा च कर्मणां छेदस्तथाऽऽसन्नं परं पदम् ॥२२९॥
 यत्परित्यज्य गन्तव्यं, तत्स्वकीयं कथं भवेत् ।
 इत्यालोच्य शरीरेऽपि, विद्वानाशां परित्यजेत् ॥२३०॥
 नूनं नात्मा प्रियस्तेषां, ये रताः सङ्गसङ्गहे ।
 सन्नासीन्नापकृत्तुच्छः, स्वीकर्तुं नैव शक्यते ॥२३१॥
 शरीरमात्रसङ्गेन, भवेदारम्भवर्धनम् ।
 तदशाश्वतमत्राणं, तस्मिन्विद्वान् रतिं त्यजेत् ॥२३२॥
 सङ्गात्संजायते गृद्धि-गृद्धौ वाञ्छति सञ्चयम् ।
 सञ्चयाद्वर्धते लोभो, लोभात्संस्त्रतिवर्धनम् ॥२३३॥
 ममत्वाज्जायते लोभो, लांभाद्भागश्च जायते ।
 रागाच्च जायते द्वेषो, द्वेषाद्दुःखपरंपरा ॥२३४॥
 निर्ममत्वं परं तत्त्वं, निर्ममत्वं परं सुखम् ।
 निर्ममत्वं परं वीजं, मोक्षस्य कथितं बुधैः ॥२३५॥
 निर्ममत्वे सदा सौख्यं, संसारस्थितिभेदनम् ।
 जायते परमोत्कृष्टमात्मनः संस्थिते सति ॥२३६॥
 अर्थो मूलमनर्थानां, अर्थो निर्वृतिनाशनम् ।
 कपायोत्पादकश्चार्थो, दुःखाणां च विधायकः ॥२३७॥
 प्राप्तोज्झितानि विनानि, त्वया सर्वाणि संसृता ।
 पुनस्तेषु रतिः कष्टं, मुक्तवान्त इवौदने ॥२३८॥

को वा वित्तं समादाय, परलोकं गतः पुमान् ।
 येन तृष्णाग्निसंतप्तः, कर्म बध्नाति दारुणम् ॥२३९॥
 तृष्णान्धा नैव पश्यन्ति, हितं वा यदि वाहितम् ।
 संतोषाङ्गनमासाद्य, पश्यन्ति सुधियो जनाः ॥२४०॥
 संतोषसारसद्रत्नं, समादाय विचक्षणाः ।
 भवन्ति सुखिनो नित्यं, मोक्षसन्मार्गवर्तिनः ॥२४१॥
 तृष्णानलप्रदीप्तानां, सत्सौख्यं तु कुतो वृणाम् ? ।
 दुःखमेव सदा तेषां, ये रता धनसञ्चये ॥२४२॥
 संतुष्टाः सुखिनो नित्यं, असंतुष्टाः सुदुःखिताः ।
 उभयोरन्तरं ज्ञात्वा, संतोषे क्रियतां रतिः ॥२४३॥
 द्रव्याशां दूरतस्त्यक्त्वा, संतोषं कुरु सन्मते ।
 मा पुनर्दीर्घसंसारे, पर्यटिष्यसि निश्चितम् ॥२४४॥
 ईश्वरो नाम संतोषी, यो न प्रार्थयते परम् ।
 प्रार्थना महतामत्र, परं दारिद्र्यकारणम् ॥२४५॥
 हृदयं दह्यतेऽत्यर्थं, तृष्णाग्निरितापितम् ।
 न शक्यं शमनं कर्तुं, विना संतोषवारिणा ॥२४६॥
 यैः संतोषोदकं पीत्वा, निर्ममत्वेन वासितम् ।
 त्यक्तं तैर्मानसं दुःखं, दुर्जनेनेव सौहृदं ॥२४७॥
 यैः संतोषामृतं पीतं, तृष्णातृडपनाशनम् ।
 तैः सुनिर्वाणसौख्यस्य, कारणं समुपार्जितम् ॥२४८॥

संतोषं लोभनाशाय, धृतिं वासुखशान्तये ।
 ज्ञानं च तपसो वृद्धौ, धारयन्ति दिगम्बराः ॥२४९॥
 ज्ञानदर्शनसंपन्न, आत्मा वैको ध्रुवो मम ।
 शेषा भावाश्च मे बाह्याः, सर्वे संयोगलक्षणाः ॥२५०॥
 संयोगमूलजीवेन, प्राप्ता दुःखपरंपरा ।
 तस्मात्संयोगसंबंधं, त्रिविधेन परित्यजेत् - ॥२५१॥
 ये हि जीवादयो भावाः, सर्वज्ञैः भाषिताः पुरा ।
 अन्यथा च क्रियास्तेषां, चिन्ता तत्र निरर्थका ॥२५२॥
 यथा च कुरुते जन्तु-र्मत्वं विपरीतधीः ।
 तथा हि बन्धमायान्ति, कर्माण्यस्य समंततः ॥२५३॥
 अज्ञानावृत्तचित्तानां, रागद्वेषवशात्मनां ।
 आरंभेषु प्रवृत्तानां, हितं नश्यति भीतवत् ॥२५४॥
 परिग्रह परिष्वङ्गा-द्रागो द्वेषश्च जायते ।
 रागद्वेषौ महाबन्धः, कर्मणां भवकारिणाम् ॥२५५॥
 सर्वसङ्गान् पशून् कृत्वा, ध्यानाग्निनाऽऽहुतिं क्षिपेत् ।
 कर्माणि समिधश्चैव, यागोऽयं सुमहाफलम् ॥२५६॥
 राजसूयसहस्राणि, अश्वमेधशतानि च ।
 अनन्तभागतुल्यानि, न स्युस्तेन कदाचन ॥२५७॥
 सा प्रज्ञा या स (ज्ञ) मे याति, विनियोगपराहता ।
 शेषा निरयदा प्रज्ञा, कर्मोपार्जनकारिणी ॥२५८॥

प्रज्ञाङ्गना सदा सेव्या, पुरुषेण सुखावहा ।
 हेयोपादेयतत्त्वज्ञा, या रता शमकर्मणि ॥२५९॥
 दयाङ्गना च सा सेव्या, सर्वकामफलप्रदा ।
 सेवितासौ करोत्याशु, मानसं करुणात्मकम् ॥२६०॥
 मैत्र्यङ्गना सदोपास्या, हृदयानन्दकारिणा ।
 या विधत्ते कृतोपास्ति—चित्तं विद्वेषवर्जितम् ॥२६१॥
 सर्वसत्त्वे दया मैत्री, यः करोति सुमानसः ।
 जयत्यसावरीन् सर्वान्, वाह्याभ्यन्तरसंस्थितान् ॥२६२॥
 स (श) मे नयति भूतानि, यः शक्तो देशनाविधौ ।
 कालादिलब्धियुक्तस्य, प्रत्यहं तस्य निर्जरा ॥२६३॥
 शमो हि न भवेद्येषां, ते नराः पशुसंनिभाः ।
 समृद्धा अपि सच्छास्त्रे, कामार्था रतिसङ्गिनः ॥२६४॥
 कर्मणां ध्वंसने चित्तं, रागं मोहारिनाशने ।
 द्वेषं कषायवर्गे च, नायोग्यो लब्धुमर्हति ॥२६५॥
 चित्रं नरकतिर्यक्षु, भ्रमतोऽपि निरन्तरम् ।
 यतोस्तु विद्यते नैव, स (श)मो दुरितबन्धिनः ॥२६६॥
 मनस्याह्लादिनी सेव्या, सर्वकालं सुखप्रदा ।
 उपनेया त्वया भद्र, क्षमा नाम कुलाङ्गना ॥२६७॥
 क्षमया क्षीयते कर्म, दुःखदं पूर्वसंचितम् ।
 चित्तं च जायते शुद्धं, विद्वेषभयवर्जितम् ॥२६८॥

प्रज्ञा सूया च सैत्री च, समता करुणा क्षमा ।
 सम्यक्त्वसहिता सेव्या, सिद्धिसौधसुखप्रदा ॥२६९॥
 भयं या हि भवाद्भीमा-त्प्रीतिं च जिनशासने ।
 शोकं पूर्वकृतात्पापात्, यदीच्छेद्धितमात्मनः ॥२७०॥
 कुसंसर्गः सदा त्याज्यो, दोषाणां प्रविधायकः ।
 सगुणोऽपि जनस्तेन, लघुतां याति तत्क्षणात् ॥२७१॥
 सत्सङ्गो हि बुधैः कार्यः, सर्वकालसुखप्रदः ।
 तेनैव गुरुतां याति, गुणहीनोऽपि मानवः ॥२७२॥
 साधूनां खलसङ्गेन, चेष्टितं मलिनं भवेत् ।
 संहिकेयात्समासक्ता,--भाभ्यो भानोरपि क्षयः ॥२७३॥
 रागादयो महादोषा, खलास्ते गदिता बुधैः ।
 तेषां समाश्रयस्त्याज्य-स्तत्त्वविद्भिः सदा नरैः ॥२७४॥
 गुणाः सुपूजिता लोके, गुणाः कल्याणकारकाः ।
 गुणहीना हि लोकेऽस्मिन्, महान्तोऽपि मलीमसाः ॥
 सद्गुणैर्गुरुतां याति, कुलहीनोऽपि मानवः ।
 निर्गुणः सुकुलाद्योऽपि, लघुतां याति तत्क्षणात् ॥२७५॥
 सद्वृत्तः पूज्यते देवै-राखण्डलपुरस्सरैः ।
 असद्वृत्तस्तु लोकेऽस्मिन्, निन्द्यतेऽसौ सुतेरपि ॥२७६॥
 चारित्रं तु समादाय, ये पुनर्भङ्गमागताः ।
 ते साम्राज्यं परित्यज्य, दास्यभावं प्रपदिरे ॥२७७॥

शीलसंधारिणां पुंसां, मनुष्येषु सुरेषु च ।

आत्मा गौरवमायाति, परत्रेह च सन्ततम् ॥२७९॥

आपदो हि महाघोरा--स्तत्त्वसाधनसंगतैः ।

निस्तीर्यते महोत्साहैः, शीलरक्षणतत्परैः ॥२८०॥

वरं तत्क्षणतो मृत्युः, शीलसंयमधारिणाम् ।

न तु सच्छीलहीनानां, कल्पान्तमपि जीवितम् ॥२८१॥

वरं शत्रुगृहे भिक्षा, याचिता शीलधारिणां ।

न तु सच्छीलभङ्गेन, साम्राज्यमपि जीवितम् ॥२८२॥

धनहीनोऽपि शीलाढ्यः, पूज्यः सर्वत्र विष्टपे ।

शीलहीनो धनाढ्योऽपि, न पूज्यः स्वजनेष्वपि ॥२८३॥

वरं सदैव दारिद्र्यं, शीलैश्वर्यसमन्वितम् ।

न तु शीलविहीनानां, विभवाश्चक्रवर्त्तिनः ॥२८४॥

धनहीनोऽपि सद्वृत्तो, याति निर्वाणनाथताम् ।

चक्रवर्त्त्यप्यसद्वृत्तो, याति दुःखपरंपराम् ॥२८५॥

सुखरात्रिर्भवेत्तेषां, येषां शीलं सुनिर्भलम् ।

न तु सच्छीलहीनानां, दिवसोऽपि सुखावहः ॥२८६॥

देहं दहति कोपाग्नि--स्तत्क्षणं समुदीरितः ।

वर्धमानः ससामग्र्यं, चिरकालं समार्जितम् ॥२८७॥

क्रोधेन वर्धते कर्म, दारुणं भववर्धनम् ।

सकृच्च क्षीयते सद्य--स्तपस्स्वं समुपार्जितम् ॥२८८॥

सुदुष्टमनसा पूर्वं, यत्कर्म समुपार्जितम् ।
 तस्मिन्फलप्रदेयास्ते कोऽन्येषां क्रोधमुद्वहेत् ॥२८९॥
 छिद्यमाने ऋणे यद्व-चचेतसो जायते धृतिः ।
 शोध्यमाने तु कर्मणे, किं विमुक्तिर्न जायते ॥२९०॥
 स्वहितं यः परित्यज्य, सयत्नं पापमाहरेत् ।
 क्षमां न चेत्करोम्यस्य, मत्कृतघ्नो न विद्यते ॥२९१॥
 शत्रुभावस्थितान्यस्तु, करोति वशवर्त्तिनः ।
 प्रज्ञाप्रयोगसामर्थ्या-त्स शूरः स च पण्डितः ॥२९२॥
 विवादो हि मनुष्याणां, धर्मकामार्थनाशकृत् ।
 वैराद् वन्धजननोऽपि, नित्यं चाहितकर्मणाम् ॥२९३॥
 धन्यास्ते मानवा नित्यं, ये सदा क्षमया युताः ।
 वञ्च्यमाना शठैर्लुब्धैर्विवादं नैव कुर्वते ॥२९४॥
 वादेन बहवो नष्टा, येऽपि द्रव्यमहोत्कटाः ।
 वरमर्थपरित्यागो, न विवादः खलैःसह ॥२९५॥
 अहंकारो हि लोकानां, विनाशाय न वृद्धये ।
 यथा विनाशकाले स्यात्, प्रदीपस्य शिखोज्ज्वला ॥२९६॥
 हीनयोनिषु विभ्रम्य, चिरकालमनेकधा ।
 उच्चगोत्रे सकृत्प्राप्ते, कोऽन्यो मानं समुद्वहेत् ॥२९७॥
 रागद्वेषो महाशत्रु, मोक्षमार्गमलिम्लुचो ।
 ज्ञानध्यानतपोरत्नं, हरतः सुचिरार्जितम् ॥२९८॥

चिरं गतस्य संसारे, बहुयोनिसमाकुले ।

आत्मा सुदुर्लभा बोधिः, शासने जिनभाषिते ॥२९९॥

अधुना तां सप्तासाद्य, संसारच्छेदकारिणीं ।

प्रमादो नोचितः कर्तुं, निमेषमपि धीमता ॥३००॥

प्रमादं ये तु कुर्वन्ति, मूढा विषयलालसाः ।

नरकादिषु तिर्यक्षु, ते भवन्ति चिरं नराः ॥३०१॥

आत्मा यस्य वशो नास्ति, कुतस्तस्य परो जनः ।

आत्माधीनस्य शान्तस्य, त्रैलोक्यं वशवर्तितम् ॥३०२॥

आत्माधीनं तु यत्सौख्यं, तत्सौख्यं वर्णितं बुधैः ।

पराधीनं तु यत्सौख्यं, दुःखमेव न तत्सुखम् ॥३०३॥

पराधीनं सुखं कष्टं, राज्ञामपि महौजसां ।

तस्मादेतत्समालोच्य, आत्मायत्तं सुखं कुरु ॥३०४॥

आत्मायत्तं सुखं लोके, परायत्तं न तत्सुखम् ।

एतत्सम्यग्विजानंतो, मुह्यन्ते मानुषाः कथम् ॥३०५॥

नैःसंग्याज्जायते सौख्यं, मोक्षसाधनमुत्तमम् ।

संगाच्च जायते दुःखं, संसारस्य निबन्धनम् ॥३०६॥

पूर्वकर्मविपाकेन, वाधायां यत्तु शोचनम् ।

तदिदं तु श्वदष्टस्य, जरतूखेऽथाहिताडनम् ॥३०७॥

अज्ञे हि बाधते दुःखं, मानसं न विचक्षणे ।

पवनैर्नीयते तूलं, मेरोः शृंगं न जातुचित् ॥३०८॥

परं ज्ञानफलं वृत्तं, न विभूतिर्गरीयसी ।
 तथाहि वर्धते कर्म, सद्वृत्तेन विमुच्यते ॥३०९॥
 संवेगः परमं कार्यं, श्रुतस्य गदितं बुधैः ।
 तस्माद् ये धनमिच्छन्ति, ते त्विच्छंत्यमृताद्विषम् ॥३१०॥
 श्रुतं वृत्तं स(श)मो येषां, धनं परमदुर्लभम् ।
 ते नरा धनिनः प्रोक्ताः, शेषा निर्धनिनः सदा ॥३११॥
 कोवा तृप्तिं समायातो, भोगैर्दुरितबन्धनैः ।
 देवो वा देवराजो वा, चक्रांको वा नराधिपः ॥३१२॥
 आत्मा वै सुमहत्तीर्थं, यदासौ प्रशमे स्थितः ।
 अथास्य प्रशमो नास्ति, ततस्तीर्थं निरर्थकम् ॥३१३॥
 शीलव्रतजलस्नाने, शुद्धिरस्य शरीरिणः ।
 न तत्स्नातस्य तीर्थेषु, सर्वेष्वपि महीतले ॥३१४॥
 रागादिवर्जनं स्नानं, ये कुर्वन्ति दयापराः ।
 तेषां निर्मलतायोगो, न तु स्नातस्य वारिणा ॥३१५॥
 आत्मानं स्नापयेन्नित्यं, ज्ञाननीरेण चारुणा ।
 येन निर्मलतां याति, जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥३१६॥
 सर्वाशुचिमये काये, शुक्रशोणितसंभवे ।
 शुचित्वं येऽभिवाञ्छन्ति, नष्टास्ते जडचेतसः ॥३१७॥
 औदारिकशरीरेऽस्मिन्, सप्तधातुमयेऽशुचौ ।
 शुचित्वं येऽभिमन्यन्ते, पशवस्ते न मानवाः ॥३१८॥

सत्येन शुध्यते वाणी, मनो ज्ञानेन शुद्ध्यते ।
 गुरुशुश्रूषया कायः, शुद्धिरेषा सनातनी ॥३१९॥
 स्वर्गमोक्षोचितं नृत्वं, मूढैर्विषयलालसैः ।
 कृतं स्वल्पसुखस्यार्थे, तिर्यग्गरकभाजनम् ॥३२०॥
 सामग्रीं प्राप्य संपूर्णां, यां विजेतुं निरुद्यमः ।
 विषयारिमहासैन्यं, तस्य जन्म निरर्थकम् ॥३२१॥
 निरवद्यं वदेद्वाक्यं, मधुरं हितमर्थवत् ।
 प्राणिनां चेतसो ह्लादि, मिथ्यावादिवहिष्कृतम् ॥३२२॥
 प्रियवाक्यप्रदानेन, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः ।
 तस्मात्तदेव वक्तव्यं, किं वाक्येऽपि दरिद्रता ॥३२३॥
 व्रतं शीलं तपो दानं, संयमोऽर्हत्प्रपूजनम् ।
 दुःखविच्छित्तये सर्वं, प्रोक्तमेतन्न संशयः ॥३२४॥
 तृणतुल्यं परद्रव्यं, परं च स्वशरीरवत् ।
 पररामां समां सातुः, पश्यन् याति परं पदम् ॥३२५॥
 सम्यक्त्वसमतायोगो, नैःसंग्यं क्षमता तथा ।
 कषायविषयासङ्गः, कर्मनिर्जरणं परम् ॥३२६॥
 अयं तु कुलभद्रेण, भवविच्छित्तिकारणम् ।
 दृब्धो बालस्वभावेन, ग्रन्थः सारसमुच्चयः ॥३२७॥
 ये भक्त्या भावयिष्यन्ति, भवकारणनाशनम् ।
 तेऽचिरेणैव कालेन, सुखं प्राप्स्यन्ति शाश्वतम् ॥३२८॥

सारसमुच्चयमेतं, ये पठन्ति समाहिताः ।

ते स्वल्पेनैव कालेन, पदं यास्यन्त्यनामयम् ॥३२९॥

नमः परमसद्धान-विघ्ननाशनहेतवे ।

महाकल्पाणसंपत्ति-कारिणेऽरिष्टनेमये ॥३३॥

॥ सारसमुच्चयः समाप्तः ॥

१८ अध्यात्मविन्दुप्रथमद्वात्रिंशिका.

ब्रूमः किमध्यात्ममहत्त्वमुच्चै-र्यस्मात्परं स्वं च विभ-

ज्य सस्यक्;

समूलघातं विनिहत्य घाति, नाभेयभूः केवलमास-

साद् ॥ १ ॥

लवधार्यत्वमथ प्रपद्य च गुरोर्नैकदृश्येनःक्षयात् ,

श्रुत्वाध्यात्ममथ प्रपीय च ततस्तत्त्वामृतं यत्पुनः

क्षेत्रज्ञः किल मोमुहीति विषय-ग्रामेषु वद्धस्पृहः

तन्नूनं त्रिजगज्जये धृतिमतो मोहस्य विस्फूर्जितम् २

धत्तेऽम्भोधिर्जवनपवनाच्छोटनोन्मूर्च्छदुग्रो-

ल्लोलश्रेणिचटुलितवपुर्व्याकुलत्वं यथायम्;

निष्कंपोऽपि स्वरसवशतः कर्मकंपांकसंगं,

तद्वत् क्षुभ्यत्ययमपि परः पूरुपः संप्रपद्य ॥ ३ ॥

कुम्भोदंचनवर्धमान--करक--स्थाल्याद्यवस्थान्तरा--
 प्येकोऽपि ध्रुवमम्बुयोगवशतो मृद्द्रव्यपिण्डोऽश्नुते;
 तद्वत्कर्मजलीययोगमुपलभ्यात्मापि तिर्यङ्गरा--
 मर्त्यप्रेतपुरोगजातिनिकरत्वेन स्वयं जायते ॥४॥
 भूतार्थो ननु निश्चयः तदितरोऽभूतार्थमावेदयन्,
 संत्याज्यो नितरां यतः स्वपरयोर्भेदे स बीजं न हि;
 भूतार्थस्तु विशुद्धवस्तुकलना--भिज्ञो ध्रुवं यत्ततो,
 भूतार्थं ननु संश्रितो विशदधीः सम्यग्दृशात्मा भवेत् ५
 व्यवहरणनयोऽयं पुंस्वरूपं विकारि,
 भणति च नवतत्त्वैर्मुद्रितं क्षुद्ररूपम् ;
 अबुधजनविवोधा--र्थं किलास्योपदेशो,
 जिनसमयविमूढः केवलं यः श्रितोऽसुम् ॥६॥

आत्मास्वरूपं पररूपमुक्तं, अनादिमध्यान्तमकर्त्रभोक्तृ;
 चिदंकितं चान्द्रकरावदातं, प्रद्योतयन् शुद्धनयश्च-

कास्ति ॥ ७ ॥

तीर्थप्रवृत्त्यर्थमयं फलेग्रहिल्लिकालविद्भिर्व्यवहार उक्तः
 परः पुनस्तत्त्वविनिश्चयाय, नयद्वयात्तं^१ हि जिनेन्द्र-
 दर्शनम् ॥८॥

ये यावन्तो ध्वस्तबन्धा अभूवन्, भेदज्ञानाभ्यास
 एवात्र बीजम् ;

येऽप्यध्वस्तवन्धा भ्रमन्ति, तत्राभेदज्ञानमेवेति विद्मः॥९
 भेदज्ञानाभ्यासतः शुद्धचेता, नेता नायं नव्यकर्मा-
 वलीनाम् ;

(शुद्धं निरुपरागं चित्तं यस्य तादृशो यः सम्यग्दृष्टिः)
 लीनां स्वस्मिस्तामयंस्तां नितान्तं, तां तं स्वीयरूप-
 मुज्जीवयेत् ॥१॥

अज्ञानतो मुद्रित^१भेदसंविच्छक्तिः किलायं पुरुषः पुराणः
 परात्मनोस्तत्त्वमसंविदानः कर्तृत्वमात्मन्यसकृत्प्रयुक्ते
 ॥११॥

स्वतोऽन्यतो वाप्यधिगत्य तत्त्वं, यद्येष देवः किल
 संप्रबुद्धः

द्रव्यं परं नो मम नाहमस्ये--तीयर्ति^२बुद्धिं यदि
 वध्यते किम् ॥१२॥

प्रमाणनिक्षेपनयाः समेऽपि, स्थिताः पदेऽधः किल
 वर्त्तमाने;
 प्रपश्यतां शांतमनः समूर्ध्वं, पदं न चैषां कतमोऽपि
 भाति ॥१३॥

वन्धोदयोदीरणसत्त्वमुख्या, भावाः प्रवन्धः खलु
 कर्मणां स्यात् ;
 एभ्यः परं यत्तु तदेव धामास्म्यहं परं कर्मकलंकमुक्तम्॥

वातोहसत्तुङ्गतरङ्गभङ्गा-द्यथा स्वरूपे जलधिः समास्ते;
तथायमात्माखिलकर्मजन्य-विकारनाशात्स्पृशति

स्वरूपम् ॥१५॥

चैद्रूप्यमेकमपहाय परे किलामी,
यावन्ति एव पुरुषेऽत्र लसन्ति भावाः
तान् संप्रपद्य च परत्वधिया समस्ता-
नास्ते यदास्त्रवति किं ननु कर्म नव्यम् ॥१६॥

शरीरसंसर्गत एव सन्ति,वर्णादयोऽमी निखिलाः पदार्थाः
जांबूनदादेरुपधेरिव द्राग् वैशद्यभाजि स्फटिके तरङ्गाः॥

स्फटिकमणिरिवायं शुद्धरूपश्चिदात्मा,
भजति विविधभावं द्वेषरागाद्युपाधेः
यदपि तदपि रूपं नैव जाहात्ययं स्वं,
न खलु भवति चान्द्री ध्वान्तरूपा मरीचिः ॥१८॥

परं स्वात्मत्वेन स्वमपि च परत्वेन कलयन्,
अयं रागद्वेषाद्यनियतविभावैः परिणतः
ततो रज्ये रुष्याम्यहमिति विकल्पाननुकलं,
प्रकुर्वन् जीवोऽयं ननु जगति कर्माणि कुरुते ॥१९॥

भूताविष्टो नर इह यथा ज्ञानतः स्वं च भूतं,
त्वैकीकुर्वन् भवति विसदृक् चेष्टितानां विधाता;

अप्यात्मायं निजपरविवे-कच्युतः कामकोपा-
 दीनां कर्त्ता भवति नितरां शुद्धचिद्दूषकाणाम् ॥२॥
 व्याप्ये व्यापकभावतः प्रकुरुते जीवः स्वभावान् यथा,
 भावाद्देदकवेद्यतोऽनुभवति स्वांस्तान् स्वभावान् पुनः
 तद्वद्देदयतेऽथवा प्रकुरुते भावान् परांश्चेदयं,
 स्यादेवं हि कृतिद्वयस्य करणात्सिद्धान्तवाधस्फुटम् ॥

सर्वे भावा निश्चयेन स्वभावान्,
 कुर्वन्तीत्यं साधुसिद्धान्ततत्त्वम् ;
 भिन्नद्रव्यीभूतकर्मप्रपञ्चं,
 जीवः कुर्यात्तत्कथं वस्तुतोऽयम् ॥ २२ ॥

रागो द्वेषो मोह इत्येवमाद्या,
 भावा नूनं शुद्धचिद्दूषकाः स्युः
 रोधादेषां जायते द्रव्यकर्मा-
 भावस्तस्मान्निर्विकारानुभूतिः ॥२३॥

ज्ञानं ज्ञाने भवति न खलु क्रोधमुख्येषु तत्स्यात्,
 क्रोधः क्रोधे न हि पुनरयं पूरुपे चित्स्वरूपे;
 कर्मद्वन्द्वे न हि भवति चिच्छिन्नकर्मावरुद्धे-
 तीत्यं शुद्धग्रहणरसिकः किं विधत्तेऽन्यभावम् ॥२४॥

यदात्मनाऽऽत्माऽऽस्त्रयोर्विभेदो,
 ज्ञातो भवेत् ज्ञानदशा तदानीं;

निवर्त्ततेऽज्ञानजकर्त्तृकर्म-

प्रवृत्तिरस्मान्निखिलापि मंशु^१ ॥२५॥

स्वत्वेन स्वं परमपि पर--त्वेन जानन्समस्तात् ,

स द्रव्येभ्यो विरमणमित--श्चिन्मयत्वं प्रपन्नः

स्वात्मन्येवाभिरतिमुपयन्स्वात्मशीली स्वदर्शी-

त्येवं कर्त्ता कथमपि भवेत् कर्मणो नैष जीवः ॥२६॥

व्याप्तं यत्किल वर्वृतीति निखिला-वस्थासु याद्रूप्यतो,

जातु स्यान्न तदात्मताविरहितं तेनाऽस्य साक भवेत्;

तादात्म्यं तदिह स्फुरन्न च भव-न्मुक्तौ नितान्तं ततो,

वर्णादिः सकलो गणो न तु पर-द्रव्यत्वमेव श्रयेत् ॥२७॥

अनवरतमनन्तान्, भावयन् कल्पनौघान्,

कथमिव परतत्त्वा बध्यसे कर्मजालैः

यदि सकलविकल्पातीतमेकं स्वरूप-

मनुभवति ततः किं, संसृतिः किं च बन्धः ॥२८॥

किं मुग्ध ! चिन्तयसि कामम^२ सिद्धकल्पान्,

तद्ब्रह्मरूपमनिशं परिभावयस्व;

यल्लाभतोऽस्ति न परः पुनरिष्टलाभो,

यद्दर्शनाच्च न परं पुनरस्ति दृश्यम् ॥२९॥

पंथा विमुक्तेर्भविनां न चान्यो,

यतः परः केवलिभिः प्रदिष्टः

आनन्दबोधावपि यद्विहाय,

पदे परस्मिन्न कदापि भातः ॥३०॥

यत्पञ्चेन्द्रियवर्जितं प्रविगलत्—कर्माष्टकं प्रस्खल-
स्वान्तं विग्रहपञ्चकेन वियुतं स्पृष्टं न च प्रत्ययैः
शान्तं शास्वतमक्रियं निरुपधि द्रव्यान्तरासङ्गतं,
विष्वक् प्रोल्लसदर्चिषा परिगतं तत्त्वं तदेवास्म्यहम् ॥३१
इत्येवं संप्रधार्य द्रुततरमखिल-भेदसंचिद्वलेन,
जीवाजीवप्रपञ्चं विदलति किल यो मोहराजानुवृत्तिं;
ज्ञानानन्दस्वरूपे भगवति भजति स्वात्मनि स्थैर्यमाशु,
प्रक्षिप्याज्ञानभावं स भवति अचिरा-च्छुद्ध आत्म-
स्वरूपः ॥३२॥

इति स्वोपज्ञाध्यात्मविन्दुविवरणे सदुपाध्याय-
श्रीमद्दर्पवर्धनविरचिता प्रथमद्वात्रिशिका संपूर्णा.

१९ श्रीमुनिचंद्रसूरिकृता

मौक्षोपदेशे पंचाशत्.

शुद्धध्यानलवित्रेण, समूलः क्लेशपादपः
विलूनो येन स सदा, जिनो जीयाज्जगत्पतिः ॥१॥

समस्त्यसुखो मोह-मूलो भवविषद्रुमः
विलीनाति चिरालीन-वासनाजललालितः ॥२॥

आधयो विविधावस्था, व्याधयश्चाधमाधमाः
जन्ममृत्युजराश्चास्य, स्वं स्वरूपं जिनैर्मतम् ॥३॥

दुर्भगत्वदरिद्रत्व-विरूपत्वपुरस्सराः
विडम्बनाः फलं प्राहु-विडम्बितजगज्जनाः ॥४॥

चतस्रो गतयः शाखा, नानादुःखफलाकुलाः
तासु यद्दुःखमारव्यातं, तदिदानीं निरूप्यते ॥५॥

पञ्चेन्द्रियवधासक्ता, मांसाशनकृतादराः
जायन्ते नरके जीवा, बहवारम्भपरिग्रहाः ॥६॥

कुम्भीपाकेन पच्यन्ते, पिष्टवन्नष्टचेतनाः
तत्र मुञ्जादिवच्चैते, हन्यन्ते लगुडैर्दृढैः ॥७॥

वज्रयन्त्रेषु पीड्यन्ते, निविडन्ते तिलेक्षुवत्;
आभूमिषु भूज्यन्ते, निस्त्राणाश्रणकादिवत् ॥८॥

दारुवद्दारुणाकारै-श्छिद्यन्ते च परश्वधैः
 भिद्यन्ते प्रासकुन्ताद्यै-राखेटकमृगादिवत् ॥९॥
 तप्तं त्रपु च पाय्यन्ते, ह्याछोटयन्ते शिलातले;
 आकीर्णा व. षट्कैस्तीक्ष्णै-रारोप्यन्ते च शाल्मलीम्
 काककङ्कशृगालाद्यै-र्भक्ष्यन्तेऽत्यन्तनिर्दयैः
 तार्यन्ते तरणं रीणा, वैतरिण्याः सुराधमैः ॥११॥
 यस्य जिह्वाशतं वक्त्रे, यो जीवेच्छरदां शतम्;
 सोऽपि वक्तुं क्षमो न स्या-दशर्म नरकेषु यत् ॥१२॥
 कूटमानतुलावन्तो, मिथ्याभाषणनत्पराः
 मायाविनो जना यान्ति, तैरश्रं जन्म निश्चितम् ॥१३॥
 यादृशं नरके दुःखं, तिर्यक्ष्वपि च तादृशम्;
 यतो वाहनदोहाद्या, व्यापदोऽत्र सुदुस्तराः ॥१४॥
 क्षुत्तृष्णावाधिता दीनाः, पारवश्यमुपागताः
 वहन्ति पशवो भारं, पृष्टकण्टसमर्पितम् ॥१५॥
 केचनोद्वाहदोषेण, दाहदोषेण केचन;
 केचिदङ्कुशाघातेन, कशाघातेन केचन ॥१६॥
 केचिद्वधेन वन्धेन, निरोधेन च केचन;
 कर्णपुच्छच्छविच्छेद-नासावेधादिभिस्तथा ॥१७॥
 अपारदुःखसम्भार-मध्यमग्ना दिवानिशम्;
 साक्षादेवेह दृश्यन्ते, तिर्यञ्चो वञ्चिताः शुभेः ॥१८॥

सामान्यदानदातार-स्तुच्छकोपादिकिल्विषाः

लभन्ते मानुषं नन्म, जन्मिनो मध्यमैर्गुणैः ॥१९॥

रौद्रदारिद्र्यतस्तत्र, मृतभावातिशायिनः

केचित्कथञ्चिज्जीवन्ति, मानवा मानवर्जिताः ॥२०॥

केचिन्निष्ठुरकुष्ठेन, सुष्ठु कष्टां दशां गताः

अन्ये ज्वरातिसारादि-रोगोरगविषातुराः ॥२१॥

परकर्मकराः केचि-न्मलिनाननलोचनाः

दृश्यन्ते क्लेशजलधौ, मग्ना नग्ना अनादृताः ॥२२॥

अन्ये स्कन्धसमारूढ-प्रौढभारादृढापदः

जीवन्त्यतिजघन्येन, कर्मणा शर्मणोज्झिताः ॥२३॥

ज्वलज्ज्वलनसम्पर्क-कर्कशैर्विरहानलैः

केचित्तापितसर्वाङ्गा, ग्लायन्ति गलितोद्यमाः ॥२४॥

अकामनिर्जरादिभ्यः केचन स्युः सुरा अपि;

कुत्रापि न सुखख्यातिः, काचिदस्ति सतां मता ॥२५॥

वितुद्यमानहृदया, ईर्ष्याशल्यैर्दूरुद्धरैः

विषादवह्नावह्नाय, निपतन्त्येव केचन ॥२६॥

कण्ठलोठितवादित्रा, हठतोऽकुण्ठतोऽपरे;

रङ्गस्थानेऽवतार्यन्ते, दीर्यमाणाङ्गका इव ॥२७॥

स्तम्बेरमतुरङ्गादि—वाहनाकारधारिणः

दयाबाह्यं च वाह्यन्ते, केऽपि सृण्यादिघट्टनैः ॥२८॥

चण्डालाकृतयः केचि—चण्डदण्डैर्निपीडिताः
 स्वप्नेऽप्यलब्धसञ्चाराः पुरन्दरसभादिषु ॥२९॥
 स्वर्गच्युतिं विलीनं च, गर्भजं बाललोलनम्;
 पश्यन्तो यन्न भिद्यन्ते, तद्वच्च तनवः सुराः ॥३०॥
 यथेह लवणाम्भोभिः पूरितो लवणोदधिः
 शारीरमानसैर्दुःखै—रसङ्ख्येयैस्तथा भवः ॥३१॥
 केचित् स्वप्नासधनव—न्नतथ्यमिह किञ्चन;
 असारं राज्यवाज्यादि, तुषकण्डनवत्तथा ॥३२॥
 तडिदाडम्बराकारं, सर्वमत्यन्तमस्थिरम्;
 मनोविनोदफलदं, बालधूलीगृहादिवत् ॥३३॥
 यश्च कश्चन कस्यापि, जायते सुखविभ्रमः
 मधुदिग्धासिधाराग्र—ग्रासवन्नैष सुन्दरः ॥३४॥
 अत एव विरज्यन्ते, नीरजोज्ज्वलमानसाः
 रोगादिव भुजङ्गाद्वा, संसारावासतोऽमुतः ॥३५॥
 यतन्ते च सदानन्द—सुधानीरधयेऽधिकम्;
 परमब्रह्म संज्ञाय, पदाय विगतापदे ॥३६॥
 स्मरज्वरजरामुख्या, दोषा भवभुवोऽत्र ये;
 सर्वथा ते न सन्त्येव, यत्र तत्परमं पदम् ॥३७॥
 सर्वकल्याणसंयोगः सर्वमङ्गलसङ्गमः
 सर्वोपादेयसीमा च, यतस्तन्मृग्यते बुधैः ॥३८॥

यथाऽमृतरसास्वादी, नान्यत्र रमते जनः

तथा मुक्तिसुखाभिज्ञो, रज्यते न सुखान्तरे ॥३९॥

तीर्णप्रायभवाम्भोधि-धृत सम्मोहकश्मलः

कश्चिदेव महाभागो, भवेत्सिद्धिसुखोन्मुखः॥४०॥

चौराकुलपथप्राप्तौ, यादृशो दुर्गसङ्ग्रहः

गम्भीरसलिलेऽम्भोधौ, द्वीपातिरथवा यथा ॥४१॥

मलाशैलगुहायां वा, ज्वलद्रश्मिर्मणिर्यथा

विवेको निर्मलस्तद्वत्, पुण्यभाजां विजृम्भते ॥४२॥

क्रियाभिज्ञानिमूलाभि-मोक्षोऽक्षेपेण सिध्यति;

ताः पुनर्देवतापूजा, गुरुसेवादयो मताः ॥४३॥

विशुद्धकेवलालोक-विलोकितजगत्त्रयः

प्रातिहार्यमहापूजा-जनितासमविस्मयः ॥४४॥

समस्तजगतामेकं, मौलिमाणिक्यमुज्ज्वलम्;

अर्हन्नेव सतां देवो, देवतागुणभूषितः ॥४५॥

गुरुर्गृहीतशास्त्रार्थः परां निस्सङ्गतां गतः

मार्त्तण्डमण्डलसमो, भव्याम्भोजविकासने ॥४६॥

गुणानां पालनं चैव, तथा वृद्धिश्च जायते;

धस्मात् सदैव स गुरु-र्भवकान्तारतायकः ॥४७॥

स पुनर्जायते ताव-दाचारात्सजनश्रुतेः

आत्मबोधविशेषाच्च, पुण्याच्चेत्याह सर्ववित् ॥४८॥

अक्षुद्रता दया दाक्ष्यं, क्षमा चाक्षविनिग्रहः
 न्यायानुवृत्तिरनघा, यत्नश्च श्रुतशीलयोः ॥४९॥
 समानधर्मवात्सल्यं, यतिधर्मादरः परः
 इत्यादिकुशलारम्भो, मुक्तिमार्गतया मतः ॥५०॥
 मोक्षोपदेशपञ्चाश-देषा भाव्या मुमुक्षुभिः
 स्यान्मुनीन्द्रमुनीशेष्टं, येन मुक्तौ स्थिरं मनः॥५१॥

इति श्रीमुनिचंद्रसूरिकृता मोक्षोपदेश-
 पञ्चाशत् समाप्ता.

२० श्री सभ्यकृत्व-स्वरूप-स्तव.

- जह सम्मत्तसरूवं, परूविअं वीरजिणवरिंदेण;
 तह कित्तणेण तमहं, धुणामि सम्मत्तसुद्धिकये १
- सामि ! अणाइअणंते, चउगइसंसारघोरकांतारे;
 मोहाइ कम्मगुरुठिइ-विवागवसओ भमइ जीवो. २
- पल्लोवलमाइअहा-पवत्तिकरणेण कोवि जइ कुणइ;
 पलिआ असंखभागुण-कोडिकोडिअयरठिइ सेसं. ३
- तत्थवि गंठी घणराग-दोसपरिणइसयं अभिद्धितो;
 गंठीय जीवोवि हहा, न लहइ तुह दंसणं नाह ! ४
- पहिलिय पविलियनाएण, कोवि पज्जत्तसन्नीपंचिंदी;
 भवो अवड्डुपुग्गल-परियट्टवसेससंसारो. ५
- अपुव्वकरणमुग्गर-घायविहियदुट्टगंठीभेओ सो;
 अंतमुहुत्तेण गओ, नियट्ठीकरणेवि सुज्जंतो. ६
- सो तत्थ रणे सुहडोव, वयरीजयजणियपरमआनंदं;
 सम्मत्तं लहइ जीवो, सामन्नेणं तुह पसाया. ७
- तं चेगविहं दुविहं, तिविहं तह चउविहं च पंचविह;
 तत्थेगविहं जंतुह, पणीयभावे सुतत्तरुइ. ८
- दुविहं तु द्वभावा, निच्छयववहारओवि अहवावि
 निस्सग्गुवएसाओ, तुह वयणविजहिं निद्धिटं. ९

- तुह वयणे तत्तरुइ, परमत्थमजाणओवि दव्वगयं;
सम्मं भावगयं पुण, परमत्थवियाणओ होइ. १०
- निच्छयओ सम्मत्तं, नाणाइमयप्पस्सुहपरिणामो;
इयरं पुण तुह समये, भणियं सम्मत्तहेऊहिं. ११
- जल-वत्थ-मग्ग-कुइव-जराइनायेण जेण पन्नत्तं;
निस्सग्गुवएसभवं, सम्मत्तं तस्स तुव्वभ नमो. १२
- तिविहं कारग-रोअग-दीवगभेएहिं तुह मयविऊहिं;
खाओवसमोवसमिय-क्खाइयभेएह वा कहियं. १३
- जं जह् भणियं तुमए, तं तह करणंमि कारगो होइ;
रोअग-सम्मत्तं पुण, रुइमित्तकरं तु तुह धम्मै. १४
- सयमिह मिच्छदिट्ठी, धम्मकहाईहिं दीवइ परस्स;
दीवग-सम्मत्तमिणं, भणंति तुह संमयमइणो. १५
- अपुव्वकयत्तिपुंजो, मिच्छमुइन्नं खावत्तु अणुइन्नं;
उवसामिय अनियट्ठी-करुणाओ परं खओवसमी. १६
- अकयत्तिपुंजो ऊसर-दव-इलिय-दडु-रुक्खनाएण;
अंतरकरणवसमिओ, उवसमिओ वा ससेणिगओ. १७
- मिच्छाइखए खइओ, सो सत्तगि खीणि ठाइ वद्धाऊ;
चउतिभवभाविमुक्खो, तव्वभवसिद्धिवि इयरौ वा. १८
- चउहा उ सासाणं, गुडाइवमणुव्व मालपडणुव्व;
उवसमिओ उ पडंतो, सासाणो मिच्छमप्पत्तो. १९

वेअगजुअ पंचविहं, तं च तु दुपुंजखयंमि तइयस्स;
खयकालचरमसमये, सुद्धाणुवेयगो होइ. २०


अंतमुहुत्तो-वसमो, छावलिय सासण वेयगो समओ;
साहियतित्तीसायर, खइओ दुगुणो खओवसमो. २१

उक्कोसं सासायण, उवसमिया हुंति पंचवाराओ;
वेयग खयग इकंसी, असंखवारा खओवसमो. २२

वीयगुणे सासाणो, तुरियाइसु अट्टिगार-चउ-चउसु;
उवसमग-खइग-वेयग-खाओवसमा कमा हुंति. २३

तिस्सुद्धि-लिंण लक्खण-दूसण-भूसण-पभावगागारा;
सइहण जयण भावण ठाण विणय गुरुगुणाइयं. २४

वित्थारं तुह समया, सया सरंताण भवजीवाणं;
सामिय तुह प्पसाया, हवेऊ सम्मत्तसंपत्ति. २५



२१ आठ दृष्टिनी सञ्जाय.

ढाल १ ली.

चतुर सनेही मोहना-ए देशी.

शिवसुखकारण उपदिशी, योगतणी अड दिह्ठी रे;

ते गुण थुणी जिनवीरनो, करशुं धर्मनी पुढी रे-

वीर जिनेसर देशना. १

सघन अघन दिनरयणीमां, बाल विकल ने अनेरा रे;

अर्थ जुए जेम जूजुआ, तेम ओघनजरना फेरा रे-वी. २

दर्शन जे थयां जूजुआं, ते ओघनजरने फेरे रे;

भेद थिरादिकदृष्टिमां, समकितदृष्टिने हेरे रे- वी. ३

दर्शन सकलना नय ग्रहे, आप रहे निज भावे रे;

हितकरी जनने संजीवनी, चारो तेह चरावे रे- वी. ४

दृष्टि थिरादिक चारमां, मुगतिप्रयाण न भाजे रे;

रयणीशयन जेम श्रम हरे, सुरनर सुख तेम छाजे रे-वी. ५

एह प्रसंगथी में कह्यु, प्रथम दृष्टि हवे कहीए रे;

जिहां मित्रा तिहां बोध जे, ते तृणअगनिसो लहीए

रे-वी. ६

व्रत पण इहां यम संपजे, खेद नहि शुभ काजे रे;

द्वेष नहि वळी अवरशुं, अेह गुण अंग विराजे रे-वी. ७

योगनां बीज इहां ग्रहे, जिनवर शुद्ध प्रणामो रे;

भावाचारजसेवना, भवउद्वेग सुठामो रे- वी. ८

द्रव्यअभिग्रह पाळवा, ओषधप्रसुखने दाने रे;
 आदर आगमआसरी, लिखनादिक बहु माने रे-वी. ९
 लेखन पूजन आपवुं, श्रुतवाचनाउद्ग्राहो रे;
 भावविस्तार सञ्जायथी, चिंतन भावन चाहो रे-वी. १०
 बीजकथा भली सांभळी, रोसांचित हुवे देहे रे;
 एह अवंचक योगथी, लहीण धरमसनेह रे- वी. ११
 सद्गुरुयोगे वंदनक्रिया, तेहथी फळ होय जेहो रे;
 योग क्रिया फळ भेदथी, त्रिविध अवंचक अेहो रे-वी. १२
 चाहे चकोर ते चंदने, मधुकर झालतीभोगी रे;
 तेम भवि सहज गुणे होये, उत्तम निमित्त संयोगी रे-वी. १३
 अेह अवंचक योग ते, प्रगटे चरमावर्त्ते रे;
 साधुने सिद्धदशासमुं, बीजनुं चित्त प्रवर्त्ते रे-वी. १४
 करण अपूर्वना निकटथी, जे पहेलुं गुणठाणुं रे;
 मुख्यपणे ते इहां होये, सुयश विलासनुं टाणुं रे-वी. १५

ढाळ २ जी.

दर्शन तारादृष्टिमां मनमोहन मेरे, गोमयअग्निसमान म.
 शौच संतोष ने तप भलुं म०, सञ्जाय ईश्वरध्यान म. १
 नियम पंच इहां संपजे म०, नहि किरियाउद्वेग म.
 जिज्ञासा गुणतत्त्वनी म०, पण नहि निज हठ टेग म. २
 एह दृष्टि होय वरततां म०, योगकथा बहु प्रेम म.
 अनुचित तेह न आचरे म०, वाळयो वळे जेम हेम म. ३

विनय अधिक गुणीनो करे म०, देखे निज गुण हाण म.
 त्रास धरे भवभयथकी म०, भव माने दुःखखाण म. ४
 शास्त्र घणां मति थोडली म०, शिष्ट कहे ते प्रमाण म.
 सुयश लहे अे भावथी म०, न करे जूठ डफाण म. ५

ढाळ ३ जी.

प्रथम गोवाळतणे भवेजी-ए देशी.

त्रीजी दृष्टि वला कहीजी, काष्ठ अग्नि सम बोध;
 क्षेप नहि आसन सधेजी, श्रवण समीहा सोध रे-
 जिनजी, धन धन तुज उपदेश. १

तरुण सुखी स्त्रीपरिवर्योजी, जेम चाहे सुरगीत;
 सांभळवा तेम तत्त्वनेजी, अे दृष्टि सुविनीत रे जि. ध. २
 सरी ए बोधप्रवादनीजी, ए विण श्रुत थलकूप;
 श्रवणसमीहा ते किसीजी, शयित सुणे जेम भूप रे-जि.ध.३
 मन रीझे तन उल्लसेजी, रीझे बुझे एकतान;
 ते इच्छाविण गुणकथाजी, वहेरा आगळ गान रे-जि.ध.४
 विघन इहां प्राये नहिजी, धर्महेतुमां कोय;
 अनाचारपरिहारथीजी, सुयश महोदय होय रे-जि.ध. ५

ढाळ ४ थी.

झांझरिया मुनिवर, धन धन तुम अवतार-ए देशी.

योगदृष्टि चोथी कहीजी, दीसा तिहां न उत्थान;
 प्राणायाम ते भावथीजी, दीप प्रभा सम ज्ञान-

मनमोहन जिनजी, मीठी ताहरी वाण. १
 बाह्यभाव रेचक इहांजी, पूरक अंतरभाव;
 कुंभक थिरता गुणे करीजी, प्राणायाम स्वभाव—म. २
 धर्मअर्थे इहां प्राणनेजी, छांडे पण नहि धर्म;
 प्राणअर्थे संकट पडेजी, जुओ अे दृष्टिनो मर्म—म. ३
 तत्त्वश्रवण—मधुरोदकेजी, इहां होये बीजप्ररोह;
 खारउदकसम भव त्यजेजी, गुरुभगति अद्रोह—मन.४
 सूक्ष्मबोध तो पण इहांजी, समकितविण नवि होय;
 वेद्य संवेद्य पदे कह्योजी, ते न अवेद्ये जोय—मन. ५
 वेद्यबंध शिवहेतु छेजी, संवेदन तस नाण;
 नय निक्षेपे अति भलुंजी, वेद्य संवेद्य प्रमाण—मन.६
 ते पद ग्रंथिविभेदथीजी, छेली पापप्रवृत्ति;
 तप्त लोह पद धृति समीजी, तिहां होथ अंत निवृत्ति—म०
 एहथकी विपरीत छेजी, पद ते अवेद्य संवेद्य;
 भवाभिनंदी जीवनेजी, ते होय ब्रजअभेद्य—मन. ८
 लोभी कृपण दयामणोजी, मायी मच्छरठाण;
 भवाभिनंदी भयभर्योजी, अफल आरंभअयाण—मन.९
 एवा अवगुणवंतनुंजी, पद छे अवेद्य कठोर;
 साधुसंग आगमतणोजी, ते जीत्यो धुरंधोर—मन०१०
 ते जीते सहेजे टळेजी, विषम कुतर्कप्रकार;
 दूर निकट हाथी हणेजी, जेम बे बठर विचार—मन.११

हुं पाम्यो संशय नहिजी, मूरख करे ए विचार;
 आळसु आ गुरु शिष्यनोजी, ते तो वचनप्रकार-मन.
 धीजे ते पती आववुंजी, आपसते अनुमान;
 आगमने अनुमानथीजी, साचुं लहे सुज्ञान-मन. १३
 नहि सर्वज्ञ जुजूआजी, तेहना जे वळी दास;
 भक्ति देवनी पण कहीजी, चित्र अचित्र प्रकाश-म०
 देव संसारी अनेक छेजी, तेहनी भक्ति विचित्र;
 एक राग पर द्वेषथीजी, एक सुगतिनी अचित्र-मन०
 इंद्रियार्थगत बुद्धि छेजी, ज्ञान छे आगमहेत;
 असंमोह शुभ कृतिगुणेजी, तेणे फलभेदसंकेत-मन०
 आदर किरिया रति घणीजी, विघन टळे मिले लच्छी;
 जिज्ञासा बुद्धसेवनाजी, शुभ कृति चिन्ह प्रत्यच्छी-म०
 बुद्धिक्रिया भवफळ दियेजी, ज्ञानक्रिया शिवअंग;
 असंमोहकिरिया दियेजी, शीघ्र सुगतिफळ चंग-म०
 पुद्गलरचना कारमीजी, तिहां जस चित्त न लीन;
 एक मार्ग ते शिवतणोजी, भेद लहे जग दीन-म.१९
 शिष्यभणी जिनदेशनाजी, कहे जन परिणति भिन्न;
 कहे मुनिनी नयदेशनाजी, परमारथथी अभिन्न-मन.
 शब्दभेद झगडो किस्याजी ? परमारथ जो एक;
 कहो गंगा कहो सुरनदीजी, वस्तु फरे नहि छेक-मन.

धर्म क्षमादिक पण मटेजी, प्रगटे धर्मसंन्यास;
तो झगडा झांटा तणोजी, सुनिने कवण अभ्यास?—म०
अभिनिवेश सघळो तजीजी, चार लही जेणे वृष्टि;
ते लेशे हवे पंचमीजी, सुयशअमृतघनवृष्टि—मन० २३

हाळ ५ मी.

धन धन संप्रति साचो राजा—ए देशी.

दृष्टिथिरामांहे दर्शन नित्ये, रतनप्रभासम जाणोरे;
भ्रांति नहि वळा बोध ते सूक्ष्म, प्रत्याहार वखाणोरे-१
ए गुण वीरतणो न विसारुं, संभारुं दिन रातरे;
पशु टाळी सुररुप करे जे, समकितने अवदातरे-ए गुण०
बालधूलि-घरलीला सरखी, भवचेष्टा इहां भासे रे;
ऋद्धि सिद्धि साव घटमां प्रगटे,
अष्ट महा सिद्धि पासे रे-ए गुण० ३
विषयविकारे न इंद्रिय जोडे, ते इहां प्रत्याहारोरे;
केवळ ज्योति ते तत्त्व प्रकाशे,
शेष उपाय असारोरे-ए गुण० ४
शीतल चंदनथी पण उपन्यो, अग्नि दहे जेम बननेरे;
धर्मजनित पण भोग इहां तेम,
लागे अनिष्ट ते मननेरे-ए गुण० ५

अंशे होय इहां अविनाशी, पुद्गलजालतमासीरे;
 चिदानंदयन--सुयशविलासी,
 केम होय जगनो आशीरे ?-ए गुण० ६

ढाल ६ वृी.

भोलिडा हंसा रे विषय न राचीए-ए देशी.

अचपळ रोगरहित निठुरनहि, अल्प होय दौय नीति;
 गंध ते सारो रे कान्ति प्रसन्नता, सुस्वर प्रथम प्रवृत्ति-
 धन धन शासन श्रीजिनवरतणुं. १

धीरप्रभावीरे आगले योगथी, मित्रादिकयुत चित्त;
 लाभ इष्टनो रे द्वंद्वअधृष्यता,
 जनप्रियता होय नित्य--धन० २

नाश दोषनो रे तृपति परम लहे, समता उचित संयोग;
 नाश वयरनोरे बुद्धि शतंभरा,
 ए निष्पन्नह योग--धन० ३

चिन्ह योगनां रे जे पर ग्रंथमां, योगाचार्यदिष्ट;
 पंचम दृष्टिथकी ते जोडीए,
 एहवा तेह गरिष्ट—धन० ४

छट्टी दिष्टी रे हवे कांता कहुं, तिहां ताराभप्रकाश;
 तत्त्वमिमांसा रे दृढ होय धारणा,
 नहि अन्य श्रुत वास—धन० ५

मन महिलानुं रे व्हाला उपरे, बीजां काम करंत;
 तेम श्रुतधर्मे रे एहमां मन धरे,
 ज्ञानाक्षेपकवंत—धन० ६
 एहवे ज्ञानेरे विघननिवारणा, भोग नहि भवहेत;
 नवि गुण दोष न विषयस्वरुपथी, मन गुण अवगुण खेत.
 मायापाणी रे जाणी तेहने, लंघी जाय अडोल;
 साचुं जाणी रे ते बीतो रहे, न चले डामाडोल-धन०८
 भोग तत्त्वनेरे एम भय नत्रि टळे, जूठा जाणेरे भोग;
 ते ए दृष्टिरे भवसायर तरे, लहे वळी सुयशसंयोग-धन०९

ढाल ७ मी.

ए छींडी किहां राखी--ए देशी.

अर्कप्रभासमबोध प्रभामां, ध्यानप्रिया ए दिष्टी;
 तत्त्वतणी प्रतिपत्ति इहां वळी, रोग नहि सुखपुष्टीरे-
 भविका, बीरवचन चित्त धरीए. १

सघळुं परवश ते दुःखलक्षण, नजवश ते सुख लहीए;
 ए दृष्टे आतमगुण प्रगटे, कहो सुख ते

कुण कहीएरे?-- भविका० २

नागरसुख पामर नव जाणे, वल्लभसुख न कुमारी;
 अनुभववण तेम ध्यानतणुं सुख, कोण जाणे

नरनारीरे?--भविका० ३

अेह दृष्टिमां निर्मळ बोधे, ध्यान सदा होय साचुं;
दूषणरहित निरंतर ज्योति, रतन ते दीपे जाचुंरे—

भविका० ४

विषभागक्षय शांतवाहिता, शिवमारग ध्रुव नाम;
कहे असंगक्रिया इहां योगी, विमल सुयश परि-
णाम रे—भविका० ५

ढाल ८ मी.

तुज साथे नहि वाळुं मारा व्हाला—ए देशी.

दृष्टि आठमी सार समाधि,

नाम परा तस जाणुंजी,

आपस्वभावे प्रवृत्ति पुरण,

शशि सम बोध वखाणुंजी;

निरतिचारपद एहमां योगी,

कहीए नहि अतिचारीजी,

आरोहे आरुढे गिरिने,

तेम एहनी गति न्यारीजी. १

चंदन गंध समान क्षमा इहां,

वासकने न गवेपेजी,

आसंगे वर्जित वळी एहमां,

किरिया निज गुण लेखेजी;

शिक्षाथी जेम रतननियोजन,
 दृष्टिभिन्न तिम एहोजी,
 तास नियोगे करण अपूरव,
 लहे मुनि केवलगेहोजी. २

क्षीणदोष सर्वज्ञ महामुनि,
 सर्व लब्धि फल भोगीजी,
 परउपगार करी शिवसुख ते,
 पामे योग अयोगीजी;
 सर्वशत्रुक्षय सर्वव्याधिलय,
 पुरण सर्व समीहाजी;
 सर्व अरथ योगे सुख तेहथी,
 अनंतगुण निरीहाजी. ३

अे अड दिट्टी कही संक्षेपे,
 योगशास्त्रसंकेतेजी,
 कुलयोगी ने प्रवृत्तचक्र जे,
 तेहतणे हितहेतेजी;
 योगीकुले जाया तस धर्मे,
 अनुगत ते कूलयोगीजी,
 अद्वेषी गुरु देव द्विज प्रिय,
 दयावंत उपयोगीजी. ४

सुश्रूपादिक अड गुण संपुरण,
 प्रवृत्तचक्र ते कहीअेजी;
 यमद्वयलाभी परदुगअर्थी,
 आद्य अवंचक लहीएजी;
 चार अहिंसादिकयम इच्छा,
 प्रवृत्ति थिर सिद्धि नामेजी;
 शुद्ध रुचे पाळे अतिचारह,
 टाळे फळपरिणामेजी. ५

कुलयोगी ने प्रवृत्तचक्रने,
 श्रवण शुद्धि पक्षपातजी;
 योगदृष्टिग्रन्थे हित होवे,
 तेणे कही अे वातजी;
 शुद्ध भाव ने सूनी किरिया,
 वेहुमां अंतर केतोजी;
 जलहलतो सुरज ने खजुओ,
 तास तेजमां तेतोजी. ६

गुह्यभाव अे तेहने कहीअे,
 जेहसुं अंतर भांजेजी,
 जेहसुं चित्त पटंतर होवे,
 तेहसुं गुह्य न छाजेजी;

योग्य अयोग्य विभाग अलहतो,
 करशे मोटी वातोजी;
 खमशे ते पंडितपरखदमां,
 मुष्टिप्रहार ने लातोजी. ७
 सभा त्रण श्रोता गुण अवगुण,
 नंदीसूत्रे दीसेजी,
 ते जाणी अे ग्रंथ योग्यने,
 देजो सुगुण जगोशेजी;
 लोक पूरजो निज निज इच्छा,
 योग भाव गुण रयणेजी,
 श्री नयविजय विबुध पय सेवक—
 वाचक यशने वयणेजी. ८

समाप्तोऽय—मात्महितकरो ग्रंथः

पुस्तक वांचनार प्रेमीने ध्यानमां राखवा

लायक अगत्यनी सूचनाओ.

- १ पुस्तकने थूंक लगाडवुं नहि.
- २ पुस्तकने अशुद्ध वांचवुं नहि.
- ३ पुस्तकने पासे राखी वाहूट करवी नहि.
- ४ पुस्तकने पग लगाडवो नहि.
- ५ पुस्तकने पटकवुं नहि.
- ६ पुस्तकने पासे राखी भोजन करवुं नहि.
- ७ पुस्तकने पासे राखी आडो करवो नहि.
- ८ पुस्तकने पासे राखी पेशाव करवो नहि.
- ९ पुस्तकनो अक्षर थूकथी भूसवो नहि.
- १० पुस्तक उपर वेसवुं के मृवुं नहि.
- ११ पुस्तकनो अग्निथी नाश करवो नहि.
- १२ पुस्तकनो पाणीथी नाश करवो नहि.
- १३ पुस्तकनो फाडीने के बीजा कोड पण प्रकारे नाश करवो नहि.

